

सुपात्रदान विषये, पंमित श्री जिनविजयमहाराज विरचित-

श्री

॥ धन्नाशालिभद्रनो रास ॥

जैनज्ञाइतने माटे.

उपावी प्रसिद्ध करनार.


श्रावक श्रीमसींह माणोक.

अमदावाद-राजनगर भिन्टींग प्रेसमां शा. मगनलाल हठीसंगे वाप्यो.

विक्रम संवत् १९६३.

सने १९०४

किम्मत १-४-०



प्रस्तावना.

आ संसारमां परित्रमण करता प्राणीनुने चुल्लकादि दश दृष्टांते दुर्लज्ज एवो मनुष्य नो जन्म, आर्यक्षेत्र, उत्तमकुल अने निरोगीकाया; ए सर्वे पामवुं दुर्लज्ज ठे. कदापी कोइ सुकृतना उदयथी ते पण पामी शकाय, परंतु श्री जिनधर्म पामवो, ते तो घणोज दुर्लज्ज ठे! ते धर्म दान, शीयल, तप अने ज्ञाव; ए चार प्रकारे ठे. तेमां दानना प्रज्ञावथी धन-सार्थवाहादिक अनेक जीवो सुख संपत्ति पामी सज्जतिना ज्ञाजन अया; शीयलना प्रज्ञाव-थी सुदर्शनशेठने शूली फीटीने सिंहासन अयुं; तपना प्रज्ञावथी दृढप्रहारी जेवा चार जीवनी हत्या करनारे पण मुक्ति मेलवी अने ज्ञावना प्रज्ञावथी नरतेश्वर महाराजने आरीसानुवनमां केवलज्ञान उत्पन्न अयुं. आ प्रकारे दान, शीयल, तप अने ज्ञावनुं फल सिद्धांतमां प्रसिद्ध ठे. तथापि आंदि दानधर्मनुं प्रधानपणुं होवाथी किंचित् दानधर्मनुं महत्वपणुं देखामीए ठीए. सर्व धर्ममां सार पदार्थ ते दानधर्मज ठे. राज, रुद्धि, स्मृद्धि, जोग, शब्द, रूप, रस, गंध अने स्पर्श तेमज पोताना तथा परना देशमां जश, महिमा अने मनोवांबित अर्थनो देनारे ते दानधर्मज ठे.

ऋषजदेव प्रजुए प्रथमं धनसार्थवाहना ज्ञवमां मुनिजनोने घृतनुं दान दीधुं, तो तीर्थ

कर पद-पाभ्या; बाहु मुनिये पांचशें मुनियोने आहार पाणी लावी आपवाथी आगळ्या ज-
न्ममां ज्वरतचक्रवर्ति-थवानुं पुण्य उपार्जन करयुं; श्रेयांसकुमरे रुषभदेव जगवानने इक्षु
रसथी प्रतिलाज्या, तो संसारनो अंत करी तेज ज्वमां मुक्तिने मेळवी; चंदनवालाये अरु
दना बाकुला महावीर प्रज्जुने वहोराव्या, तो तेज वखत उर्दशानो अंत अयो, दीव्यरूप अयुं
अने पंचदीव्य प्रगट अथा; शांतिनाथ प्रज्जुए पूर्वज्वे (मेघरथ राजाना ज्वमां) पारेवाने
अजयदान दीधुं, जेथी तीर्थंकर अने चक्रवर्तिपणानुं पुण्य प्रगट अयुं; मेघकुमारे हाथीना
ज्वमां ससलाने अजयदान दीधुं, तो महारुद्धिमान श्रेणिकराजाने घेर उत्पन्न अयो; शं-
खराजा अने यशोमति राणी मुनिने झकनुं पाणी वहोराववाथी नेमिनाथ अने राजीमती
अथा; मुनिने रत्नकंबल आपवाथी रत्नत्राई शेठाली मरुदेवीमाता अथा; सुदत्त मुनिने दान
देवाथी सुबाहुकुमर अत्यंत रूपवान अथा; वीर प्रज्जुने बीजोरापाक देवाथी रेवती श्रावि
काए तीर्थंकरगोत्र बांध्युं; तेमज मासखमणने पारणे मुनिने खीरनुं दान देवाथी धन्नकुमर
अने शालिज्जकुमर आ ज्वमां अगणित रुद्धिना जोगी अइ वैराग्य पामी दीक्षा लेइ वने
जण सर्वार्थसिद्ध विमानमां गया. त्यांथी च्यवी महाविदेहक्षेत्रे कोइ महोटा शेठने घेर
जन्म पामशे, त्यांपण सज्जुरु समीपे दीक्षा ग्रहण करी कर्म खपावी सिद्धिपदने वरशे.

धन्नकुमर अने शालिज्जकुमर मात्र मुनिने दान देवाथी अत्यंत रुद्धिवान थइ सुखी थया, तथा पाठला जवमां मात्र दाननी अनुमोदना करवाथी सुज्जझादिक आठे धन्नकुमरनी स्त्रीयो थइ; तेमज धनदत्त अने धनचंड, ए त्रण्य ज्ञाइयोए पाठला जवमां दान दइने त्रण्य वार पश्चात्ताप कख्यो, जेथी त्रण्य वखत महादुःख पाम्या. एम जाणी सर्व प्राणीनुए दान देवुं. आ प्रकारे दान देवाथी, देवराववाथी अने अनुमोदना करवाथी सुख संपदा तेमज मो क देवलोकनां सुख मले ठे अने दान देइने पश्चात्ताप करवाथी दुःख उत्पन्न थाय ठे. ते सर्व आ रास वांचवाथी पूरेपूरी रीते समजाशे.

पंढित श्री जिनकीर्तिसूरि विरचित संस्कृत चरित्र ऊपरथी पंढित श्री जिनविजय महाराजे सूरत शेहेरमां आ रास बनाव्यो ठे. असल प्रतमां इष्टांतिक श्लोकोना अर्थ नहि होवाथी तेना, तथा कठण शब्दोना अर्थ (टिप्पण तरीके) नवा कराव्या ठे.

आ रासनी अंदर कानो, मात्रा, मीनी विगेरे जे कांइ जिनाज्ञा विरुद्ध लखाणुं होय, अथवा प्रुफ सुधारतां जे कोइ जूल रहि गइ होय, तो तेने माटे चतुर्विध श्री संघनी साखे हुं मिच्छामिडुक्कमं देउं.

प्रसिद्धकर्ता.

નવું પુસ્તક.

॥ શ્રી વર્દમાનદેશના ભાષાંતર ॥

(શાસ્ત્રી અક્ષરથી તથા ગુજરાતી અક્ષરથી ઠાપેલું છે.)

આ પુસ્તકમાં આણંદ, કામદેવ, ચુલનીપિતા, સુરાદેવ, ચુલ્લગશતક, કુંભકોલીક, સદાલપુત્ર, મહાશતક, નંદિનીપ્રિય અને તેતલીપ્રિય એ રીતે દશ શ્રાવકોનાં ચરિત્ર તથા બારવ્રતનું સ્વરૂપ, આઠોવા અને અતિચાર તથા બારવ્રત ઉપર અદ્ભૂત અને ચમત્કારી કથાન અને અગીઆર પદ્મિમાનું સ્વરૂપ તથા બીજી કેટલીક કથાન વિગેરે જે ધર્મદેશના શ્રી મહાવીર પ્રત્નુએ દીધેલી અને શ્રી સુધર્માસ્વામીએ જંબુસ્વામીને કહેલી તેનો સંમાવેશ કરવામાં આવેલો છે.

આ પુસ્તક સારા ઝંચા કાગળ ઉપર ઠાપી મજબૂત પાકાં પુંઠાથી એમ્બોસીન અને સોનેરી કરાવી બંધાવવામાં આવ્યું છે. કિંમત શાસ્ત્રી બુકના રૂ ૨-૫-૦ અને ગુજરાતી બુકના રૂ ૨-૦-૦, ટપાલ સર્ચ ચાર આના.

જ્ઞાનપ્રકાશ ઓફીસ—અમદાવાદ.

॥ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः ॥

॥ श्री धन्नाशालिञ्जनो रास ॥

॥ दोहा ॥ ऐङ्श्रेणि नत क्रम कमलै, स्वस्तिश्री गुण धाम ॥ वीर धीर जिनपति
प्रते, प्रेमे करुं प्रणाम ॥ १ ॥ वसुधामे विद्या विपुल, वर दाता नितमेव ॥ समरुं चित चो-
स्के करी, ते प्रतिदिन श्रुतदेवि ॥ २ ॥ गुरु चरणांबुज सेववा, मुज मन मधुकर लीन ॥
उपगारी अरुनी तले, गुरु सम को न प्रवीन ॥ ३ ॥ सिद्धाचल वैज्रारगिरी, अष्टापद गिर-
नार ॥ समेतादि ए पंच वर, तीर्थ नमुं नित सार ॥ ४ ॥ संघ चतुर्विधने सदा, त्रिकरण शुद्ध
त्रिकाल ॥ वंडु विधि वंदन अकी, सुकृत करण सुविशाल ॥ ५ ॥ धर्म चतुर्विध उपदिशो,
जगपति जन हित काज ॥ दान शिखल तप ज्ञावना, जलनिधि तरण जिहाज ॥ ६ ॥
यतः ॥ उपजातिवृत्तम् ॥ दानं सुपात्रे विशदं च शीलं, तपो विचित्रं शुभ्र ज्ञावना च ॥
ज्ञवार्णवोत्तारण यानपात्रं, धर्मं चतुर्धा मुनयो वदन्ति ॥ १ ॥ ज्ञावार्णवः—सुपात्रने विषे दान
आपवुं, निर्मल शील पात्रकुं, विचित्र प्रकारानो तप कस्वो अने शुभ्र ज्ञावना ज्ञावनी;
ए रीते ज्ञव रूप समुद्रा पार पमारुवाने जाज समान एवो चार प्रकारानो धर्म, मुनियो
उपदिसे ठे ॥ १ ॥ प्रथम दान पद धर्मना, दाख्या-पंच प्रकार ॥ अज्ञय सुपात्र अनुकंप

तिम, उचित कीर्ति सुविचार ॥ ७ ॥ इहलोके सुख संपजे, लहिये नित नवनीधि ॥ अन्न-
यदान देते थके, परजव रुद्धि समृद्धि ॥ ८ ॥ एक शशक ऊगारते, पाम्यो रुद्धि नदार ॥
गज जवथी नर जव लह्यो, मेघकुमर मनोहार ॥ ९ ॥ तिम सुपात्र दाने करी, शिव सुख
पामे जीव ॥ चित्त वित्त शुद्ध पात्रथी, त्रिकरण शुद्ध अतीव ॥ १० ॥ पायसान्न दाने करी,
पाम्यो जोग रसाल ॥ धन्नशाह धर्माग्रणी, पद पद मंगल माल ॥ ११ ॥ शालिज्जड पिण
दानथी, सुख पाम्यो श्रीकार ॥ श्रेणिक किरियाणो कियो, नर जव सुर अवतार ॥ १२ ॥
दीजे दानदया धरी, करी चित्त सुप्रकास ॥ मनवंछित सुख पामीए, कष्टपद्रुम परे खास ॥ १३ ॥
धन्नशाह गुण वर्णवुं, वचनथकी लवलेश ॥ निडा विकथा गोदिने, श्रोता सुणो सुविशेष ॥ १४ ॥
॥ ढाल १ ली. ॥ जंबूद्वीपना नरतमां—ए देशी ॥

जंबूद्वीप सोहामणो, लाख जोयण परिमाणो रे ॥ वृत्ताकारे विराजतो, जगति कन-
कमय जाणो रे ॥ जंबूद्वीप सोहामणो ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ त्रिएय लाख सोल सहसथी,
अधिक वस्से सत्तावीशो रे ॥ कोष त्रिक ऊपर कह्या, धनु शत एक जमीशो रे ॥ जंबूण ॥
२ ॥ अठावीसे आगला, अंगूल सामातेर रे ॥ परिधि कही जंबूद्वीपनी, एहमां फार न फेर
रे ॥ जंबूण ॥ ३ ॥ नरतकेत्र दक्षिण दीशे, सोहे जंबूद्वीपे रे ॥ पांचसे ष्ठीस ठ कला, जो

यलथी अति दीपे रे ॥ जंबू ॥ ४ ॥ षट् खंरु वैताढ्ये करी, गंगा सिंधुथी सोहे रे ॥ नरत
 तणी शोन्ना घणी, देखी सुर नर मोहे रे ॥ जं० ॥ ५ ॥ मध्यखंरुमें शोन्नतो, पत्तन पुरप-
 ईठाणो रे ॥ इंडपुरी सम उपतो, अति उत्तम अहिठाणो रे ॥ जं० ॥ ६ ॥ चौराशी चहुटां न-
 लां, गढ मढ मंदिर दीपे रे ॥ देवल श्री जिनराजनां, अमर नुवनने जीपे रे ॥ जं० ॥ ७ ॥
 पौषधशाला पन्वनी, तिम वली पठननी शालो रे ॥ दानशाला अति दीपती, इप्सित दान
 रसालो रे ॥ जं० ॥ ८ ॥ गोदावरी तटिनी तिहां, अह निशि वहे असरालो रे ॥ महु मयूर
 क्रिमा करे, सुंदर, सोहे मरालो रे ॥ जं० ॥ ९ ॥ वन उपवन वानी घणी, वृहत्तणा बहु
 वृंदो रे ॥ सधन गायथी शोन्नता, पंथी पामे आणंदो रे ॥ जं० ॥ १० ॥ जितशत्रु नूपति
 तिहां, राजे धनदने तोले रे ॥ खांग त्याग गुणथी नलो, लोक सहू जय बोले रे ॥ जं० ॥
 ११ ॥ यतः ॥ उपजातिवृत्तम् ॥ इंडात् नृपत्वं ज्वलनात्प्रतापं, क्रोधयमाद्वैश्रमणाच्च वित्तं ॥
 सच्यस्थिति रामजनार्दनाच्या, मादायराज्ञः क्रियते शरीरं ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—इंड्यकी रा-
 जापणुं, अग्निथकी प्रताप, यमनी पासेथी क्रोध, कुबेरजंमारी पासेथी धन, तेमज राम
 अने जनार्दननी पासेथी सच्यस्थिति; ए सर्वे लेइने राजानुं शरीर कराय बे. ॥ १ ॥ सुंदर
 रूप सोहामणी, गुणसुंदरी पटराणी रे ॥ वचनामृतथी वरसती, शीले सीता जाणी रे ॥

धना०
५

जं० ॥ १२ ॥ रूपे रति पति सारीखो, सकल कलाये पूरो रे ॥ अरिदमनाजिध गुण नीलो,
कुमर अठे अति शूरो रे ॥ जं० ॥ १३ ॥ वरण अठार वसे सुखी, नृप आणा प्रतिपाले रे ॥
सहु को निज निज धर्मशी, कुल मारग अजुआले रे ॥ जं० ॥ १४ ॥ कोटीध्वज व्यवहारी-
या, जोग पुरंदर सारो रे ॥ दान गुणे करी आगला, निवसे अति सुखकारो रे ॥ जं० ॥ १५
॥ दृढधरमी गुरु रागीया, उत्तम कुल आचारो रे ॥ समकितवंत सदा धरे, श्रावकनां व्रत
वारो रे ॥ जं० ॥ १६ ॥ दान कष्टपद्रुम रासनी, प्रथम ढाल एह ज्ञाखी रे ॥ जिन कहे श्रो-
ता सांजलो, मन वच तनु थिर राखी रे ॥ जं ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ वरुवखती व्यवहारियो, तिहां वसे धनसार ॥ रुद्धि वृद्धि दिन दिन
अधिक, जलधि परे विस्तार ॥ १ ॥ जलधितणा जिम रत्नो, पार न पामे कोय ॥ तिम
धनसारना धन तणो, लेखो कदिय न होय ॥ २ ॥ दानादिक गुणथी अधिक, जिनधरमो गु-
ण गेह ॥ त्रिणय तत्त्व सुधा धरे, व्रतधारी शुचि देह ॥ ३ ॥ शीलवती तस गेहिनी, नाम
तिसो परिणाम ॥ दंपति जोनी अति डुरस, जिम सीता ने राम ॥ ४ ॥ पंच दान नितप्रति
दिये, व्रत पञ्चस्काण नलास ॥ दोगुंडुक सुरनी परे, विलसे जोग विलास ॥ ५ ॥

॥ ढाल २ जी. ॥ कोयलो परवत धूधलो रे लो.-ए देशी ॥

जं० ?

५

व्यवहारी धनसारने रे लो, विद्वंसंते सुख जोग रे ॥ सोजागी लाल ॥ पुत्र थया
 अति रूयमा रे लो, पूरव पुण्य संयोगे रे ॥ सोजागी लाल ॥ व्यवहारी धनसारने रे लो ॥
 १ ॥ ए आंकणी ॥ धनदत्त ने धनदेवजी रे लो, धनचंडाजिध बाल रे ॥ सो० ॥ अध्यापक
 पासे ज्ञाया रे लो, शास्त्रादिक सुविशाल रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ २ ॥ विनयादिक गुण अज्यमे
 रे लो, सकल कला ग्रहे तेह रे ॥ सो० ॥ अति सुंदर सोहामणा रे लो, देवकुमर सम देह
 रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ३ ॥ थोवन वय आव्या यदा रे लो, ताते तव ततकाल रे ॥ सो० ॥
 प्रित थकी परणाविया रे लो, कन्या अति सुकुमाल रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ४ ॥ धनश्री धन-
 देवी जली रे लो, धनचंडा सुखकार रे ॥ सो० ॥ अति रूयनी रत्नीयामणी रे लो, गुणमणि
 रयण जंमार रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ५ ॥ प्रमदाथी प्रेमे रमे रे लो, धनदत्तादिक पूत्र रे ॥
 सो० ॥ धरम करम विधि साचवे रे लो, राखे घरनो सूत्र रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ६ ॥ निर्वा-
 हक गृह जारना रे लो, जाणी पूत्र सुजात रे ॥ सो० ॥ धनसारेज्य करे तदा रे लो, स्त्री-
 युत धर्म विख्यात रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ७ ॥ नवपद ध्यान धरे जलो रे लो, पश्चिम रात्रि
 विज्ञाग रे ॥ सो० ॥ आवश्यक बे टंकनां रे लो, साचवे मन धरी राग रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥
 ८ ॥ चैत्यवंदन साते सदा रे लो, देवार्चन त्रिण्य टंक रे ॥ सो० ॥ तिर्थार्चन युगते करे रे

लो, टालवा पापना पंक रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ए ॥ रथयात्रा रलीयामणी रे लो, साधूने व-
सती दान रे ॥ सो० ॥ पम्बिवाजे जावे करी रे लो, निरवद्य असन ने पान रे ॥ सो० ॥ व्य०
॥ १० ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ जयंति वंकचूलाद्यां, कोश्या चाश्रय दानतः ॥ अवंति-
सुकुमालश्च, तिर्णा संसारसागरं ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—साधु मुनिराजने रहेवा माटे स्थानक
आपवाष्ठी कोश्या वेश्या, अवंतिसुकुमाल अने वंकचूलादिक; ए सर्वे जयवंता वर्तो. कार-
ण के, तेनु संसार सागरने तरी गया ॥ १ ॥ देशना नित्य प्रत्ये सांजले रे लो, इंपति दिल
धरी ठाम रे ॥ सो० ॥ सातहेत्रने साचवे रे लो, नियम धरे हित काम रे ॥ सो० ॥ व्य०
॥ ११ ॥ पुण्य संयोगे अन्यदा रे लो, शीलवती सुकुमाल रे ॥ सो० ॥ गर्ज धरे संयोगधी
रे लो, निरुपम जाग्य विशाल रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १२ ॥ देख्यो सुपनो दीपतो रे लो,
फड्यो फूड्यो *सुरवृद्ध रे ॥ सो० ॥ देखी आनंद जपन्यो रे लो, कंतने कहे परतद्ध रे ॥
सो० ॥ व्य० ॥ १३ ॥ कंत कहे कामिनी प्रते रे लो, होशे पूत्र प्रधान रे ॥ सो० ॥ कुल मं-
रण कुल दिनमणी रे लो, रूपे जूप समान रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १४ ॥ प्रत्यूषे अति प्रेमशुं
रे लो, तेढ्या शास्त्रना जाण रे ॥ सो० ॥ फल पूढ्यां सुइणांतणां रे लो, बोढ्या तेह सुजा

ए रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १५ ॥ अंगज अद्भुत रूपधी रे लो, होशो सुगुण निधान रे ॥ सो० ॥
सांजली शोठ खुशी थया रे लो, दीधो प्रेमे दान रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १६ ॥ अनुक्रमे गर्ज
वधे सुखे रे लो, मानस सर जिम हंस रे ॥ सो० ॥ जिन कहे बीजी ढालमां रे लो, पुण्ये
कुल अवतंस रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥ अथ त्रीजे मासे अवल, दोहद उपजे ताम ॥ जिनपूजा गुरु सेवना,
करवा उत्तम काम ॥ १ ॥ साधुने वस्त्रादिक दिनं, पोखूं संघ नंदार ॥ स्नात्र महोत्सव साचं-
वुं, विरचं जैन विहार ॥ २ ॥ पौषध सामायिक करूं, धरूं नियम चितलाय ॥ नवपदने अ-
ह निशि जंपुं, पाखूं प्रवचन माय ॥ ३ ॥ जीवदया राखण यतन, करूं करावुं सार ॥ आ-
जरणादिक अति सुजग, पहेरूं वेश नदार ॥ ४ ॥ इत्यादिक दोहद सकल, प्रतिदिन जेह न
पत्र ॥ ते ते शोठे पूरीयां, करते कोहि यतत्र ॥ ५ ॥

॥ ढाल ३ जी. ॥ दान नलट धरी दीजीए.—ए देशी. ॥

मास नव दिन साते थये, उत्तम योग तिथि वार रे ॥ शीलवती सुत प्रसवीयो, हून
हर्ष अपार रे ॥ पुण्ये सखल सुख पामीये ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ वामिये डुरित डुःख दूर
रे ॥ वंछित विपुल वैभे मिले, फले सुरवृक्ष जरपूर रे ॥ पुण्ये० ॥ २ ॥ बाल नाल स्थापन

जणी, जूमि खनन करे जाम रे ॥ कनकनिधि परगट थयो, देखी प्रमुदित थया ताम रे ॥ पुण्ये० ॥ ३ ॥ शेठने दीधी वधामणी, सुणी हरख्यो धनसार रे ॥ लाख पसाय तेहने की यो, लीयो सुजस सुप्रकार रे ॥ पुण्ये० ॥ ४ ॥ नुहव रंग वधामणां, धवल मंगल नवरंग रे ॥ याचक दान देवरावीयां, बांध्यां तोरण चंगरे ॥ पुण्ये० ॥ ५ ॥ चंद्र सूर्यादि दर्शन की यां, तृतीय दिने ततखैव रे ॥ रात्रि जागरण ठठे दीने, धर्मकार्य जिनसेव रे ॥ पुण्ये० ॥ ६ ॥ दश दिन स्थितिपतिका करी, अशुचि टाले ततकाल रे ॥ असन वसनादिके स्वजनने, पोख्या जक्ति सुविशाल रे ॥ पुण्ये० ॥ ७ ॥ जन्म समय धन प्रमटीयो, ते गुण हृदय सं- जार रे ॥ नाम धनकुमर ताते दीयो, हून सुजस विस्तार रे ॥ पुण्ये० ॥ ८ ॥ रूप लावण्य गुणे करी, अधिक नपे शुचि देह रे ॥ पंच धावे करी पालते, सुखमें वधे गुणगेह रे ॥ पु- ण्ये० ॥ ९ ॥ अनुक्रमे अष्टवार्षिक थयो, पाठव्यो पितृ निशाल रे ॥ यतनथी पठन करे त- दा, धन्नकुमर नजमाल रे ॥ पुण्ये० ॥ १० ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ माता वैरी पिता श- त्रु, बालोयेन न पाठितः ॥ न शोचते सन्नामध्ये, हंसमध्ये बको यथा ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः— जमणे बालकने जणाव्यो नथी, ते माता पिता बालकनां शत्रु जाणवां; कारण के, ते अजण

गुण कहे ठे. ॥ शार्दूलविक्रीणितवृत्तम् ॥ विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रहृन्न गुप्तं धनं, वि-
 द्या जोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः ॥ विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परं
 दैवतं, विद्या राजसु पूज्यतेन हि धनं विद्या विहिनः पशुः ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—विद्याज पुरुष
 नुं अधिकरूप, ढांकेलुं गुप्त धन, जोग, यश, सुखने आपनारी, गुरुनी पण गुरु, प्रवासमां
 वाटे जतां बंधुजन समान अने परम दैवत रूप ठे; राजदरवारमां विद्याज पूजाय ठे, पण
 धन पूजातुं नथी; माटे विद्या रहित पुरुषने जनावर समान जाणवो. ॥ १ ॥ वली पण वि-
 द्याना गुण कहे ठे. ॥ उपजातिवृत्तम्. ॥ न चोर हार्यं न च राज हार्यं, न त्रातृ ज्ञाज्यं न
 च ज्ञारकारि ॥ व्यये कृते वर्द्धत एव नित्यं, विद्या धनं सर्व धन प्रधानं ॥ ३ ॥ ज्ञावार्थः—
 विद्या रूप धन, चोर तथा राजाथी लेइ लेवातुं नथी, ज्ञाशयोथी वहेंची लेवातुं नथी, कांइ
 ज्ञार करतुं नथी अने कोइने आपवाथी घटवाने बदले निरंतर वधे ठे; माटे विद्या रूप धन
 सर्व धनमां मुख्य धन ठे. ॥ ३ ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ रूप यौवन संपन्ना, विशाल कुलसंज्ञवाः
 ॥ विद्या हीना न शोचन्ते, निर्गंधा इव किंशुकाः ॥ ४ ॥ ज्ञावार्थः—रूपाला, युवान अने म-
 होटा कुलमां उत्पन्न अएला, एवा पण जो विद्या हीन होय, तो सुगंध विनानां केशूमांनां
 फूलनी पेठे शोचता नथी. ॥ ४ ॥ विद्वत्त्वं च नृपत्वं च, नैव तुल्यं कदाचन ॥ स्वदेशे पू-

धना०
८

ज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥ ५ ॥ ज्ञावार्थः—विद्वानपणुं अने राज्ञापणुं ए कदि व-
रोवर ठेज नहि. कारण के, राजा पोताना देशमां पूजाय ठे अने विद्वान सर्वे ठेकारे पूजा
य ठे. ॥ ५ ॥ लिखित गणितादि बहोतेर कला, तिम वली शुकन विचार रे ॥ गीत नृत्यादि
विधि ग्रही, शब्दशास्त्रादि व्यवहार रे ॥ पुण्ये० ॥ ११ ॥ जोतिष निमित्त वैद्यक ज्ञलां, अ-
द्वय पसायथी तेह रे ॥ विस्मृत स्मरण ज्युं कीजीए, तेम ज्ञायो धरि नेह रे ॥ पुण्ये० ॥
१२ ॥ बुद्धि चारतणो उदधि ते, तिम वली नीतिनो जाण रे ॥ विणज व्यापारे कुशलपणो,
परिहक मांहि सुप्रमाण रे ॥ पुण्ये० ॥ १३ ॥ नीपन्यो पूत्र ते निरखीने, दिल धरी अधिक
आणंद रे ॥ अध्यापक धन आपने, संतोष्यो अतिहि अमंद रे ॥ पुण्ये० ॥ १४ ॥ बाल वय
गेहि बलवंत ते, अयो यौवन वेश रे ॥ अतुड्य अति रूप लावण्यथी, प्रगट्यो जाणे सुरेश
रे ॥ पुण्ये० ॥ १५ ॥ पंच मिली पृश्न पूढे जीके, उत्तर दिये तस ठीक रे ॥ नीति रीते करी
दाखवे, साहसपणे निरज्नीक रे ॥ पुण्ये० ॥ १६ ॥ धन सुतथी धनसारनो, वध्यो सुजस
जगमांह रे ॥ रुद्धि स्मृद्धि पामी धणी, दिन दिन अतिहि उच्चाह रे ॥ पुण्ये० ॥ १७ ॥ धव
ल पहे जिम चंडमा, प्रतिदिन अधिक दीपंत रे ॥ तेम कुमर चढती कला, कोय न तास
जीपंत रे ॥ पुण्ये० ॥ १८ ॥ चतुरपणे मात तातनां, विनय वचन प्रतिपाल रे ॥ दान क-

नु० १

८

जपित रे ॥ पुण्ये ॥ १८ ॥ चतुरपथ मात तातना, विनय बचन प्रतिपाल रे ॥ दान क-

द्वपदुम रासनी, जिन कहे त्रीजी ढाल रे ॥ पुण्ये ॥ १९ ॥

॥ दोहा ॥ कला कौष देखी करी, रूपवंत शिरदार ॥ जाग्याधिक जाणी करी, चित
चित्ते धनसार ॥ १ ॥ पुण्योदयथी माहरे, श्री जिनधर्म पसाय ॥ अंगज अद्भूत ऊपन्यो,
सयण सथल सुखदाय ॥ २ ॥ एहथी धन वाच्यो अधिक, यश हुल जगत विख्यात ॥ पं-
चमे षति बधती अइ, वारू बनी ए वात ॥ ३ ॥ सदगुण स्तवना कीजीए, तेहमां कोई न
लाज ॥ सुत पिण चित राजी रहे, एक पंथ दोइ काज ॥ ४ ॥ पंचमे बेसी शेठजी, धन
सुततणां बखाण ॥ प्रतिदिन जांखे प्रेमहां, विविध परे सुप्रमाण ॥ ५ ॥ जन्म काले ए बा-
लना, धन प्रगळ्यो अति जूर ॥ दुःख दोहग दूरे टट्यां, अम कुल अंबर सूर ॥ ६ ॥ विनय
वंत विद्या निदो, शवर नहीं को आज ॥ अग्रजात ए आगले, कोय न आवे काज ॥ ७ ॥

॥ ढाल ४ थी. ॥ पुण्य न सूकीए.—ए देशी. ॥

वयण सुणी निज तातनां रे, अग्रज सुत अकुलाय ॥ त्रिण्ये मिलीने तातना रे, आ-
वी प्रणमे पायो रे ॥ तातजी सांजलो ॥ ए अमची अरदासो रे, मूकी आमलो ॥ मन रा-
खी विसवासो रे, तातजी सांजलो ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ धनकुमर अम अनुज ठे रे, रूप
कला अजिराम ॥ तिणे करी अमे प्रसुदितपणे रे, रहीए सदा शुज कामो रे ॥ ता० ॥ २ ॥

धर्मा०
ए

ए अमने अति वालहो रे, प्राणथकी निरधार ॥ भाभी जाया दोहीला रे, जाणे सयल सं-
सारो रे ॥ ता० ॥ ३ ॥ पिण सुतनी गुण वर्णना रे, न घटे तुमने रे तात ॥ नीति शास्त्रमें
पिण कही रे, ते शूं वीसरी वातो रे ॥ ता० ॥ ४ ॥ यतः ॥ अनुष्टुब्बृत्तम् ॥ प्रत्यक्के गुरवः
स्तुत्या, परोक्के मित्र बांधवा ॥ कर्मांते दास ऋत्याश्च, पुत्राश्चैव मृतास्त्रियः ॥ १ ॥ ज्ञावा-
र्थः—प्रत्यक्कमां गुरुनां, परोक्कमां मित्र अने बांधवोनां, आपणुं कार्य अइ रह्या पढी दास अने
अनुचरोनां; तेमज पुत्र अने स्त्रीनां मरण पढी वखाण करवां ॥ १ ॥ आयावृत्तम् ॥ वृत्ति
ऊइ जिञ्च गुणो, न परुक्कं न य सुअस्स पच्चरुक्कं ॥ महिलानु नोत्तयावि हु, ननस्सए जेण
माहप्पं ॥ २ ॥ ज्ञावार्थः—सेवकना गुण प्रत्यक्के कहाथी, पुत्रना गुण परोक्के कहाथी अने
स्त्रीना गुण कदि पण नहि बोलवाथी पोतानुं महोटाइपणुं सचवाय ठे; तेम ठतां जो कदि
बोले, तो माननो नाश थाय. ॥ २ ॥ सुत गुण वर्णवते थके रे, लघुता लहीए रे आप ॥ सु
त पिण विनय न साचवे रे, मानतणो होय व्यापो रे ॥ ता० ॥ ५ ॥ कुल मर्यादाथी टले रे
न गणे मातने आत ॥ तातने पिण नवि लेखवे रे, प्राज्ञक होय जो जात रे ॥ ता० ॥ ६ ॥
ते माटे हवे आजथी रे, सुत गुण वर्णन वात ॥ मत करज्यो कोइ आगले रे, एअम वचन
विख्यातो रे ॥ ता० ॥ ७ ॥ वचन सुणी तव शेठजी रे, सुतने कहे सुविचार ॥ गुण ग्राहक

उ० १

ए

तुमे को नही रे, त्रिएये मूढ गमारो रे ॥ पूत्रजी सांजलो ॥ ए अमची एक वातो रे, मूकी
 आमलो ॥ जिम पामो सुखशातो रे, पूत्रजी सांजलो ॥ ७ ॥ ए आंकणी ॥ तुम जाया प
 ठी घरतणो रे, धन हीणो अयो जोय ॥ व्यापारे हीणा पढ्या रे, कार न माने कोयो रे ॥
 पू० ॥ ए ॥ घणुं कहेतां हीणप हुवे रे, विणसे घरनां रे काज ॥ निज साधल ऊघामते रे,
 पामीजे अति लाजो रे ॥ पू० ॥ १० ॥ ए अंगज आव्या थकी रे, लक्ष्मी लील करंत ॥ का
 र कल्प वध्यो आपणो रे, सहू जण आण वहत रे ॥ पू० ॥ ११ ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥
 एकोपि गुणवान् पुत्रो, निर्गुणैः किं शतैरपि ॥ एकश्रृंगो जगच्चक्षु-र्नक्षत्रैः किं प्रयोजनम्
 ॥ ३ ॥ ज्ञावार्थः—एक पण गुणवान पुत्र होय तो सारो, परंतु शेंकमो निर्गुण पुत्रोवमे शुं?
 कारण के, एक चंड ते आखा जगतनी आंख ठे, पण घणा नक्षत्रोवमे शुं आय? कांइ नही
 ॥ ३ ॥ एकेन हि सुवृक्षेण, पुष्पितेन सुगंधिना ॥ वासितं तद्धनं सर्वं, सुपुत्रेण कुलं यथा ॥
 ४ ॥ ज्ञावार्थः—एक पण सुगंधीदार फूलवाला सारा वृक्षवमे जेम आखुं वन सुगंधमय आ-
 य ठे, तेम सुपुत्रवमे पण आखुं कुल सारुं कहेवाय ठे ॥ ४ ॥ वरमेको गुणी पुत्रो, न च
 मूर्ख शतान्यपि ॥ एकश्रृंगस्तमोहंति, न च तारागणोपि च ॥ ५ ॥ ज्ञावार्थः—गुणवान ए-
 वो एक पुत्र होय ते सारो, पण शेंकमो मूर्ख पुत्रो सारा नहि; कारण के, एक चंड आखा

जगत्तना अंधाराने दूर करे ठे, पण ताराज्जुनो समूह करतो नथी. ॥ ५ ॥ तात वचन सुणी
ततकणे रे, त्रटकी बौड्या रे तेह ॥ एक पखो इम ताणतां रे, जाण्यो तुमचो नेहो रे ॥
तातजी सांज्जलो ॥ १३ ॥ व्यवसायार्थे जलधिमें रे, अमे जाऊं अति दूर ॥ कष्टं खमू तो-
फाननां रे, जिहां नवि दीसे खुरो रे ॥ ता० ॥ १३ ॥ तिहां जइ धन लावूं अमे रे, राखुं अ-
मे व्यवहार ॥ वलि परदेशे अलवटे रे, जाडं करण व्यापारो रे ॥ ता० ॥ १४ ॥ तरुका ताठ
घणी खमुं रे, वषाकाले रे वृष्टि ॥ झूख तृषा सहवी सदां रे, पंअ श्रम जुजु हष्टो रे ॥ ता०
॥ १५ ॥ वली सेवा राजातणी रे, अमे करूं अह निशि खास ॥ ते पिण धनने कारणे रे,
जोवो हृदय विमासो रे ॥ ता० ॥ १६ ॥ यतः ॥ मंदाक्रांतावृत्तम्. ॥ मौनान्भूकः प्रवचनपटुः
वातुलोजडपकोवा, क्हांत्याञ्जीरु यदि न सहते प्रायशो ज्ञानिजातः ॥ दृष्ट्वा पार्श्वे ज्वति च
सदा दूरतश्चाप्रगल्भ, सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यग्न्यः ॥ ६ ॥ ज्ञावार्थः—मौन धा-
रण करवाथी मूगो, बोलवामां चतुर होवाथी वाचाल अथवा बहु बोलकणो, क्मागुणथी
वीकण, सहन गुण न होवाथी तामसी, हम्मेशां पासे रहेनारो होय तो जोनारो, अने दूर
रहेतो होय तो गरिब; ए प्रकारे सेवा (चाकरी) धर्म घणोज आकरो ठे. अर्थात् ते योगी
जनोने पण अग्न्य ठे. ॥ ६ ॥ कृषिकर्मादिक बहु करूं रे, वलि नेस्ती व्यवसाय ॥ दोशीवट

नाणावटी रे, कण व्यापार कहायो रे ॥ ता० ॥ १७ ॥ इत्यादिक उपक्रम करी रे, अर्जन करुं धन कोरु ॥ अमे लाभार्थ सदा अरुं रे, किम धनो अम जोरु रे ॥ ता० ॥ १८ ॥ ए अ ह निशि स्मृतो फरे रे, न करे घरनी रे सार ॥ चौथी ढाले जिन कहे रे, पुण्ये जय जय-कार रे ॥ ता० ॥ १९ ॥

॥ दोहा. ॥ धनाने अमथी अधिक, दाखो कवण प्रकार ॥ वचन अयुक्त कहा तणो, उत्तम नही आचार ॥ १ ॥ तातने तनुज सवे सदृश, लेखवदा हित लाय ॥ नयन सदृश गणवा सदा, लोक कहे ए न्याय ॥ २ ॥ सुतमें अंतर राखते, वधे विरोध विख्यात ॥ लज्जा लागे लोकमें, हीणप पामे जात ॥ ३ ॥ तात सकळ सदा करे, सुत वांगित सुप्रकार ॥ जो सुतने पोखे नही, तो शो सगण सार ॥ ४ ॥ ते भाटे तुमे तातजी, सरिखा गण ज्यो सर्व ॥ विधि व्यवहारे चालतां, केहने न चढे गर्व ॥ ५ ॥

॥ ढाल ५ मी. ॥ (रहो रहो रहो वालहा.—ए देशी.)

शेठ कहे सुत सांजलो, हुं गुणनो आसक्त लाल रे ॥ जात सदृश सवि माहरे, पिण तुमे ठो अव्यक्त लाल रे ॥ शेठ कहे सुत सांजलो ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ यतः ॥ अनुष्टुब् वृत्तम्. ॥ गुणाः सर्वत्र पूज्यंते, पितृवंशो निरर्थकः ॥ वासुदेवं नमस्यंति, वसुदेवं नतेनराः

धना०
११

॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—सर्वे ठेकाणे गुणो पूजाय ठे, पण पितानो वंश पूजातो नथी. अर्थात् ते नकामो ठे. केमके, सर्वे लोको वासुदेवने नमस्कार करे ठे, पण तेमना पिता वसुदेवजीने नथी करता. ॥ १ ॥ नहि जन्मनि जेष्ठत्वं, जेष्ठत्वं गुण उच्यते ॥ गुणाद्गुरुत्व मायाति, दधि क्षुधं घृतं यथा ॥ २ ॥ ज्ञावार्थः—जन्मने विषे महोटापणुं नथी, परंतु गुणने विषे ठे. गुणथीज महोटाइ आवे ठे. जेमके, दूध, दही अने घी; ए सर्वमां घी महोडुं गणाय ठे. ॥ २ ॥ कुसुम प्रमुख गुणथी सदा, गुंथ्या नर धरे शीश लालरे ॥ गुणयुत वंशादिक प्रते, नृप कर धरे सुजगीश लाल रे ॥ श्लो० ॥ १ ॥ सुरजिगुणे मृगमद जणी, कीधो अतिही अमूढ्य लाल रे ॥ बावनाचंदन काष्ठने, सह चाहे बहु मूढ्य लाल रे ॥ श्लो० ॥ ३ ॥ यतः ॥ आजल फूल अति फलमां, पगे न पूजा होय ॥ चंपा फूल अमूढ्य गुण, शीर चढे सह कोय ॥ ३ ॥ ज्ञावार्थः—जो के, आवलनां फूल देखीतां घणां सुंदर जणाय ठे, तो पण ते मां सुगंधनो गुण नहि होवाथी, कोइ पगे पण अरुाम्तुं नथी; अने चंपानां फूल देखीतां फक्त घोलां ठे, परंतु तेमां सुगंधनो गुण वधारे होवाथी सर्वे लोको तेने उत्तम फूलोनी पंक्तिमां गणी माथे चढावे ठे. अर्थात् सह तेनो उपजोग करे ठे. ॥ ३ ॥ पुण्यप्रकृति गुण एहमां, प्रगट अठे अहो पूत्र लाल रे ॥ ए अंगज जनम्या पगी, अधिक थयो घरसूत्र लाल

उ० १

११

रे ॥ शैठ० ॥ ४ ॥ व्यवसायादिक पाधरा, आवे ठे अहो जात लाव रे ॥ सकल समीहित
संपदा, पामी जगत विख्यात लाव रे ॥ शैठ० ॥ ५ ॥ जो तुमने ए बालना, गुण न गमे
मनमांह लाव रे ॥ तो तुमे जाग्य पोतातणो, परखो अतिहि उष्टांह लाव रे ॥ शैठ० ॥ ६
॥ त्रीश त्रीश मासा सुवर्णना, लेइ करो व्यवसाय लाव रे ॥ लाज कमाई तेहनो, पोखो
स्वजन समवाय लाव रे ॥ शैठ० ॥ ७ ॥ इम कही चारे पुत्रने, ये मासा त्रीश त्रीश ला-
व रे ॥ एकेक दिन जोजन तुमे, देज्यो धरी सुजगीश लाव रे ॥ शैठ० ॥ ८ ॥ ते लइने
आप आपणो, स्नानके जइ ततखेव लाव रे ॥ धन अर्जन चिंता धरे, मनमें अति अहमेव
लाव रे ॥ शैठ० ॥ ९ ॥ जोजन जक्ति जणी तदा, प्रथम दिने धनदत्त लाव रे ॥ व्यवसा-
योद्यमथी करे, पिण फल जाग्यथी जति लाव रे ॥ शैठ० ॥ १० ॥ यतः ॥ अनुष्टुब्रवृत्तम् ॥
उद्यमं कुर्वतां पुंसां, जाग्य सर्वत्र कारणं ॥ समुद्र मथनाद्धेने, हरि लक्ष्मी हरो विषं ॥
४ ॥ जावार्थः—उद्यमकर्त्ता पुरुषोने बधे ठेकाणे, जाग्य कारणज्जुत ठे; कारण के, समुद्र म-
थन करवाथी, हरि लक्ष्मीने प्राप्त करता हवा अने शिव ऊरने मैलवता हवा. ॥ ४ ॥ बहुल
प्रयास थकी तिणे, लाज लह्यो अति स्वल्प लाव रे ॥ चिंते जोजन शी विधे, देशुं अतिहि
अनल्प लाव रे ॥ शैठ० ॥ ११ ॥ वाल लिया सविशेषथी, तैलग्रही तेषिवार लाव रे ॥

१अपरान्हे जोजन दियो, तेनी निज परिवार लाल रे ॥ शोठ० ॥ १२ ॥ तिम व्यसनाय अ-
की तिहां, दिन बीजे धनदेव लाल रे ॥ जोजन चपलने तैलनो, ते पिण ये स्वयमेव लाल
रे ॥ शोठ० ॥ १३ ॥ त्रीजे दिन धनचंङ्गी, करी उद्यम असमान लाल रे ॥ स्वोपार्जित ध-
नधी दिथे, श्माषने तैल निदान लाल रे ॥ शोठ० ॥ १४ ॥ कुटुंब थयो अति आकलो, सु-
छोदनधी अशेष लाल रे ॥ उदर श्मयथा घइ आकरी, वायु प्रकोप विशेष लाल रे ॥ शोठ०
॥ १५ ॥ त्रिणये सुत जांखा अथा, शोठ कहे तव तपस लाल रे ॥ देखो हवे धनकुम्भरनो,
जाण्य प्रबल सुप्रकास लाल रे ॥ शोठ० ॥ १६ ॥ झौन करीने ते रद्या, त्रिणये सुत तिल ता-
ल लाल रे ॥ पांचमी ढाल कही जली, जिन मन घरी उजमाल लाल रे ॥ शोठ० ॥ १७ ॥
॥ दोहा ॥ अथ चोथे दिवसे अवल, सज करी सवि शृंगार ॥ पितृ दत्त मासा अ-
ही, हवे ते धनकुमार ॥ १ ॥ शुकन विचारी चित्तमें, स्वर साधी शुभ काम ॥ आवयो
चहुटे चोपशुं, व्यापारार्थे ताम ॥ २ ॥ दोशी ने नाणावटी, नेस्ती ने मणीहार ॥ गांधी
साधरिया तिमज, लोहकार सोनार ॥ ३ ॥ फनिया सुखनिया वली, जोतो ऊवेरी उल ॥
कापड चोपरु प्रमुखना, पूठे पारु सतोल ॥ ४ ॥ भहेश्वर इण्येशने, हाटे बेठो हेव ॥ नही

उच्चक उतावलो, समरे श्री गुरु देव ॥ ५ ॥

॥ ढाल ६ मी. ॥ (गूरांजी थें मने गोमे न राख्यो.—ए देशी.)

एहवे देशांतरि एक प्रेष्यक आयो, महेश्वरदत्त मन जायो हो ॥ सुजग सनेही सा-
जन, अचरिज पेखो ॥ ए आंकणी ॥ लेख अनोपम तेणे ततक्षण दीधो, महेश्वरे कर धरी
लीधो हो ॥ सुजग ॥ १ ॥ गुप्तपणे तेणे वचनज कीधो, मनह मनोरथ सीधो हो ॥ सु० ॥
लेखमें लिख्यो मित्र सुमित्रे विचारी, स्थानपुरथी सुखकारी हो ॥ सु० ॥ २ ॥ उत्तर दि-
शिथी ए सार्धप सूरु, सकल क्रयाणके पूरो हो ॥ सु० ॥ आवे ठे ए पड्गालपुर पासै,
व्यवसायार्थे विलासे हो ॥ सु० ॥ ३ ॥ तेह जणी एने तुमे सनमुख जाज्यो, जेट मूकीने
मित्र आज्यो हो ॥ सु० ॥ दाय नपाय करी हाथे करेज्यो, पठे क्रियाणक सवि लेज्यो हो
॥ सु० ॥ ४ ॥ लाज घणो ठे एहमां सांजलो जाई, खोट नहीं ठे एहमां कांई हो ॥ सु० ॥ ए
क पांती अमने तुमे देज्यो, पिण एह काज करेज्यो हो ॥ सु० ॥ ५ ॥ एहवो अवसर फि-
रीने नहीं आवे, घणुं घणुं लिखे शुं आवे हो ॥ सु० ॥ पत्र वांचीने महेश्वर मन हरख्यो,
मित्रने साचो करी परख्यो हो ॥ सु० ॥ ६ ॥ चित्तमें चिते एह कार्य ठे महोटो, उच्चकपणो
इहां खोटो हो ॥ सु० ॥ प्रथम तो घेर जइ जोजन कीजे, नीति वचन चित्त लीजे हो ॥

॥ सु० ॥ ७ ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ शतं विहाय ज्ञोक्तव्यं, सहस्रं स्नानमाचरेत् ॥ लक्षं
विहाय दातव्यं, कोटिं त्यक्त्वा जिनं जजेत् ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—सो काम परुतां मूकीने ज-
मवुं, हजार काम परुतां मूकीने नहावुं, लाख काम परुतां मूकीने दान देवुं अने क्रोम
काम परुतां मूकीने जिनराजने जजवा. ॥ १ ॥ एहवो अलोची जोजन जणी पहोत्यो,
महेश्वर मन गहगहतो हो ॥ सु० ॥ महेश्वरदत्ते जे पत्र पिठाण्यो, ते धन्ने सवि १जाण्यो
हो ॥ सु० ॥ धन्नकुमर चित्तमांही विचारे, एह विणज कुण हारे हो ॥ सु० ॥ ए व्यवसाय
थी लाजज थारो, सकल कुटुंब संतोषारो हो ॥ सु० ॥ ए विलंब तणो हवे समय न दीसे,
कार्य करुं सुजगीसे हो ॥ सु० ॥ इम चिंती मित्र मंदिर आयो, रूमो ते वेश बनायो हो ॥
सु० ॥ १० ॥ यतः ॥ सज्ञायां व्यवहारे च, वैरिषु श्वसुरौकसि ॥ आरुंबराणि पूज्यंते, स्त्रीषु
राजकुलेषु च ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—सज्ञाने विषे, व्यवहारने विषे, वैरियोने विषे, सासराने घ-
र, स्त्रीयोने विषे अने राजकुलने विषे आरुंबर पूजाय ठे. ॥ १ ॥ अश्व चढीने मित्रयुत
सुख संगे, आव्यो अतिही उमंगे हो ॥ सु० ॥ सार्धपने साहमो जइ मिलीयो, विनय विवे
के करी जलीयो हो ॥ सु० ॥ ११ ॥ कुशलागम पूढी स्नेह जगायो, सार्धपने मन ज्ञायो

हो ॥ सु० ॥ वस्तु क्रयाणक सवि साटवी लीधां, सत्यकार तस दीधां हो ॥ सु० ॥ १२ ॥
 कार्य करी चित्त आणंद पावे, धनो बेगो वरुदावे हो ॥ सु० ॥ एहवे महेश्वरदत्त सार्थप
 पासे, आवे अधिक उद्धासे हो ॥ सु० ॥ १३ ॥ कुशलालाप पूढे हित आणी, मुख कहे म-
 धुरी वाणी हो ॥ सु० ॥ क्रय विक्रयतणी वात जणावे, सार्थप तक्क समजावे हो ॥ सु० ॥
 ॥ १४ ॥ धनसारेज्यने पुत्रे अमारो, ग्रहो ए सर्वे सुविचारो हो ॥ सु० ॥ देवो लेवो हवे ए
 हनी साथे, एह धनदाता अमारो हो ॥ सु० ॥ १५ ॥ महेश्वरदत्त कहे वांक अमारो, दोष न
 कोई तुमारो हो ॥ सु० ॥ आलस कीधो तस फल लीधो, चिंतित काज न सीधो हो ॥
 सु० ॥ १६ ॥ यतः ॥ आलस्यं हि मनुष्याणां, शरीरस्थो महान्तरिपुः ॥ नास्त्युद्यम समो बं
 धुः, कृत्वायं नावसीदति ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—आलस ए माणसोना शरीरमां रहेलो महोठो
 वैरी ठे, उद्यमना जेवो कोइ जाई नथी, जे करवाथी माणसोना नाश थतो नथी ॥ १ ॥
 आलस सम कोइ वैरी न दाख्यो, नीतिमें एहवो जांख्यो हो ॥ सु० ॥ पिण हवे लाज ध-
 नाने दिवारो, काज अमारो सुधारो हो ॥ सु० ॥ १७ ॥ सार्थप महेश्वर बिहु मिली जांखे,
 धनाशु हित राखे हो ॥ सु० ॥ ए सवि किरियाणां अमने दीजे, लक्ष लाज धन लीजे हो
 ॥ सु० ॥ १८ ॥ धनपति चिंते मुज कारज सीधो, में मनमान्यो कीधो हो ॥ सु० ॥ कण एक

धन्ना०
१४

विचारीने इम बोले, नही को मित्रजी तुम तोले हो ॥ सु० ॥ १९ ॥ जो तुमने ठे खप ए
पण्य करो, तो राखो सरवे जलेरो हो ॥ सु० ॥ इम कही धन लक्ष लेई जलावे, अन्यो अ-
न्ये समजावे हो ॥ सु० ॥ २० ॥ धन्नकुमर तिहांथी जले जावे, मित्रयुत धन लेई आवे हो
॥ सु० ॥ मात पिता मन बहु सुख पावे, १त्रातृजाया ते गुण गावे हो ॥ सु० ॥ २१ ॥ सहस्र
व्ययथी जव्य जोजन देवो, यश बहुलो इहां लेवो हो ॥ सु० ॥ २२ ॥ ढाल ठठी इम मन थिर
राखी, बुध जिनविजये दाखी हो ॥ सु० ॥ २३ ॥

॥ दोहा. ॥ हवे कहे धन्नो तातने, ए एक लक्ष दिनार ॥ न्यायार्जित आणया अठे,
करी वाणिज्य सफार ॥ १ ॥ तेह जणी सवि सयणने, संतोखो गुणगेह ॥ सहस्र एक सु-
वर्णनो, व्यय करवो धरि नेह ॥ २ ॥ ताते तव आणया तुरत, जांति जांति पकवान ॥ सेवा
मीठाई घणी, वदन वधारण वान ॥ ३ ॥ शालि दालि घृत अति सरस, व्यंजननो नही
पार ॥ अठार जातथी अति घणी, करी रसोई त्यार ॥ ४ ॥ पोषी सयण कुटुंब सवि, दी-
धां फोफल पान ॥ याचक जन संतोषिया, यथायोग्य देइ दान ॥ ५ ॥ शेष नवाणुं सहस्रनां,
मणिमय नूषण सार ॥ जोजाईने जक्तिथी, आपे धन्नकुमार ॥ ६ ॥ जोजाई हरषित थई,

आपे अति आशीष ॥ देवरजी अम कुल तिलक, जीवो कौमी वरीष ॥ ७ ॥

॥ ढाल ७ मी. ॥ (करेलणां घरु दे रे.-ए देशी.)

हवे ते धन्नकुमारने, तेमी कहे धनसार ॥ कुल मंरण तुं माहरे, तुं मुज कुल शण
गार ॥ चतुर जन सांजलो रे ॥ सांजलो पुण्यनी वात, चतुर जन सांजलो रे ॥१॥ ए आं
कणी ॥ अंगज तुज जनम्या पठी, अम कुल वाध्यो वान ॥ रुद्धि वृद्धि अइ अम घरे, जग
जश अयो सुप्रमाण ॥ चण ॥ २ ॥ माता शीलवती तदा, हरषित वदन विख्यात ॥ सुतनां
लिये ऊवारणां, तुं मुज सुजग सुजात ॥ च० ॥ ३ ॥ जोजाई जली जांतिशुं, रंगे गाये
गीत ॥ लाम लमावे अति घणां, देवरने सुप्रतीत ॥ चण ॥ ४ ॥ सयण संबंधी सहु मली,
करे वखाण विशेष ॥ धन्नकुमर सरिखो नही, पुण्य प्रबल सुविशेष ॥ चण ॥ ५ ॥ तव त्रिण्ये
वांधव तिहां, रोष घरे मनमांहि ॥ अणख अदेखाई करे, अवगुण ग्राहक प्रांहि ॥ चण ॥ ६ ॥
ते देखी धनसारजी, तमावीने तेह ॥ अगज त्रिण्येने तदा, समजावे ससनेह ॥ च० ॥ ७ ॥
लघु बंधव ए तुम तणो, जाग्य बले जरपूर ॥ विनय विवेक विद्या नीलो, अम कुल अंबर
सूर ॥ चण ॥ ८ ॥ एहनी सेवाशी तुमे, सुख लहेशो श्रीकार ॥ कळपवृद्ध सम एह ठे,
वांगित पूरणहार ॥ चण ॥ ९ ॥ देखो इणे एक याममें, अर्ज्या लक्ष दीनार ॥ जोजन विधि

धन्वा०
१५

जलो साचवी, संतोष्यो परिवार ॥ च० ॥ १० ॥ वली जोजाईने जलां, जूषण विविध प्र-
कार ॥ मणिमय मन गमतां घणां, कीधां धन्नकुमार ॥ च० ॥ ११ ॥ एहमां गुण ठे अति
घणा, जेवो हृदय विचार ॥ मञ्जर मूकी मन तणो, सेवो सुपरे सार ॥ च० ॥ १२ ॥ म-
ञ्जर धस्यो मनमें घणो, कौरवे पांरुव साथ ॥ तो ते दुःखीया अति थया, हास्या सघली
आथ ॥ च० ॥ १३ ॥ व्रतमांहे मञ्जर धस्यो, पीठ अने महापीठ ॥ तो स्त्रोवेद लह्यो ईहां,
ब्राह्मी सुंदरी दीठ ॥ च० ॥ १४ ॥ एहवा उपनय अति-घणा, दाख्या शास्त्र मजार ॥ जिन
कहे सातमी ढालमां, समजावे धनसार ॥ च० ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ गुण लीजे गिरुआ तणा, नवि दाखीजे दोष ॥ जाति हीन पण गुण
थकी, पामे सुखनो पोष ॥ १ ॥ जाति रूप हीणो हतो, हरिकेशी चंमाल ॥ तेहने तपना
गुण थकी, सेवे सुर जूपाल ॥ २ ॥ गुण छेबी ते अपूज्य ठे, गुणवंतो पूजाय ॥ उपनय इ-
हां सहु को कहे, वायस कोयल न्याय ॥ ३ ॥ यतः ॥ अनुष्टुब्वृत्तम्. ॥ काकः कृष्णः पिका
कृष्णा, को जेदोपिक काकयोः ॥ वसंतमास संप्राप्ते, काकः काकः पिकापिका ॥ १ ॥
ज्ञावार्थः—कागनो अने कोयल, ए वे कालां होय ठे, त्यारे कागनो अने कोयल ए वेमां शो
फेर? ते वसंतमास आवे ठते कागनो ते कागनोज रडे वे अने कोयल ते कोयलज रहे ठे.

ग

१५

॥ ढाल ० मी. ॥ (माननी मोहनी रे. अथवा नहानो नाहलो रे.—ए देशी.)

शेठ कहे सुत सांजलो रे, मनोहर माहरी वात ॥ धन धन साधुजी रे ॥ शास्त्रयकी
में संग्रह्यो रे, अनोपम ए अवदात ॥ धन धन साधुजी रे ॥ १ ॥ ए आंकणी. ॥ मुनिवर
एक महावली रे, तपसीमें शिरदार ॥ ध० ॥ पंच महाव्रत जालवे रे, साचवे पंचाचार ॥
ध० ॥ २ ॥ ठकायनी जयणा करे रे, पाले प्रवचन माय ॥ ध० ॥ भद आठे अलगा धरे रे,
टाले चार कषाय ॥ ध० ॥ ३ ॥ मासखमणने पारणे रे, त्रिकरण शुद्ध अदीन ॥ ध० ॥ गौच
रिये पहोत्यो तिहां रे, संयमथी लयलीन ॥ ध० ॥ ४ ॥ श्यासमितिये चालतो रे, कोइक नगर
मत्तार ॥ ध० ॥ करतो शुद्ध गवेषणा रे, ते गयो इन्त्य आगार ॥ ध० ॥ ५ ॥ आव्यो देखी साधुजी
रे, आविका थइ नजमाल ॥ ध० ॥ पक्कानादिक जूजूआ रे, लावी जरी जरी घाल ॥ ध० ॥
६ ॥ स्वामीजी अनुग्रह करो रे, वहोरो एहज आहार ॥ ध० ॥ देखी सदोष ते साधुजी रे,
करे अन्यत्र विहार ॥ ध० ॥ ७ ॥ आविका चित्त विलखी थई रे, बेठी घरने बार ॥ ध० ॥ एह
वे फिरतो गौचरी रे, आव्यो अवर अणगार ॥ ध० ॥ ८ ॥ सरलपणे विचरे सदा रे, गुणग्रा-
हक गुण लीन ॥ ध० ॥ अवगुण एक जोवे नही रे, सुविहितशुं लयलीन ॥ ध० ॥ ९ ॥ धर्मदा
ज देई करी रे, ऊजो घरने बार ॥ ध० ॥ विकसित वदने आविका रे, वहोरावे ते आहार ॥

धन्ना०
१६

ध० ॥ १० ॥ वांदी बे करजोफिने रे, पूढे मधुरी वात ॥ ध० ॥ तुमने अप्रीति न ऊपजे रे, तो
जाखूं अवदात ॥ ध० ॥ ११ ॥ तुम सरिखो एक साधुजी रे, आव्यो हतो इणे ठाण ॥ ध० ॥ वि
ण व्होरे विचख्यो सही रे, नवि बोळ्यो मुख वाण ॥ ध० ॥ १२ ॥ तेहनो कारण साधुजी रे,
दाखो करीय पसाय ॥ ध० ॥ तव बोळ्यो मुनिवर तिहां रे, सुण जडे सुखदाय ॥ ध० ॥ १३ ॥
ते मुनिवर महोटो यति रे, सम दम गुण संयुक्त ॥ ध० ॥ व्रतधारक वारू परे रे, पंचेंद्रिय
श्री गुप्त ॥ ध० ॥ १४ ॥ दोष बेतालीश साचवे रे, एषणाना मन शुद्ध ॥ ध० ॥ मंरुलिक दोष
ते पांचने रे, टाले ते अविरुद्ध ॥ ध० ॥ १५ ॥ तिणे मुनिवरे ए पिंरुमां रे, दोष दीगो हशे
कोय ॥ ध० ॥ तिणे कारणे लीधो नही रे, सुविहित लक्षण जोय ॥ ध० ॥ १६ ॥ यतः ॥ आ
र्यावृत्तम् ॥ ससररीरेवि निरीहा, बाहिप्रंतर परिगह विमुक्ता ॥ धम्मोवगरणमित्तं, वहांति
चारित्तरक्कठा ॥ १ ॥ जावार्यः—पोताना शरीरने विषे इच्छा विनाना, बाह्य अने अन्धंतर
परिग्रहशी मूकाएला तथा चारित्रने रक्षण करवाना अर्थि एवा मुनियो, मात्र धर्मोपकरण
नेज राखे ठे. अर्थात् बीजुं कांइ पण पासे राखता नथी ॥ १ ॥ ते मुनि सुरमणि सारिखा
रे, हूं हूं लोष्टु समान ॥ ध० ॥ हूं वायस ते हंस ठे रे, मुनि गुण रयण निधान ॥ ध० ॥ १७
हूं शृंगाव ते गज समो रे, हूं मृग मृगपति तेह ॥ ध० ॥ उदरवृत्ति कारक अग्ने रे, ते सम-

उ० १

ता गुणगेह ॥ ध० ॥ १७ ॥ इम स्तवना करी साधुजी रे, विचरे महियल मांह ॥ ध० ॥
जिन कहे आठमी ढालमां रे, श्रोता सुणो उच्चाह ॥ ध० ॥ १९ ॥

॥ दोहा. ॥ सांजलीने ते श्राविका, हरखी चित्त मजार ॥ प्रमुदितपणे आखे इशुं,
धन धन ए अणगार ॥ १ ॥ निंदा नही एहमें निकट, गुणग्राहक गंजरीर ॥ शांत दांत शु-
चि आतमा, तारण तरण सधीर ॥ २ ॥ कृपावंत कोविद प्रथम, आत्मशुद्धि अविकार ॥
सुविहित साधु शिरोमणी, रत्नत्रयी जंकार ॥ ३ ॥ मासखमणने पारणे, पिला नवि लीये
सदोष ॥ कायानी ममता नही, करे पुण्यनो पोष ॥ ४ ॥ तिम बीजो पण साधुजी, गुण
ग्राहक विख्यात ॥ आप निंदा पर स्तुति करे, धन धन एहनी मात ॥ ५ ॥

॥ ढाल ए मी. ॥ (मन जमरा रे.-ए देशी.)

एहवे एक वलि मुनि तिहां, मन हरखे रे ॥ फिरतो आहारने काज ॥ ढाल गुण पर
खे रे ॥ आव्यो तेहने आंगणे, म० ॥ ये धर्मलाज समाज ॥ ला० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥
देखीने ते श्राविका, म० ॥ वहोरावे अन्न पान ॥ ला० ॥ पूढे अंजली जोदने, म० ॥ विन
यानत शुचि ध्यान ॥ ला० ॥ १ ॥ अधुना साधु आव्या हता, म० ॥ गौजरीये गुणवंत ॥ ला०
प्रथम देखी पाठो वळ्यो, म० ॥ मुख नवि बोळ्यो संत ॥ ला० ॥ ३ ॥ बीजो मुनि आव्यो

तदा, मण॥ वहोखो अन्न आहार ॥ ला० ॥ तेहने में पूढयो तदा, म०॥ पूर्वागत व्यवहार ॥
 ला० ॥ ४ ॥ गुण वर्णन तिणे मुनितणा, म० ॥ कीधा निपट अत्यंत ॥ ला० ॥ ते निसुणी
 मन माहरो, म० ॥ प्रसन्न थयो अति संता ॥ ला०॥५॥ ए वे मुनिवरमें तुमे, म०॥ ज्ञांखो क
 रीय पसाय ॥ ला०॥ अधिक गुणे करी कुण हशे, मण॥ ते दाखो सुखदाय ॥ ला०॥ ६ ॥ तव
 ते ऋषि बोढयो तिहां, म० ॥ मनमें मन्नर आण ॥ ला० ॥ स्व प्रसंशा पर निंदता, म० ॥
 करतो बोले वाण ॥ ला०॥७॥ प्रथम ते मुनि जन रंजवा, म० ॥ मायाकारक जोर ॥ ला०॥
 धूर्त्तपरे फिरतो फिरे, म० ॥ न करे सुखथी सोर ॥ ला० ॥८॥ शुद्ध अशुद्ध गवेषणा, म० ॥
 पर वंचनने हेत ॥ ला०॥ बगला परे पगलां जरे, म० ॥ पिण नही धर्म संकेत ॥ ला०॥९॥ बीजो
 जे आव्यो हतो, म०॥ साधुने वेशे अन्न ॥ ला०॥ पटु चाटुक वचने करी, म०॥ वश्य करे जन स
 र्वत्र ॥ ला०॥१०॥ यतः॥ मायावीया माणसां, केम पतीजण जाय ॥ मोरपींठ मधुरो लवे, साप
 सपूंग खाय ॥१॥ ज्ञावार्थः—जे माया कपटी माणसो ठे, तेनी शी रीते परतीज पढे? केम
 के, पींठावालो मोर मीठुं बोले ठे, परंतु पूंठमा सहित सापने खाइ जाय ठे ॥१॥ दंजरहित
 अमे अति ज्ञदा, म० ॥ श्रेष्ठाचारी साध ॥ ला० ॥ सत्य वाक्य बोलूं सही, म० ॥ विचरूं
 तिम निरबाध ॥ ला० ॥ ११ ॥ यथावब्ध वहोरूं सदा, म० ॥ परिमित अन्नने पान ॥ ला० ॥

अम सरिखा शुद्ध साधुने, म० ॥ देजो सदा बहुमान ॥ ला० ॥ १२ ॥ अमे पिण पूर्वे एहत्री,
 म० ॥ विरची माया जाल ॥ ला० ॥ जनरंजन कीधा घणा, म० ॥ हवे ते सवि विसराल ॥
 ला० ॥ १३ ॥ इम कही ते मुनि संचख्यो, म० ॥ नगरीमें तिणताल ॥ ला० ॥ वचन सुणी ते
 श्राविका, म० ॥ पामी दुःख असराल ॥ ला० ॥ १४ ॥ चिंते एह ठे निर्गुणी, म० ॥ वासठा
 दिक दुष्ट ॥ ला० ॥ जे शुद्ध साधु निंदा करे, म० ॥ ते कहीए निघृष्ट ॥ ला० ॥ १५ ॥ प्रथम
 साधु अति ही जलो, म० ॥ सुविहितमां शिरदार ॥ ला० ॥ बीजो पण गुण रागीयो, म० ॥
 जग जन तारणहार ॥ ला० ॥ १६ ॥ त्रीजो ए गुण मञ्जरी, म० ॥ पापी मांही प्रधान ॥ ला० ॥
 एहनो मुख अवलोकते, म० ॥ दुकृत होवे निदान ॥ ला० ॥ १७ ॥ ए दृष्टांते सुणी तुमे, म० ॥
 मञ्जर गोमो पुत्र ॥ ला० ॥ मञ्जर मूक्याथी सदा, म० ॥ लहेशो यश सर्वत्र ॥ ला० ॥ १८ ॥ इम
 धनसार अंगज प्रते, म० ॥ समजावे अहनीश ॥ ला० ॥ नवमी ढाले जिन कहे, म० ॥
 विनय वहो सुजगीश ॥ ला० ॥ १९ ॥

॥ दोहा. ॥ अथ धनसार तणा तनुज, त्रिणये मूढ महंत ॥ पितृदत्त शिक्षा सुणी,
 मनमें द्वेष धरंत ॥ १ ॥ अवसर पामी एकदा, कहे तातने जात ॥ मया करी मुज ऊपरे,
 सुणो तातजी वात ॥ २ ॥ धने जे कारज कियो, तेहवो न करे कोय ॥ इण विधि बल क-

रते थके, जगमें हांसो होय ॥ ३ ॥ कागल वांची कपटथी, सार्धपने समजाय ॥ गजा वि
ना गौरव धर्यो, कस्यो सकल व्यवसाय ॥ ४ ॥ दाम काम जब ऊपन्यो, तव तिहां सत्यं
कार ॥ देई करनी मुझिका, जिम तिम राख्यो कार ॥ ५ ॥ एहवे वखते आवियो, इच्य
महेश्वरदत्त ॥ लक्ष लाज देई करी, ग्रह्यां क्रयाणक ऊत्त ॥ ६ ॥ आज पढी हवे एहवो, नवि
करवो व्यवसाय ॥ तेह लाज शा कामनो, जिणे करी ईजत जाय ॥ ७ ॥

॥-ढाल १० मी. ॥ (कपूर होय अति ऊजलो रे.-ए देशी.)

निसुणी सुतनी वीनती रे, तव बोढ्यो धनसार ॥ ए शी वात कही तुमे रे, अणजा-
णी इणिवार ॥ पुत्र जी, समजो शीख सुजाण ॥ तुमे म करो ताणा ताण ॥ पुत्र जी, तु
मे लहेशो दुःखनी खाण ॥ पुत्र जी, समजो शीख सुजाण ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ दाम वि-
ना पिण कीजीए रे, बुद्धि बले व्यवसाय ॥ धननो इहां कारण नहीं रे, सहुको कहीए न्या-
य ॥ पु० ॥ स० ॥ २ ॥ यतः ॥ बलथी बुद्धि आगली, जो उपजे ततकाल ॥ वानर वाध वि
गोइया, एकलमे शीयाल ॥ १ ॥ व्यापारे धन हारवे रे, बुद्धि विना धनवंत ॥ बुद्धे सुर नर
वश हूवे रे, बुद्धे यश पसरंत ॥ पु० ॥ स० ॥ ३ ॥ धन्नकुमरे निज बुद्धिथी रे, लीधा लक्ष दीना
र ॥ तुमने बुद्धि नहीं तीसी रे, जिणे करी होय जयकार ॥ पु० ॥ स० ॥ ४ ॥ हौंश होय जो

तुम तणे रे, तो फिरी करो व्यवसाय ॥ एकेको दिन आजथी रे, नोजन जगति कराय ॥
 पु० ॥स० ॥ ५ ॥ इम कही मासा सुवर्णना रे, चारेने स्वयमेव ॥ चोशठ चोशठ आपीया
 रे, व्यापारार्थे हेव ॥पु०॥स०॥६॥ सुख्य तनुज त्रिण्ये तदा रे, पहोत्या १पण्यागार ॥ किरि
 याणां लीधां घणां रे, जाणी लाज अपार ॥ पु०॥ स०॥ ७॥ कर्मवशे ते वस्तुमां रे, लाज नो
 न रह्यो लाग ॥ अर्धो दाम जूड्यो तदा रे, अति नद्यमथी अजाग ॥पु०॥स० ॥ ८ ॥ नोजन
 विधि चूली गया रे, त्रिण्ये दिवसे तेह ॥ शाम वदनथी ते तदा रे, बेठा आवी गेह ॥ पु० ॥
 स० ॥१॥ अथ चोथे दिन साहसी रे, धन्नकुमार उदार ॥ शुकनादिक अवलोकन रे, निश्च-
 य करे तिणिवार ॥ पु० ॥ स० ॥ १० ॥ लाज होशे पशुथी जलो रे, धारी इम मन धीर ॥
 नगरमां कौतुक जोवतो रे, पहोत्यो चोहटे सधीर ॥पु०॥स०॥ ११ ॥ पशु क्रय थाय ठे जी-
 हां रे, तिहां आव्यो निरज्जीक ॥ बेठो सस्थानक ग्रही रे, चावंतो मुख पीक ॥ पु०॥ स० ॥
 १२ ॥ तेहवे एक आव्यो तिहां रे, शूरु वेचण नर कोय ॥ लक्षण पूर्ण देखी करी रे, ३ली
 धो धन्ने सोय ॥ पु० ॥स०॥ १३ ॥ एहवे नृप जितशत्रुनो रे, अरिदमनाजिघ जात ॥ ४मेष
 जणी क्रीमाववा रे, आव्यो ते सुविख्यात ॥ पु० ॥स०॥ १४ ॥ देखी ५नरत्र धन्ना तणो रे,

१ करियाणावालांनी डकाने. २ बोकमो. ३ पांच मासा सुवर्ण आपी घेतो लीधो. ४ बोकमो. ५ बोकमो.

धनाप
१ए

बोलावे नृप जात ॥ युद्ध करावीजे ईहां रे, तुम अम गग साक्षात ॥ पु० ॥ स० ॥ १५ ॥
जीते जेहनो बोकमो रे, ते पामे धन लक्ष ॥ स्वर साधीने आदस्यो रे, पिण धन्ने परतक्ष ॥
पु० ॥ स० ॥ १६ ॥ अन्योन्ये मस्तक थकी रे, घेटा युद्ध करंत ॥ हास्यो अज अरिदमननो
रे, धन्न उरत्र ज्रीपंत ॥ पु० ॥ स० ॥ १७ ॥ देखी पराक्रम अज तणो रे, चिंते राजकुमार
॥ ए हूरु जो हुवे आपणे रे, तो लहीये जश सार ॥ पु० ॥ स० ॥ १८ ॥ लक्ष दीनार देई कहे
रे, ते अरिदमन आणंद ॥ ए आपो हूरु अम प्रते रे, ईप्सित दुम्ने अमंद ॥ पु० ॥ स० ॥
१९ ॥ धन्नकुमार कहे क्रीनवा रे, हूरु राख्यो महाराज ॥ लक्ष मूख्य द्यो अम प्रते रे, जो
तुम घेटा काज ॥ पु० ॥ स० ॥ २० ॥ ततरुण रायकुमार तिहां रे, देई लक्ष दीनार ॥ अज ले-
ईने चालीयो रे, परिवृत निज परिवार ॥ पु० ॥ स० ॥ २१ ॥ लाख द्योय धन लेईने रे, आ
व्यो धन्न आगार ॥ मात पिता हरषित हूआ रे, तिस सखलो परिवार ॥ पु० ॥ स० ॥ २२ ॥
ज्व्य जोजन सवि सयणने रे, जक्ति विशेषथी दीध ॥ ढाल दशमी श्रोता सुणो रे, जिन
कहे पुण्यथी सिद्ध ॥ पु० ॥ स० ॥ २३ ॥

॥ दोहा ॥ जोजन विधि करी जक्तिथी, शेष ङ्व्य सुखकार ॥ जोजाईने आपीयो,
वहेंचीने तिणिवार ॥ १ ॥ जोजाई लीये जामणां, दिनमें दो दो वार ॥ जीजीकार सदा

नु० १

१ए

जपे, स्वारथ जगमें सार ॥ ९ ॥ यतः ॥ आधा आवो आदर दिथे स्वर्ण रुप्यादि दृष्टा, पासे
कोइ बेसवा न दिथे निर्धनानां जनानां ॥ तुमे अमारि जीवितप्राणः स्वार्थ एको हि ज्ञव्य,
आप्या विना अमे कोण तुमे कोण स्वार्थहीनान् वदंति ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—सोनुं अने रुपुं
जोइने आप पधारो साहेव ! एवी रीतनो आदर आपे अने निर्धन पुरुषोने कोइ पासे बेस
वा पण न थे. तमे अमारि जीवितप्राण ठो, ए वधाभां एक स्वार्थज सारो थे. स्वार्थ रहित
पुरुषोने एअ कहे थे के, अमे कोण ? अने तमे कोण ? ए रीतेसहु स्वार्थनी सगाइ थे. ॥१॥
सयण सयल मुख उच्चरे, धन धन धनकुमार ॥ बुद्धिकी लहमी वरे, नहि संकेश लिंगार
॥ ३ ॥ ते सुणि धनदत्तादि सुत, त्रिणये करे विचार ॥ धन्ना आगत आपणो, किम चलशे
व्यवहार ॥ ४ ॥ इम आलोचो चित्तमें, वीनवियो धनसार ॥ तात सुणो एक वीनती, अम
मननी इणिवार ॥ ५ ॥ युद्ध प्रतिज्ञाये करी, लाव्यो धन बे लक्ष ॥ पिण जो घटो हारतो,
तो फल होत प्रत्यक्ष ॥ ६ ॥ अविचाख्यां एहवां करे, द्यूतादिकनां काज ॥ तिणे करी जा
णां ठां हवे, रहेशे नही घर लाज ॥ ७ ॥ तुमने लोच वध्यो घणो, तिणे ते वद्वज्र आय ॥
जो नूखयो हुवे अति घणो, पिण कर छय न जिमाय ॥ ८ ॥ ते माटे वरजो तुमे, हृदय
करी सुविचार ॥ आज पढी हवे एहवो, न करे धनकुमार ॥ ९ ॥

॥ ढाल ११ मी. ॥ (माला क्यां ठे रे.—ए देशी.)

कहे धनसार ते त्रिणय तनूजनै, ए तुम वात में जाणी ॥ ज्ञाग्यहीनने कांई न सूजे,
 ज्ञाग्यबले सुखखाणीरे ॥ मञ्जर मूको रे ॥ मार्दवथी सुखवास, ते मत चूको रे ॥ १ ॥ ए
 आंकणी ॥ तुमने ए धनकुमर संगाये, पूरव वेर कोइ दीसे ॥ एहनो वचनादिक पिण तुम
 ने, न गमे विसवावीसे रे ॥ म० ॥ २ ॥ यतः ॥ अनुष्टुब्वृत्तम्. ॥ यं दृष्ट्वावर्द्धते क्रोधः, स्ने
 हश्च परिहीयते ॥ सविज्ञेयो मनुष्येण, एष मे पूर्व वैरिकः ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—जेने देखीने
 क्रोध वधे ठे अने स्नेह घटे ठे, ते उपरथी माणसे एम जाणवुं के, जरूर आ पुरुष महारो
 पूवज्जवनो वैरी हशे. ॥ १ ॥ धन अर्जीने सयण संतोषां, कारज उन्तम कीधां ॥ मणिम
 य आन्नुषण मन गमतां, जोजाईने दीधां रे ॥ म० ॥ ३ ॥ ए निस्पृह निज कुलनो पोषक,
 सदुशुं हित बहु राखे ॥ तुम विण सयल सयण ए सुतना, अह निशि गुण सुख जांखे रे
 ॥ म० ॥ ४ ॥ मञ्जर मनमें अधिक धरंते, पंकप्रिय दुःख पाम्यो ॥ ते दृष्टांत सुणो एक
 चित्ते, तस न अयो कोइ कामो रे ॥ म० ॥ ५ ॥ नयरी अयोः कोशल देशे, नृप काकुस्थ
 सोहावे ॥ न्यायवंत दाने अति शूरो, राम समान कहावे रे ॥ म० ॥ ६ ॥ ते नगरीमें एक
 प्रजापति, पंकप्रिय इशे नामे ॥ स्त्री पुत्रादिक परिकर परिघल, तिणे करी सवि सुख पा

मेरे ॥ म० ॥७॥ पिण तिममें ठे एक अपलक्षण, गुण कोइनो नवि सांसे ॥ ईर्ष्याये करी
 ने सहु जनना, गुण ते अवगुण जांसे रे ॥ म० ॥७॥ जो कोइनो गुण आवश्यपणाथी, सां
 जले तो शीर दूखे ॥ पांच मिले जो गुणना रागी, तो तेहजुं अति रूसे रे ॥ म० ॥८॥ यतः ॥
 पिशुन कषाय न परिहरे, जो कीजे सो लक्ष्म ॥ अंबा गिरिमञ्जे वसे, तो हि कषायणि गुह्य
 ॥ १ ॥ जावार्थः—जो कदि सो सारां काम करीए, तो पण चादियो भाएल कदापि कषाय
 त्याग करे नही, जेम आंवो पर्वत उपर वसे, तो पण तेनी गोटली तो कषायेली ने कषाये
 लीज रहे ठे ॥ १ ॥ जो वारे कोई सज्जन थइने, तो निज शिर ?आस्फाले ॥ वाख्यो केह-
 नो न रहे पापी, क्रोधे तनु परजाखे रे ॥ म० ॥ १० ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम् ॥ क्रोधःपरिता-
 पकरः, सर्वस्योद्देगकारकः क्रोधः ॥ वैरानुपंग जनकः, क्रोधेन स्रुगति हर्ताः ॥३॥ जावार्थः—
 क्रोध परिताप उपजावनारो, सर्वने उद्देग करावनारो, वैरनुं अनुसंधान करनारो अने सुग-
 तिने हरनारो ठे ॥ ३ ॥ तव तस पुत्र विचारे चित्ते, तातने वन मूकीजे ॥ तो सहूना मन-
 में सुख थावे, गृहकार्यादिक कीजे रे ॥ म० ॥ ११ ॥ इम निश्चय करी तातने जांखे, तुमे
 हवे वनमां पधारो ॥ इष्टदेवनुं नाम जपीने, निज अवतार सुधारो रे ॥ म० ॥ १२ ॥ जन

१ मायुं कूटे.

धना०
२१

संक्लेश थकी पंकप्रिये, सुत वचने पिण प्रेक्ष्यो ॥ वनमा कोई सरोवर तीरे, तृणगृह रच्यो
सुजलेरो रे ॥ म० ॥ १३ ॥ अन्नादिक वस्त्रादिक प्रतिदिन, पुत्र पिताने पूरे ॥ तिहां रहे पं-
कप्रिय मन हरखे, चिंता ठांकी दूरे रे ॥ म० ॥ १४ ॥ मञ्जरथी जूनु पंकप्रिय ए, एकाकी
रह्यो वनमें ॥ ढाल इग्यारमी जिन इम ज्ञांखे, मञ्जर म धरो मनमें रे ॥ म० ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ एक दिवस काकुस्थ नृप, परिवृत बहु परिवार ॥ आखेटक कार्ये गयो,
वन गहने सुविचार ॥ १ ॥ बाण कवाणे साचवी, नीलांबर धरी देह ॥ नृप मृगया करतो
फिरे, पल काजे अति तेह ॥ २ ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम्. ॥ मृग मीन सङ्गनानां, तृण जल
संतोष विहित वृत्तिनां ॥ लुब्धक धीवर पिशुना, निष्कारण वैरिणो जगति ॥१॥ ज्ञावार्थः—
मृग तृणवने, माठलां जलवने अने सङ्गल पुरुषो संतोषवने पोतानुं गुजरान चलावे ठे;
तेम ठतां तेमना अनुक्रमे पारधी, मञ्जी अने चानीयातुं विना कारणे जगत्मां वैरी ठे.
॥ १ ॥ उष्णकाल आतप बहुल, नृपति सुक्रोमल काय ॥ कुधा तृषा श्रम प्रमुखथी, आकू
ल व्याकूल थाय ॥ ३ ॥ सरोवर देखी सुजग, आवे जलने अर्थ ॥ एहवे ते पंकप्रिये, नृप
दीठो सामर्थ्य ॥ ४ ॥ जल आणी आगल धर्यो, अमृत सम अजिराम ॥ पारुल पुष्पा
दिक थकी, वासित शीतल स्वाम ॥ ५ ॥ जोजन पिण ज्ञावे करी, दीधो नृपने ताम ॥

उ० १

२१

शीतल वांयाये तिहां, राय करे विश्राम ॥ ६ ॥ यतः ॥ सज्जन आठ्या प्राहुणां, मागे चार
रतन्न ॥ वाणी पाणी साधरो, संपति सारु अन्न ॥ ७ ॥ अल्पजक्ति अवसर तणी, ते पण
वहुली प्राय ॥ विण अवसर जे कीजिए, ते तो नावे दाय ॥ ८ ॥

॥ ढाल १२ मी. ॥ (राजि मृगानयणीरी नागरी फूली.-ए देशी.)

राजि नृप कहे तुं एकाकी, राजि किम रहे ठे इहां अहिकारी ॥ राजि किम विस-
रेजी कहे नपगारी, राजि जेणे कीधी सेवा सारी, राजि नृप कहे तुं एकाकी ॥ ए आंक-
णी ॥ राजि एणे वनमें एणे ठामे, राजि इहां रहे ठे कहे शे कामे ॥ राजिण ॥ १ ॥ राजि
मृग मृगपति वलि मुनिवरने, राजि वलि विद्यासाधक नरने ॥ राण ॥ राजि पिण गृहवेसे
वनमे रहेवो, राजि एतो अचरिज कारण कहेवो ॥ राण ॥ २ ॥ राजि तव बोड्यो पंकप्रिय
वाणी, राजि सुण नृपति तुं गुणखाणी ॥ रा० ॥ राजि हुंतो नगरी अयोधानो वासी, रा-
जि कुंजकार कला अचयासी ॥ राण ॥ ३ ॥ राजि स्त्री पुत्रादिक ठे बहुला, राजि माहरे तिहां
ठे कण सवला ॥ रा० ॥ राजि कोईना गुणवर्णन में न खमाये, राजि मुजप्री मौन न प्राये
॥ राण ॥ ४ ॥ राजि कोई परगुण मुज संजलावे, राजि तो मुज शिर दूखण आवे ॥ राण ॥
राजि गुणवर्णन सुणतां टालूं, राजि नही तो निज शिर आस्फालूं ॥ राण ॥ ५ ॥ राजि एह

अवगुणं मुजमें म्होटो, राजि परगुण न सहू अई ठोटो ॥ रा० ॥ राजि नित्य कलहो हुवे
 बहु साथे, राजि तिणे लाज न रही मुज हाथे ॥ रा० ॥ ६ ॥ यतः ॥ अगणिज्जंतिअ नासइ वि
 ज्ञा, पिद्धिज्जंतिअ नासइ पज्ञा ॥ कुट्टिज्जंतिअ नासइ ज्ञा, अइबोलंतिअ नासइ लज्ञा ॥
 १ ॥ ज्ञावार्थः—फरव्या विना विद्या नाश पामे, पीरुवा अको प्रजा नाश पामे, बहु मार
 वाथी ज्ञार्या नाश पामे अने घणुं बोलवार्थी लज्ञा नाश पामे. ॥ १ ॥ राजि तव आलोची
 निज मनमें, राजि तव वास कीयो ए वनमें ॥ रा० ॥ राजि निज पिंन ज्ञणी प्रतिपालूं,
 राजि मनर्थी नदवेगने टालूं ॥ रा० ॥ ७ ॥ राजि सुणी वाक्य ईशां नूपाळे, राजि चिंते
 तव चित्त विचाले ॥ रा० ॥ राजि देखो एह दुःखीयो दीसे, राजि एतो दुःख पामे ठे रीसे
 ॥ रा० ॥ ८ ॥ राजि पिण एह माहरो उपगारी, राजि मुज सेवा कीधी सारी ॥ रा० ॥ राजि
 अवसर लही जेह न चूके, राजि सज्जनता पिण नवि मूके ॥ रा० ॥ ९ ॥ राजि तेहनी जइए
 वलिहारी, राजि तस कीजे सेवा सारी ॥ रा० ॥ राजि कीधा गुणने जे लोपे, राजि तेहने
 परमेश्वर कोपे ॥ रा० ॥ १० ॥ राजि एणे अन्न नदक मुज दीधो, राजि एणे जीवित कारज
 कीधो ॥ रा० ॥ राजि वली सुंदर स्थानक आपी, राजि मुज सेवे ठे गुणव्यापी ॥ रा० ॥
 ११ ॥ राजि हवे एहने सुखीयो कीजे, राजि उपकृति गुण संजारीजे ॥ रा० ॥ राजि नर

ए थइये एणे टाणे, राजि तो यश जगमें सहु जाणे ॥रा० ॥ १२ ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम्. ॥
 दो पुरिसे धरणी धरे, अहवा दोएहिं धारिया धरणी ॥ उवयारे जस्स मई, उवयारं जो न
 उल्लवई ॥ ९ ॥ ज्ञावार्थः—जगतूने विपे वे पुरुषो धरतीने धारण करनारा ठे, अथवा वे पुरु
 पोवमे पृथ्वी धारण कराय ठे. तेमां एक तो ए के, जेनी उपकार करवानी बुद्धि ठे ते अने
 वीजो जे उपकार बुद्धवे नही ते; एटले करेला उपकारनो बदलो वाले ते. ॥१॥ राजि इम
 चित्त चिंती नृप बोले; राजि पंकप्रियघी निज दिल खोले ॥ रा० ॥ राजि तुं साचो बंधव
 महारो, राजि तिला माटे नगर पधारो ॥रा०॥१३॥ राजि तुने असन वसन बहु देशूं, रा-
 जि वली जगति विशेषे करेशूं ॥ रा० ॥ राजि रहेवाने सदन सजोमां, राजि देशूं बहु हा-
 थी घोमा ॥ रा० ॥ १४ ॥ राजि मुह मागी लखमी लेज्यो, राजि मुज पासे बेठा रहेज्यो ॥
 रा० ॥ राजि तुम पूरव वात जे कहेशे, राजि ते तो तस्कर दंभ लहेशे ॥ रा० ॥ १५ ॥ राजि
 इम कही नृप थयो असवारी, राजि पासे पंकप्रिय कुंजकारी ॥ रा० ॥ राजि निज नगरी
 जणी जव चाले, राजि तव सेना मिली समकाले ॥ रा० ॥ १६ ॥ राजि मंत्री सामंत स-
 मेला, राजि आवीने थया सहु जेला ॥ रा० ॥ राजि इम बारमी ढाल ए जाखी, राजि जि

धन०
१३

न कहे पुण्य सघले साखी ॥ रा० ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ चालते वनमें नृपे, दीठी कन्या एक ॥ वृद्धे बोरा वीणती, कुजपरे
थई ठेक ॥ १ ॥ मृगनयणी चंझाननी, चंपकवरणी देह ॥ देखी नृप चित चिंतवे, शूं रति
रंजा एह ॥ २ ॥ के बलवा मुजने इहां, आवी ठे वनदेव ॥ के इंझाणी अपचरा, रमवा का
रण हेव ॥ ३ ॥ रूपवंत रलियामणी, शामामें शिरदार ॥ पूवुं एहनें प्रेमशुं, नाम ठाम सु
प्रकार ॥ ४ ॥ इम चिंती पूठे नृपति, ते बाला प्रते ताम ॥ रे जड़े मुजने कहों, नाति नाम
तिम ठाम. ॥ ५ ॥

॥ ढाल १३ मी. ॥ (योगिणी मनमानी.—ए देशी.)

तव बोली बाला सुकुमाला, करी लाज घुंघट सुविशाला रे ॥ कामिनी मन मानी ॥
अहो जूनाथ सुणो मुज वाणी, हुं रे कहुं मुज करम कहाणी रे ॥ कामिनी मन मानी ॥
१ ॥ ए आंकणी ॥ अंगदेश चंपानो वासी, मुज तात हुतो सुखवासी रे ॥ का० ॥ निर्या-
मिक विद्या अज्यासी, तस तनया हुं वूं तुम दासी रे ॥ का० ॥ २ ॥ नाम खरका मुज ताते
दीधो, मुज यतन घणो तेणे कीधो रे ॥ का० ॥ तातजी मुजने लेई संगे, चाढ्या जलवट
वाटे रंगे रे ॥ का० ॥ ३ ॥ दैवप्रयोगे प्रवहण जांग्यो, एक फलग हाथे तव लाग्यो रे ॥ का० ॥

उ० १

१३

तिणें तरती तरती उपकंठे, आवी हूं समुद्धने कंठे रे ॥ का० ॥ ४ ॥ ईण वनमें रही काल
 गमावुं, वननां फल फूलने खावूं रे ॥ का० ॥ आत तात सवि रह्या परदेशे, हूं एकाकी ए
 णे वेशे रे ॥ का० ॥ ५ ॥ राय सुणी मन प्रमुदित आवे, तव मंत्रीने समजावे रे ॥ का० ॥
 एकन्यानां यतन करेज्यो, लेई वाहनी मांही धरेज्यो रे ॥ का० ॥ ६ ॥ राजा कुशले नगरे
 आव्या, घणां जीत निशान बजाव्या रे ॥ का० ॥ रूप अधिक खस्कानो जाणी, तस राये
 करी पटराणी रे ॥ का० ॥ ७ ॥ हित धरी नाम लीलावती आप्यो, वलि आरुंवर बहु आ
 प्यो रे ॥ का० ॥ कामचोग तिणसैंती विलसे, राय अहनिशि मनशुं हरषे रे ॥ का० ॥ ८ ॥
 पंकप्रियने पिण सनमान्यो, कीधो गुण ते सवि जाण्यो रे ॥ का० ॥ असन विसन आवास
 अनेरा, दीधा तस अतिहि जलेरा रे ॥ का० ॥ ९ ॥ गाममें परुह वजाव्यो जाणी, सह
 सांजलज्यो सुप्रमाणीरे ॥ का० ॥ पंकप्रिय खस्का वात जे कहेशे, ते तस्करनो फल लहे
 शे रे ॥ का० ॥ १० ॥ सुख विलसंतां दिवस गमावे, पुनरपि वली ते ऋतु आवे रे ॥ का० ॥ रा
 जा रयवामीए जावे, राणीयुत अति वरुदावे रे ॥ का० ॥ ११ ॥ साथे पंकप्रिय पिण आवे,
 तव राणीने राय बोलावे रे ॥ का० ॥ १२ ॥ बदरी वृह देखीने पूठे, एहनो नामने गुण कहो

श्यो ठे रे ॥ का० ॥ ११ ॥ राणी कहे तव वृद्ध ए केहनां, हूं नाम न जाखुं एहनां रे ॥ का० ॥
 एहनां फल कहो प्रिय कुण खावे, सुख मनमें अचरिज आवे रे ॥ का० ॥ १३ ॥ निसुणी त्रटक
 चठी पंकप्रियने, कहे ईम शूं कहे ठे एहने रे ॥ का० ॥ सुजश्री पिण बोळ्युं न रहेवाये, एह
 वचन ते किम सहेवाये रे ॥ का० ॥ १४ ॥ ईम कही निज मस्तक आस्फाले, अही ? दृपद
 थकी ततकाले रे ॥ का० ॥ प्राकृत ठंडे दोधक जांखे, मन शंक किशी नवि राखे रे ॥ का०
 ॥ १५ ॥ यतः ॥ काले बोरां वीणती, आज न जाणे खस्क ॥ पुनरपि अटवी करीश घर,
 पिण न सहू ए अणस्क ॥ १ ॥ नृप अवदात सुणी मन कोप्यो, ईणे वचन अमारो लोप्यो
 रे ॥ का० ॥ में लीलावती नाम आरोप्यो, एणे खस्का नाम न लोप्यो रे ॥ का० ॥ १६ ॥
 मनथी लाज वले नही जेहने, शूं कीजे कहो हवे तेहने रे ॥ का० ॥ पुनरपि श्कांतारे लेई
 मूक्यो, ते सघला सुखश्री चूक्यो रे ॥ का० ॥ १७ ॥ पूर्वपरे तृण गृह करी बेगो, पिण चिंता
 सागरमां पेगो रे ॥ का० ॥ व्याघ्र आवी जव शब्द सुणावे, तव पंकप्रिय दुःख पावे रे ॥
 ॥ का० ॥ १८ ॥ मरण ज्ञये तेणे र्गर्ता कीधी, लघु मुखश्री सुपरे सीधी रे ॥ का० ॥ संध्या स-
 मये तेहमां पेसे, अंग संकुचित करी बेसे रे ॥ का० ॥ १९ ॥ खाम थकी बाहिर जव आवे,

तव मरण समय तस आवे रे ॥ का० ॥ गाथा वे लिखे ते विहु पासे, पुत्र आवी वांचे ते
 नदासे रे ॥ का० ॥ १० ॥ गाथा यथा ॥ आर्यावृत्तम् ॥ वग्ध जयेण पविठो, बुहाहलु निग्गमं
 मि असमत्तो ॥ अट्टवसट्टो वसल्ल, पुत्त य पत्तो अहं निहणं ॥ १ ॥ जावार्थः—वाघना जय-
 थी खारुमां पेठेलो, कुधाए पीरुएलो, खारुमांथी वहार नीकलवाने असमर्थ अने आहट
 दोहट चित्तवालो एवो हुं मरण पासु तुं ॥ १ ॥ इह लोंगंमि डुरंतं, परलोग विवाहगे डुइ
 विवागे ॥ वह वयणेणं पावे, वज्जिज्जा पुत्त अससकं ॥ २ ॥ जावार्थः—वध रूप वचनथी जी
 व आ लोक अने परलोकने विषे डुःखना विपाकने पामे. ते कारण माटे हे पुत्र ! तमे अदे
 खाइनो त्याग करजो. ॥ २ ॥ ते गाथानो अरथ विचारी, थया धर्मतणा अधिकारी रे ॥
 का० ॥ अणख अदेखाई दूर निवारी, उपदेश अनोपम धारी रे ॥ का० ॥ २१ ॥ पंकप्रिय
 परे तुम डुःख लहशो, जो मञ्जर मनमां वहशो रे ॥ का० ॥ कहे धनसार सुणो सुत साचो,
 ए वातमें कांई न काचो रे ॥ का० ॥ २२ ॥ तेहजणी मन मञ्जर वारी, धरो प्रीति धन्नाथी
 सारी रे ॥ का० ॥ तेरमी ढाल कही सुविचारी, जिनविजये अति जयकारी रे ॥ का० ॥ २३ ॥

॥ दोहा. ॥ तव बोडया तिण्ये तनुज, साच कही तुमे वात ॥ अणख अदेखाई तणां,
 फल विरुधां सहि तात ॥ १ ॥ अमे कहुं तुं हित वचनथी, द्यूत व्यसन डुःखदाय ॥ इह

धना०
१५

लोके ईजत घटे, परजव पिण न खटाय ॥ १ ॥ होरु न कीजे होंशथ्री, होरु अकी धन
हाण ॥ नलराजा होमे करी, पाम्यो दुःखनी खाण ॥ ३ ॥ पांरुव पांचे वन वश्या, होमे
हारी राज्य ॥ सात व्यसन मांही प्रथम, एहिज कार्य अकार्य ॥ ४ ॥ यतः ॥ उपजाति-
वृत्तम्. ॥ द्यूतं१ च मांसं२ च सूरा ३ च वेश्या ४, पापार्द्धि ५ चोरी ६ परदार सेवा ७ ॥ एता
निःसप्त व्यसनानि लोके, घोरातिघोरं नरकं नयंति ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—जूवटुं, मांस,
मदिरा, वेश्यागमन, आहेकीकर्म, चोरी अने परस्त्रीगमन, आ सात व्यसनो अति घोर
नरकने विषे लेई जाय ठे. ॥ १ ॥ जे माटे ए होरुथ्री, लाव्यो धन बेलक ॥ अमने ते कारण
अकी, छेप वधे परतक ॥ ५ ॥ तात कहे तमे द्यूतनी, वात कही हित काज ॥ पिण बुद्धे
करि लीजिए, वंठित सिद्धि समाज ॥ ६ ॥ ज्ञाग्यबले बुद्धे करी, चिंतित कार्य करंत ॥ ज्ञा
ग्यहीन उद्यम करे, ते सवि निष्फल जंत ॥ ७ ॥

॥ ढाल १४ मी. ॥ (ते तरिया ज्ञाइ, ते तरिया ज्ञाइ.—ए देशी.)

कहे धनसार सुणो रे पूता, तुमे कां एम विगूता रे ॥ कुमति रूप कादवमां खूत्या,
बोदो गो जेम कूता रे ॥ कहे धनसार सुणो रे पूता ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ ज्ञाग्यहीन तुमे
परतख दीसे, शुं कहीए करि रीसे रे ॥ मूल इव्य संजारो खीमे, पठे ज्ञांखो सुजगीसे

नु० १

१५

रे ॥ कहे० ॥ २ ॥ होंश तुमारे ठे हजी दिलमें, व्यवराये धन वरवा रे ॥ इम कही १शत
 शत मासा आपे, व्यापारादिक करवा रे ॥ कहे० ॥ ३ ॥ तव त्रिणये तै मासा लेई, दोशी-
 वटमां आवे रे ॥ वस्त्र अनोपम त्रणये शतनां, लेई ग्रंथी बंधावे रे ॥ कहे० ॥ ४ ॥ चौटे आ
 वी चित्त विमासी, एक गयो जल पीवा रे ॥ एक तिहां क्रीडाविधि निरखे, एक अशुचाने
 करवा रे ॥ कहे० ॥ ५ ॥ एहवे तस्कर अवसर जाणी, ग्रंथी लेई नागो रे ॥ ठल थकी तै-
 णे त्रिणये धूत्या, हृदय करीने कागो रे ॥ कहे० ॥ ६ ॥ त्रिणये मिली ते वस्तुने जोवे, खूणे
 नज्जा रोवे रे ॥ अन्योन्ये अत्यंत विगोवं, लाज पोतानी खोवे रे ॥ कहे० ॥ ७ ॥ काजल
 सम निज वदन करीने, गृहमें आवी बेसे रे ॥ तात वाक्त जाणी मन चिंते, शुं होवे नि-
 ष्फल होंशे रे ॥ क० ॥ ८ ॥ चोथे दिन धन्नकुमर विचारें, चतुर शुकन स्वर धारे रे ॥ का-
 ष्ठपीठ चौटे मलपंतो, व्यवसायार्थे पधारे रे ॥ का० ॥ ९ ॥ एहवे ते नगरे व्यवहारी, धनप
 ति नामे कहावे रे ॥ गशठ कोमि दिनार तणो प्रति, कृपणमें मुख्य सोहावे रे ॥ क० ॥
 १० ॥ फाट्यां त्रूट्यां वस्त्र पूराणां, परनां लेई लुढे रे ॥ तुछ अन्न शमाषादिक खावे, उखर-
 णे नित पोढे रे ॥ क० ॥ ११ ॥ कहे घृत गामे तैलादिक जीमे, मुनिपरे स्नाननो त्यागी रे ॥

१ सो सो मासा सुवर्ण.

२ अमदादिक.

३ कांई पाश्र्या विना सूई रहे.

घना०
२६

तांबूल ठामे १कसेलो लेवे, परगृह जोजन रागी रे ॥ क० ॥ १२ ॥ देवतणो दर्शन नवि वां
ठे, देव ड्यने चाहे रे ॥ गुरुने गृहमें पेसण नापे, गुरुनुं लेण उमाहे रे ॥ क० ॥ १३ ॥
जिहाचर देखीने आपे, वार देई समकाले रे ॥ वली विशेषे गलहथ देई, संतोषे तस गाले
रे ॥ क० ॥ १४ ॥ कोमी व्यय करे कोईक काजे, तो विषमज्वर आवे रे ॥ दान देतां देखे
जो ततक्षण, मस्तक पीमा थावे रे ॥ क० ॥ १५ ॥ देवानी तो वात न जाणे, लेवा वेला
शूरो रे ॥ निंदा करवा तत्पर आये, पाप थकी ते पूरो रे ॥ कहे० ॥ १६ ॥ यतः ॥ मालिनी
वृत्तम् ॥ कण कण जिम मेले कीटिका धान्य केरो, मधुकरी मधु संचे जोगवे को अनेरो
॥ तिम धन कृपिकेरो नोपकारे दिवाये, इम हि विलय जाये अन्यथा अन्य खाये ॥ १ ॥
जावार्थः—जुन! कीमियो दाणो दाणो जेगो करीने धान्यनो संग्रह करे ठे, माखील टांपे
टांपे करी मधनो संचय करे ठे; परंतु ते धान्यने अने मधने जेम बीजो कोई जोगवे ठे
तेम कृपणनुं धन पण उपकारने विषे न अपातां, एमने एम जतुं रहे ठे. अथवा बीजो को
ई खाई जाय ठे. ॥ १ ॥ पाणिगृहणादिक कोई कामे, उत्तम जोजन खावे रे ॥ लंघन न
करे ते बीजे दिवसे, अतिसार तस थावे रे ॥ कहे० ॥ १७ ॥ पुत्रने पिण एक पैसो नापे,

१ आंवलीनो कचूको.

मु० १

२६

कण कणथी धन मैले रे ॥ सयण कुटुंब मिली सवि तेहने, श्मातंग मांहे जेले रे ॥ कहेण
 ॥ १७ ॥ मरणतणो ज्ञय मनमां न गणे, न गणे सुजस सवाई रे ॥ चौदमी ढाले जिन इम
 ज्ञांखे, कृपणनी कुटिल कमाई रे ॥ कहेण ॥ १९ ॥

॥ दोहा. ॥ चित्तमें चिंते कृपण ते, लोन्नवशे धरी गर्व ॥ बल करी माहरा पुत्र ए,
 रखे लीए धन सर्व ॥ १ ॥ इम आलोचीने तुरत, लीधां रत्न उदार ॥ ठासठ कोमि दिनार-
 नां, स्वल्पपणाथी सार ॥ २ ॥ मंचक जूदी करायने, कोरी घाड्यां तुरत ॥ सयनासन ते
 ऊपरे, कृपण करे दिन रात ॥ ३ ॥ इम करते तस एकदा, आव्यो अंगे रोग ॥ धन व्ययथी
 वीहतो अको, न करे औषध योग ॥ ४ ॥ मरण समय निज पुत्रने, तेनी करे अरदास ॥
 में धन कोमिगमे विपुल, विलश्या जोग विलास ॥ ५ ॥ ते ज्ञानी ए पर्यंकने, सतीय परे
 मुज साथ ॥ श्रतवने संस्कारज्यो, शेष सकल तुम साथ ॥ इम कहेतो ते मूढमति, प-
 र्यंके तिणिवार ॥ विलगी मूर्खांगत अयो, पहेत्यो जम आगार ॥ ७ ॥ गोमायो बूटे नही,
 मृतक खाटथी जाम ॥ तव तेहनी स्त्री तनुजने, कहे निसुणो गुण धाम ॥ ८ ॥ खाट स-
 हित एइने तुमे, करो अग्निसंस्कार ॥ सुणी कृपण सुत तेहने, लेइ चाड्या तिणिवार ॥ ९ ॥

१ चंमाल.

२ स्पशान जूमिमां.

३ वाकी रहे ते तमे लेज्यो.

प्रेतवने जव ते गया, तव तेहनो रखवाल ॥ कलह करी पर्यंकने, लेई चाल्यो चंमाल ॥ १० ॥
॥ ढाल १५ मी ॥ (गोरमी गुणवंती.—ए देशी.)

हवे पर्यंक ते लेइने रे सुरीजन, चौटा विचे चंमाल ॥ पूरव पुण्य फलियो ॥ वेचण-
ने वेठो तिहां रे सुरीजन, जोवे बाल गोपाल ॥ पूरव पुण्य फलियो ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥
साटवे पिण लेवे नहि रे सु०, मृतकतणो तेह जाण ॥ पू० ॥ दीठो धन्ने दूरथी रे सु०, सुं-
दर खाट सूवाण ॥ पू० ॥ २ ॥ स्वर साधीने मूलव्यो रे सु०, लीधो देई १ दाम ॥ पू० ॥ उ
पमावी घेर आणीयो रे सु०, पर्यंक धन्ने जाम ॥ पू० ॥ ३ ॥ अग्रज तव त्रिण्ये तिहां रे सु०,
हसवा लाग्या तास ॥ पू० ॥ मृतके खांठथी पामशे रे सु०, दाम प्रमुख सुविलास ॥ पू० ॥
४ ॥ खाट ग्रही गृहमें यदा रे सु०, ठवकावे धनसार ॥ पू० ॥ ततक्षण ईसने ऊपलां रे सु०,
जूजूआं श्रयां सुप्रकार ॥ पू० ॥ ५ ॥ रतन अमूलिक नीसख्यां रे सु०, खाटग्रंकी तिणिवार
॥ पू० ॥ गशठ कोमी दिनारनां रे सु०, हरख्यो तव धनसार ॥ पू० ॥ ६ ॥ सुतने कहे सु-
णो एहना रे सु०, जाग्यतणो बल जूर ॥ पू० ॥ पग पग पामे संपदा रे सु०, पुण्यतणे अं-
कूर ॥ पू० ॥ ७ ॥ यतः ॥ अनुष्टुब्वृत्तम्. ॥ पदे पदे निधानानि, योजने रसकुंपिका ॥ जाग्य

ई ना न पश्यंते, बहूरत्ना वसुंधरा ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—पगले पगले निधान एटले धनना ज्ञ
 मारंने अने योजने योजने रसकुंपिका प्रत्ये, ज्ञाग्यहिन पुरुषो नथी जोई शकता; परंतु
 पृथ्वी तो बहु रत्नवाली ठे. ॥ १ ॥ एह थकी अह निशि तुमे रे सु०, शूं राखो ठो रोश ॥
 पू० ॥ राजाथी मञ्जर धरे रे सु०, रांकने पीरुतो सोश ॥ पू० ॥ नांखी पिण लागे नही रे
 सु०, सूरज साहमी खेह ॥ पू० ॥ स्वान अर्प थकी ज्ञसे रे सु०, पिण गज सम किम
 तेइ ॥ पू० ॥ मृग मृगपति तुलना करे रे सु०, गुंजा कनकथी जेम ॥ पू० ॥ उत्पल खंरु
 मणि रत्नथी रे सु०, दुर्जन सज्जन तेम ॥ पू० ॥ १० ॥ नवलख ताराथी नही रे सु०, तेज प्र
 काश परूर ॥ पू० ॥ करे उद्योत अवननी तले रे सु, अंबर नग्यो सूर ॥ पू० ॥ ११ ॥ अवगु
 णने आदर नही रे सु०, गुणवंतो पूजाय ॥ पू० ॥ गुणवंता पंकज प्रते रे सु०, मस्तके राखे
 राय ॥ पू० ॥ १२ ॥ साहसिक गुणे एकलो रे सु, रखवाले वन सिंह ॥ पू० ॥ शेषनाग पि
 ण सत्वथी रे सु०, धारे धरा निरबीह ॥ पू० ॥ १३ ॥ मञ्जरथी दुःख पामीए रे सु०, म
 ञ्जर कलह जंमार ॥ पू० ॥ मञ्जर नरकनुं वारणुं रे सु०, मञ्जरे नही जव पार ॥ पू० ॥ १४ ॥
 रुद्राचार्य तणी परे रे सु, मञ्जरथी दुःख दंद ॥ पू० ॥ ढाल थंदरमी ए थई रे सु, जिन कहे
 वचन अमंद ॥ पू० ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ पंचाचार विचारधर, परिवृत बहु परिवार ॥ क्रिया कुशल विद्या बहूल,
रूडाचार्य गुणधार ॥ १ ॥ चार साधु ते गह्वमें, सुविवेकी सुविख्यात ॥ दानादिक जिन
धर्ममें, शोचनीक साक्षात ॥ २ ॥ बंधुदत्त मुनिवर प्रथम, ज्ञानतणो जंकार ॥ षटदर्शना
शास्त्रनो, जाणे सकल विचार ॥ ३ ॥ वादलब्धिथी विधिध परे, जीत्या तार्किक जौर ॥
जितकाशी जिनशासने, बिरुद वहे कवि मोर ॥ ४ ॥ प्रजाकराख्य बीजो जलो, तपसीमें शि
खार ॥ मासखमणने पारणे, अविच्छिन्न व्यवहार ॥ ५ ॥ कनकावली रत्नावली, वज्रावली
विचित्र ॥ सिंहनीक्रीडित तप प्रमुख, आराधे सुप्रवित्र ॥ ६ ॥ त्रीजो सोमिल नाम मुनि,
निमित्तशास्त्रनो जाण ॥ कालत्रय वेत्ता निपुण, श्रुतज्ञानी सुप्रमाण ॥ ७ ॥ कालिक नामे
मुनिवरू, क्रियापात्र शुचि गात्र ॥ चोथो चिहुं गति टालवा, पाले प्रवचन मात ॥ ८ ॥ चारे
साधु शिरोमणी, रत्नत्रय जंकार ॥ पंचाश्रव दूरे करे, निर्मम निरहंकार ॥ ९ ॥ गुण देखीने
जन सकल, करे सेवा सतकार ॥ मान दान मुनिवर प्रते, साधे विविध प्रकार ॥ १० ॥

॥ ढाल १६ मी. ॥ (श्री जिनशासन जग जयकारी.—ए देशी.)

रूडाचार्य तो मुनिवर पूजा, देखीने दुःख पावे रे ॥ महरथी मन एम विचारे, ए
हमें शो गुण जावे रे ॥ अणख तजो रे, अणख तजो रे ॥ अणख थकी दुःख लहीए रे

॥ पापस्थानक ए दुःखदाता, ते साचो सदहीए रे ॥ अणिख तजो रे, अणीख तजो रे ॥
 १ ॥ ए आंकणी ॥ हूं आचार्य सकल गुण दरीयो, विद्यामृतथी जरीयो रे ॥ पंचाचारादिक
 अनुसरीयो, तप जप संयम वरीयो रे ॥ अणिख० ॥ २ ॥ मुज मूकीने एहने बहु जन, बहु
 मानादिक आपे रे ॥ यश विस्तार करे सवि अह निशि, गुणमंदिर करी थापे रे ॥ अ० ॥
 ३ ॥ एहवो मठर अह निशि राखे, जन आगें पिण ज्ञांखे रे ॥ गुण लेवे नहि विद्यादिकनो,
 तेहने तृण सम दाखे रे ॥ अ० ॥ ४ ॥ एहवे कुसुमपुरे परवादी, षटशास्त्री मद जरीयो रे
 ॥ षटदर्शनना वादने जीते, ठात्र थकी परवरीयो रे ॥ अ० ॥ ५ ॥ जीतकाशी थई जैनज-
 तीने, निंदे मठर मातो रे ॥ टींटोनी परे मन मद राखे, शिवमतथी अति रातो रे ॥ अ० ॥
 ६ ॥ कुसुमपुरेशी संघे मिलीने, साधु वे शीघ्र पठायार रे ॥ रुडाचार्य समीपे ते पिण, वि-
 हार करंता आया रे ॥ अ० ॥ ७ ॥ वात करी आचारज आगें, जो वादी जीताये रे ॥ तो
 जिनशासन केरी उन्नति, अधिकी सहुमें थाये रे ॥ अ० ॥ ८ ॥ सांजली रुडाचारज तिलि
 दिशे, ततरुण कीध प्रयाणो रे ॥ हीन शुकनथी विलंब विचारे, बहुश्रुत दोत्रे शाणो रे ॥
 अ० ॥ ९ ॥ बंधुदत्त निज साधुने श्रेषे, ते वादी जीतेवा रे ॥ सूरज आगें तेज न सोहे,

जो कीजे लख दीवा रे ॥ अ० ॥ १० ॥ तिम ते सूर्य समोवके मुनिवर, पोटली पुत्रपें आवे रे ॥
 राजसज्जामां वादस्थलथी, परवादीने हरावे रे ॥ अ० ॥ ११ ॥ सौगत मतवासी ते वादी,
 कृष्ण कृतता मत आपे रे ॥ स्यादवादथी सुपरें तेहने, उत्तर उत्तम आपे रे ॥ अ० ॥ १२ ॥
 समजावे तस न्याय निपुणथी, कुमति कदाग्रह ठंडो रे ॥ १ शिवमारगने जो तुमे वंढो, तो
 जिनमतशुं रठ मंढो रे ॥ अ० ॥ १३ ॥ वादी नमीने मुनिवर चरणे, मान तजे तिणि वेला
 रे ॥ जैनतणो जय जय सहू बोले, जैनमती थई जेला रे ॥ अ० ॥ १४ ॥ अनुक्रमे रुडा-
 चारज चरणे, बंधुदत्त मुनि आवे रे ॥ संघ सकल मिली ते मुनिवरनी, विरुदावली बोलावे
 रे ॥ अ० ॥ १५ ॥ वादी शकदली कृपाण तुं साचो, वादी गज शिर सिंह रे ॥ वादि गरुड
 गोविंद विषद तुं, वादीश्वर मांही लीह रे ॥ अ० ॥ १६ ॥ वादी घूकने ज्ञास्कर सरिखो, वा-
 दी कंद कूदालो रे ॥ वादी श्मोधुम धरट विराजे, वादी जन जूपालो रे ॥ अ० ॥ १७ ॥
 सरस्वति तुं कंठात्तरण सोह, जिनशासन शिणगारो रे ॥ सोलमी ढाले जिन इम ज्ञांखे,
 पुण्ये विरुद उदारो रे ॥ अ० ॥ १८ ॥

॥ दोहा ॥ बंड़ीजनना मुख थकी, सुणि विरुदावली सार ॥ धमधमीयो रोषे करी,

१ मुक्तिना मार्गने. २ केलने कापवा माटे खमग जेवो. ३ घउं. ४ घंटी.

रुद्राचार्य तिणिवार ॥ १ ॥ सावाशी ते साधुने, देवी तो रही दूर ॥ पिण मठरथी रूडने,
कोप चढ्यो जरपूर ॥ २ ॥ बंधुदत्त जांखो थयो, देखी गुरु अपमान ॥ संघे पिण आचार्य
नो, मठर लढ्यो असमान ॥ ३ ॥

॥ ढाळ १७ मी. ॥ (ईंर आंवा आंवली रे, ईंर दामम डाख.-ए देशी.)

एहवे सांकेतनपत्तने रे, कृपापाल विख्यात ॥ नृप हिंसक ठे अति घणोरे, असत्य
वचन अवदात ॥ नरेसर, पापी मांही प्रधान ॥ नरक तणो ए निदान, नरेसर पापी मांही
प्रधान ॥ १ ॥ ए आंकणी. ॥ पंचाश्रव पूरा करे रे, मिश्यात्व श्रुति राग ॥ अश्वमेध अजमे
घना रे, नरमेधादिक याग ॥ न० ॥ २ ॥ दान दीये श्वाश्रव प्रते रे, जाणीने गुरु जोग ॥
तिल तैलादिक नूकन्यका रे, लवणादिक शुन योग ॥ न० ॥ ३ ॥ जैनतणो छेपी घणो रे,
साधुने थें अति दुःख ॥ परदेशी राजा परें रे ॥ पापतणो करे पोष ॥ न० ॥ ४ ॥ सांकेतनपुर
परठ्यो रे, उपसर्ग करी साधु ॥ नीलाना मुनि मृग कढ्या रे, विचरे सदा निरावाध ॥ न०
॥ ५ ॥ रुद्राचार्य ते अन्यदा रे, सांजळ्यो ते अधिकार ॥ तव सोमिल मुनि बोलिया रे,
अनुमति थो एह सार ॥ न० ॥ ६ ॥ गुरु आज्ञाश्री आवीया रे, सांकेतनपुर मांही ॥ गुप्तपणे

धन्नां०
३०

मंत्री घरे रे, पहात्या अतिहि उच्छांहि ॥ न० ॥ ७ ॥ पुष्य नक्षत्रे निपाईया रे, जूपे जुवन न
दार ॥ वसवानी वेला ज्ञणी रे, पूढ्या विप्र तिवार ॥ न० ॥ ८ ॥ नृपने वसवा मंदिरे रे, जे
दिन दाख्यो विप्र ॥ सोमिले मंत्री आगले रे, उषाप्यो ते क्षिप्र ॥ न० ॥ ९ ॥ यामिनी मध्य
समय सही रे, थाशे विद्युत्पात ॥ नृप मंदिर परुशे तिणे रे, जोज्यो ते साक्षात ॥ न० ॥
१० ॥ मंत्रीये सवि जूपने रे, ज्ञाप्यो तेह वृत्तांत ॥ शय कहे मंदिर तजी रे, रहिशुं जई
एकांत ॥ न० ॥ ११ ॥ रात्रि समय नृप मंदिरे रे, विद्युत्पात ते आय ॥ देखी नृप विस्मय
अयो रे, प्रणमे मुनिना पाय ॥ न० ॥ १२ ॥ धर्मोपदेश देई करी रे, कीधो समकितवंत ॥
वारुव मान मर्दन कीयोरे, नैमित्त शास्त्रथी तंत ॥ न० ॥ १३ ॥ बंधुदत्त परें आवीयो रे,
आमंवरथी पूर ॥ शोभा तेहनी सांजली रे, कोप्यो ते रुडसूर ॥ न० ॥ १४ ॥ प्रजाकर तप
सी जलो रे, कालिक तिम क्रियावंत ॥ देखीने गुण तेहना रे, स्तवना करे सहू संत ॥ न०
॥ १५ ॥ ते श्लाघा रुद्राचार्यने रे, सांजलतां न सुहाय ॥ तिणे करीने चारे मुनि रे, शिथि-
लाचारी ते आय ॥ न० ॥ १६ ॥ गह्व शिथिल गुणथी अयो रे, व्यवहारे पिण हीण ॥ सरो-
वर पिण फाटे सदा रे, पाल होवे जो खीण ॥ न० ॥ १७ ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ राज्ञिध
र्मिणो धर्मिष्ठाः, पापे पापाः समे समाः ॥ राजान मनुवर्त्तते, यथा सजास्तथा प्रजाः ॥ १ ॥

उ० १

३०

ज्ञावार्थः—धर्मि राजा ठते प्रजा पण धर्मिष्ठ आय; पापी राजा ठते पापी; सम ठते सम; ए
 रीते प्रजा राजाने अनुसरिने चाले ठे. माटे जेवो राजा तेवी प्रजा. ॥ १ ॥ गुण न गमे त
 स कोयनो रे, आप मुरारी शाय ॥ तिणे करी रूझाचार्यनो रे, पापे पिंरु जराय ॥ न० ॥
 १७ ॥ किड्विप ध्यानथकी मरी रे, अयो किड्विप सूर तेह ॥ पापे करी सुरलोकमें रे, पे-
 सी न शके जेह ॥ न० ॥ १८ ॥ तिहांथी चवि ब्राह्मण कुले रे, होशे मूक दरिड् ॥ रोगाक्रां
 त डुःखी घणो रे, व्यसनादिक शत ठिड् ॥ न० ॥ १९ ॥ जव पूरण करीने पठे रे, जमशे
 जवजल मांय ॥ कर्म कय करशे यदा रे, तव लहेशे सुख ठाय ॥ न० ॥ २० ॥ चारित्रियो
 सूधो हतो रे, ज्ञान क्रिया पिण सार ॥ ते मुनिवर मञ्जर अकी रे, पाम्यो डुःख संसार ॥
 न० ॥ २१ ॥ ते माटे तुमे चित्तथी रे, मञ्जर टालो हेव ॥ ए लघु बंधव तुम तणो रे, एहनी
 करज्यो सेव ॥ न० ॥ २२ ॥ लघु तो पिण गुरु गुण थकी रे, गुरु करी जाणे संत ॥ इम स
 मजावे पुत्रने रे, सुपरें तात अत्यंत ॥ न० ॥ २३ ॥ यंतः ॥ शार्दूलविक्रीकृतवृत्तम्. ॥ हस्ति
 स्थूल तरःसचांकुशवशः किं हस्तिमात्रांकुशः, दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः किं दीपमात्रं
 तमः ॥ वज्रेणनिहताः पतंति गिरयः किं वज्रमात्रांगिरिः, तेजो यस्य विराजते सबलवान्
 स्थूलेषुकः प्रत्ययः ॥ २ ॥ ज्ञावार्थः—हाथी घणो जातो ठे, तेम ठतां पण ते. अंकूशने वश

धन्ना०
३१

होय ठे, माटे शुं हाथी जेटलुं अंकूश ठे? दीवा अजवाले बते अंधारु नाश पामे ठे, त्यारे शुं दीवा जेटलुं अंधारु ठे? वज्रवने करीने हणाएला एवा पर्वतो पमे ठे, त्यारे शुं वज्र जेटलो गिरि ठे? ना नही. जेनामां विशेष सामर्थ्य होय, तेज बलवान गणाय ठे; माटे महो टापणानो शो विश्वास राखवो ॥१॥ दान कल्पद्रुम रासनो रे, प्रथम अयो ऊढहास ॥ धन्नकुमर पुण्ये करी रे, लहेशे लील विलास ॥न०॥१५॥ पंक्तिमांही नन्नोमणी रे, हितविजय बुधराय ॥ सत्तर ढालेथी रच्यो रे, जिनविजये सुखदाय ॥ नरेसर० ॥ १६ ॥

इति श्री धन्नशालिञ्चरित्रेप्राकृतप्रबंधेदानकल्पद्रुमाख्येप्रथमशाखारूपधन्नशाह
पुण्यवर्णनोयंप्रथमाढहासः समाप्तम् ॥ १ ॥ अस्मिनोढहासे ढाल ॥१७॥

नु० १

॥ दोहा. ॥ सकल समीहित पूरवा, समरथ जिन चौबीश ॥ तिम शारद सदगुरु
 प्रते, प्रणमुं विश्वावीश ॥ १ ॥ दान कल्पद्रुम रासनो, अथ बीजो उल्लास ॥ वर्णवशुं श्रुत
 शास्त्रश्री, सुणो सकल सुविलास ॥ २ ॥ अग्रज धन्नकुमर तणा, त्रिण्ये ते नितमेव ॥ तात
 तणा अपरोधश्री, करे धन्नानी सेव ॥ ३ ॥ जोजार्ई जगते करी, धरे सदा शिर आण ॥ स
 यण सकल जी जी करे, जाग्यवले सुप्रमाण ॥ ४ ॥ स्वजनादिक पोखे सदा, दिये बंधवने
 मान ॥ मात तात सेवा करे, धन्नो बुद्धि निधान ॥ ५ ॥

॥ ढाल १ ली. ॥ (दील लाग्यो रे वरणी.—ए देशी.)

पङ्गणपुर पासे एक दिवसे, जलनिधि जलने पूरे ॥ तुमे देखो रे पुण्य कमाणी, जे
 जगमांहे गवाणी ॥ तुमे० ॥ प्रवहण आव्या पवने प्रेस्थां, देखे सहु कोई दूरे ॥ तु० ॥ १ ॥ ए आं
 कणी. ॥ ते प्रवहणनो पति परलोके, पहोत्यो जलनिधि मांहे ॥ तु० ॥ तव १ निर्यामिके ते
 प्रवहणने, आण्यां तेथी उचंहे ॥ तु० ॥ २ ॥ ताम शसयांत्रिक मिलि सवि नृपने, जेट धरी-
 ने मलीया ॥ तु० ॥ नृप सत्कार लहीने ते पिण, अति उत्कर्षे जलीया ॥ तु० ॥ ३ ॥ ३ नौकाप-

१ खारुआ.

२ खारुआ.

३ ते वहाणनो धणी.

ति जलनिधिमें सांप्रति, यमपुरे पहोत्यो स्वामी ॥ तु० ॥ ते माटे ए शपोत संजाली, लजि
 कहूं शिर नामी ॥ तु० ॥ ४ ॥ वात सुणीने नरपति ततक्षण, प्रमुदित मनमें आवे ॥ तु० ॥
 सयांत्रिक सन्मान लहीने, निज निज आनक जावे ॥ तु० ॥ ५ ॥ श्यानपात्र शोदावरी
 मांहे, वाहक आणे वारू ॥ तु० ॥ नागर नांखीने जलकंठे, ठेले केइक तारू ॥ तु० ॥ ६ ॥
 धन्नादिक सघलां कृताख्यां, प्रवहणथी तेणी वेला ॥ तु० ॥ लवण ज्ञस्या तिहां कलश
 अनोपम, दीठा तेह समेला ॥ तु० ॥ ७ ॥ लवण कुंज देखी नृप चिंते, परदेशे हशे मांघो
 ॥ तु० ॥ ते माटे ए प्रवहण मांही, पूख्यो ठे लेइ सांघो ॥ तु० ॥ ८ ॥ राजा तव व्यवहारी
 सघला, तेनीने ईम ज्ञाखे ॥ तु० ॥ लेई ५ क्रियाणकने धन आपो, अमचे ए कुण राखे ॥ तु०
 ॥ ९ ॥ ते व्यवहारी समग्र मिळ्या जिहां, धन्नो पिण तिहां आवे ॥ तु० ॥ लवणादिक कि-
 रियाणां निरखे, ते पिण सरल स्वजावे ॥ तु० ॥ १० ॥ ६ मृगमद प्रमुख समस्त क्रियाणक,
 वहेंचिने ते लेवे ॥ तु० ॥ बालक जाणी लवण कलश ते, धन्नाने सवि देवे ॥ तु० ॥ ११ ॥
 धन्ने बुद्धिअकी सवि तेहने, उपमाने करी लीधा ॥ तु० ॥ तेजमतूरीना जाणीने, तात प्रते
 जई दीधा ॥ तु० ॥ १२ ॥ ७ ताअ धमीने प्रतिदिन धन्नो, तेजमतूरी महेले ॥ तु० ॥ कंचन-

नी निष्पत्ति अनोपम, थाये अमिय ते शहेले ॥ तु० ॥ १३ ॥ हरखयो तात स्वजन सवि
हरख्यां, बुद्धि निधान ते जाणी ॥ तु० ॥ ढाल प्रथम ए बीजे उडहासे, बुध जिनविजये
वखाणी ॥ तुमे० ॥ १४ ॥

॥ दोहा. ॥ चूपे चाग्याविक लही, धन्नाने तिण ताल ॥ नगरशेठ पदवी दिये, जा-
णि बुद्धि विशाल ॥ १ ॥ सामंतादिक सचिव सवि, आपे अति सन्मान ॥ नगर लोक जी-
जी करे, चूप दिये बहुमान ॥ २ ॥ एक दिवस दरवारथी, हय ऊपर असवार ॥ परिवृत
वहु परिवारगुं, आवे निज आगार ॥ ३ ॥ नाटक विविध प्रकारनां, आगल हय गय घाट ॥
वंदीजन बोले विरुद, याचक जोजक चाट ॥ ४ ॥ अतुल रुद्धि देखी अवल, हरख्या मात
ने तात ॥ पिण त्रिण्ये जांखा अया, धन्नाना अग्रजात ॥ ५ ॥

॥ ढाल २ जी. ॥ (सनेही वहाला, लाग्यो नेह निवाहो.—ए देशी.)

हवे धनदत्तादि विचारे, धन्नकुमरथी रोश वधारे रे ॥ सनेही प्यारे, ए दुःख केम ख-
मीजे ॥ कहो केहने उलंजो दीजे रे, स० ॥ ए अनुज अयो अधिकारी, एणे अधमनी संग
ति धारी रे ॥ स० ॥ १ ॥ एतो कूरु कपट बहु राखे, तिणे सहु को रूढो चाखे रे ॥ स० ॥
एणे कूरु करी धन मेढयो, जिहां तिहांथो क्रीधो जैलो रे ॥ स० ॥ २ ॥ जोयो सार्थपने उल

कीधो, तिहांथी एणे धन बहु लीधो रे ॥ स० ॥ वली होमे घेटो लमाव्यो, तिहांथी पिण स
 वलो फाव्यो रे ॥ स० ॥ ३ ॥ देखो कृपणनी खाट ते लीधी, मनमें तस सूग न कीधी रे ॥
 स० ॥ तिम लवण कलशमें खाव्यो, एणे लोत्रे लक्षण दाव्यो रे ॥ स० ॥ ४ ॥ मात तात जो
 जाई साधे, धन वेई कर्यां सहु हाधे रे ॥ स० ॥ एह आपणने न बोलावे, अम दरशन पिण
 न सुहावे रे ॥ स० ॥ ५ ॥ एह आपणथी रहे अलगो, तो किम जाईजे विदग्धो रे ॥ स० ॥
 सही एहमें तो स्नेह न काई, एह तो नामथी कहीए जाई रे ॥ स० ॥ ६ ॥ हवे एहने तो
 सही हणीए, इहां पापने दोष न गणीए रे ॥ स० ॥ विष शस्त्रादिक कोई कीजे, एहने १पं-
 चत्व पद दीजे रे ॥ स० ॥ ७ ॥ ठल जोता रहे त्रिण्ये जाई, ते जाणे सकल जोजाई रे ॥
 स० ॥ लवलेश देवरने दाखे, तेह गुह्य धनो चित्त राखे रे ॥ स० ॥ ८ ॥ यतः ॥ वंशस्थवृत्तम् ॥
 नदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहंति नोदिताः ॥ अनुक्तमप्युहति पंक्तितो ज
 नः, परंगित ज्ञानफला हि बुद्धयः ॥ १ ॥ जावार्थः—कहेलो अर्थ तो, पशु पण जाणी शक
 ठे; घोना अने हाथीन तेनुने हांकीए तो, ते पण चाले ठे; परंतु पंक्ति पुरुष तो वगर कहे-
 लुं पण तर्कथी जाणी जाय ठे. माटे परना मनमां रहेली वातने जाणनारी ज्ञानरूप बुद्धि-

यो ठे, अर्थात् बुद्धि परना मनमां रहेली वात जाणी शकाय ठे ॥ १ ॥ चित्तमें हवे ध-
 न्नो विचारें, कहे कलह ते कोण वधारे रे ॥ स० ॥ जिहां वंधव चित्त दुःख पावे, तेह शू-
 कीजे वरुदावे रे ॥ स० ॥ ए ॥ चित्त जाग्यां साजां नवि थाये, सहु शास्त्रे पिएण कहेवाये
 रे ॥ स० ॥ उत्तम नर तेहज जाणे, तव विचरे समय प्रमाणे रे ॥ स० ॥ १० ॥ यतः ॥ न
 पजातिवृत्तम् ॥ जग्रा हि शाखा न विलंबनीया, जग्नेषु चित्तेषु कुतः प्रपंचः ॥ गंतव्यमन्य-
 त्र विचक्षणेन, पूर्णा मही सुंदरी सुंदरेति ॥ २ ॥ जावार्थः—जे वृक्षनी शाखा जागी गई हो
 य अने जेनी मालियो जागेली होय, त्यां आश्रय शो करवो? मन जूदां थयां, त्यां प्रपंच
 शो करवो? अर्थात् कांइ पण न करवुं. एवे समये तो माह्या पुरुषे बीजे ठेकाणे जवुं. का-
 रण के, पृथ्वी विशाल पत्नी ठे अने मनोहर स्त्री जेवी ठे. ॥ २ ॥ देशाटनं पंक्ति मित्रता
 च, वारांगना राजसज्जा प्रवेशः ॥ अनेक शास्त्रानि विलोक्यतानि, चातूर्य मूलानि ज्वंति पं-
 च ॥ ३ ॥ जावार्थः—देशाटन करवुं, पंक्तिनी मित्राई करवी, गणिकानी धन हरण करवा
 नी चतुराई जाणवी, राज्यसज्जामां प्रवेश करवो अने अनेक शास्त्रोनुं अवलोकन करवुं, ए
 पांच कारण चतुराईनां मूल ठे. ॥ ३ ॥ तेहजणी परदेशे जईए, निज जाग्य परीक्षा करिये
 रे ॥ स० ॥ जुजवळ परतक करीजे, तिम नव नव देश देखीजे रे ॥ स० ॥ ११ ॥ रखे

धन्ना०
३४

डुःख एहने कोई आये, सुजथी अप्रीति जणाये रे ॥ स० ॥ ईम चिंती अयो सावधान, म-
ध्य रात्रे कीध प्रयाण रे ॥ स० ॥ १९ ॥ शुक्रन सबल तव आवे, मालव जणी सिद्धिसोहावे
रे ॥ स० ॥ कौतुक क्रीडा बहू करतो, मनमांहे उमेद धरतो रे ॥ स० ॥ १३ ॥ मध्यान स-
मय जव आये, तव पंथनो खेद जणाये रे ॥ स० ॥ तिहां खेत्र खेळंतो हाली, एक दीगो
नयण निहाली रे ॥ स० ॥ १४ ॥ तरु शीतल गायी देखी, तिहां बेगो पंथ नवेखी रे ॥ स०
॥ ढाल बीजे उड्ढासे ए बीजी, कही जिनविजये मन रीजी रे ॥ स० ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ हालिक धन्नाने निरखि, विकसित वदन सुबोल ॥ जोजन आणे जक्ति
थी, शाल दाल घृत गोल ॥ १ ॥ धन्नो ऋहे उपक्रम विना, न करुं जोजन लिगार ॥ मृगप
ति परे निज उपक्रमे, सवि राखुं विवहार ॥ २ ॥ ते माटे तुम हलतणां, एक बे वालुं चास ॥
पठि तुम आग्रहथी संधी, करशुं जोजन खास ॥ ३ ॥ इम कही हल खेळ्यो तुरत, धन्न
कुमर ग्रही राश ॥ प्रगद्यो ततक्षण देखते, जूमिथी निधि सुप्रकाश ॥ ४ ॥ हाली कहे तुम
जाग्यथी, प्रगद्यो एह निधान ॥ धन्नो ऋहे हालिक प्रते, ए तुम पुण्य प्रमाण ॥ ५ ॥ उप
कृति करी जोजन करयां, श्रम टाली तिण ठांदि ॥ १ कार्षिकशुं मैत्री करी, गमन करे उ-

१ हालीथी.

उ०

३४

छांदि ॥ ६ ॥ कृपि जाई निज नृप प्रते, सकल कह्यो अवदात ॥ द्रुमापति पण प्रमुदित
 नणे, धन्नकुमर शुभ्र जात ॥ ७ ॥ जो धन धन्ने तुम प्रते, दीघो ए असमान ॥ तो में पिण
 वखशो तुने, जोगवो जोग प्रधान ॥ ८ ॥ तव हालिक हार्षित थई, निधि प्रगद्यो जिण गाम
 ॥ वाशुं तिण धानके नलुं, धनपुर नामे गाम ॥ ९ ॥ उत्तम नर आव्या थकी, पामी रुद्धि
 विशाल ॥ हाली ते ततरुण अयो, ग्राम तणो नूपाल ॥ १० ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम्. ॥ उत्त
 म जण संसग्गी, सीलदरिद्विं पि कुणइ सीलद्वं ॥ जह मेरुगिरिवि लग्गं, तिणमवि कणगत्त
 णमुवेई ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—जेस मेरुगिरिने लागेलां तृणां पण सुवर्णपणाने पामे ठे, तेम
 उत्तम जननो संसर्ग पण शील रहित पुरुपने शील युक्त करे ठे. ॥ १ ॥

॥ ढाल ३ जी. ॥ (प्रवहण तिहांथी पूरीयां रे लाल.—ए देशी.)

हवे धन्नकुमर तिहां थकी रे लाल, पंथे चाट्यो जाय रे ॥ सुगुण नर ॥ जोवे देश
 विदेशनां रे लाल, कौतुक अति सुखदाय रे ॥ सुगुण नर, पुण्ये मनवंठित मिले रे लाल ॥
 १ ॥ ए आंकणी. ॥ पुण्ये सयल संयोग रे ॥ सुण ॥ पुण्ये सुर सान्निध्य करे रे लाल, पुण्ये
 वंठित जोग रे ॥ सुण ॥ पु० ॥ १ ॥ तिहां कणे वन देखे नलां रे लाल, वृद्धतणां तिहां लाख रे
 ॥ सु० ॥ आंवा जांवू करमनां रे लाल, दानिम सूफने डाख रे ॥ सु० ॥ पु० ॥ ३ ॥ ताल त

धन्ना
३५

माल राजादनी रे लाल, वन पीपलने निंब रे ॥ सु० ॥ धवखरादि हरीतकी रे लाल, चंदन
अगर कदंब रे ॥ सु० ॥ पु० ॥ ४ ॥ सोपारी श्रीफल घणां रे लाल, ताम्र अशोक अखोर रे
॥ सु० ॥ जार अठार तणा तिहां रे लाल, सोहे वृक्ष सजोर रे ॥ सु० ॥ पु० ॥ ५ ॥ जाई
जूई केवना रे लाल, महेके केतकी फूल रे ॥ सु० ॥ बोलसिरी बालोवली रे लाल, सेवत्री
जासूल रे ॥ सु० ॥ पु० ॥ ६ ॥ रुमरो मरुन मोगरो रे लाल, कणयर करेणा खास रे ॥ सु० ॥
पुत्राग नाग अंकोलनां रे लाल, मालती प्रमुख सुवास रे ॥ सु० ॥ पु० ॥ ७ ॥ गिरि महोटा
तिहां अति घणा रे लाल, जूकामिनी कूच जेम रे ॥ सु० ॥ शिखर सोहे तस उपरे रे ला-
ल, कंचुपरे अति तेम रे ॥ सु० ॥ पु० ॥ ८ ॥ स्तनधारा परे नीसरी रे लाल, तटणी तोय
उदार रे ॥ सु० ॥ जाणे सुगताफल तणा रे लाल, जूकामिनी उर हार रे ॥ सु० ॥ पु० ॥ ९ ॥
पंखी जलक्रीडा करे रे लाल, मोर चकोर मराल रे ॥ सु० ॥ चकवा चकवी कपोतनां रे
लाल, बकनी पंक्ति विशाल रे ॥ सु० ॥ पु० ॥ १० ॥ उपकंठे सुनि आश्रया रे लाल, उरुवले
एकत्र रे ॥ सु० ॥ तपसी तप विधि साचवे रे लाल, असन करे फल पत्र रे ॥ सु० ॥ पु० ॥ ११ ॥
सवर तणां स्थानक घणां रे लाल, पुलिंद प्रमुख केई पक्ष रे ॥ सु० ॥ नर रूपे पशु सारि-
खा रे लाल, शाखा मृग प्रत्यक्ष रे ॥ सु० ॥ पु० ॥ १२ ॥ गज टोलां वनमें जलां रे लाल, उ-

उ०

३५

न्मूले केई वृद्ध रे ॥ सु० ॥ वानर यूग्र विशेषथी रे लाल, महिप तलां तिहां लक रे ॥ सु० ॥
 पु० ॥ १३ ॥ मृग चित्रक शावर ससा रे लाल, व्याघ्र विशेषनो वास रे ॥ सु० ॥ मृगपति
 पिण तिहां संचरे रे लाल, करता कुल अज्यास रे ॥ सु० ॥ पु० ॥ १४ ॥ इत्यादिक जोतो प्र-
 को रे लाल, कौतुक विविध प्रकार रे ॥ सु० ॥ अनुक्रमे मालव देशमां रे लाल, आव्यो पु-
 ण्यप्राग्जार रे ॥ सु० ॥ पु० ॥ १५ ॥ तटनी तीरे अन्यदा रे लाल, करी वेलुक संशार रे ॥ सु० ॥
 शयन करे धनो तिहां रे लाल, ध्यान धरी नवकार रे ॥ सु० ॥ पु० ॥ १६ ॥ निर्जयथी निझ
 करे रे लाल, साहसिकमें शिरदार रे ॥ सु० ॥ बीजे उडडासे जिन कहे रे लाल, ढाल त्री-
 जी मनुहार रे ॥ सु० ॥ पु० ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ एहवे श्यामिनीए तिहां, याम रही जब शेष ॥ शिवा शब्द तिहां सां-
 जढ्यो, चमक्यो चित्त विशेष ॥ १ ॥ शुकन शास्त्र अनुसारथी, करे निश्चय चित्त मांदि ॥
 रात्रि शिवा श्रुतगा दिवस, शब्द ते निष्फल नांदि ॥ २ ॥ वसंतराज्य ग्रंथादिके, शुकन त-
 णो अधिकार ॥ ते आलोचे चित्तमें, शुभपरे धन्नकुमार ॥ ३ ॥ शिवा कहे धशव पासथी,
 धन ग्रहीने दृढ चित्त ॥ अमने जक्षण जे दीये, ते नर अति सुपवित्र ॥ ४ ॥ निश्चय करी

१ रात्रिये.

२ शियालणी.

३ कोयल.

४ मडड.

निमित्तनो, शिवा शब्द अनुसार ॥ तटनी तीरे ततक्षणो, चाटयो धन्नकुमार ॥ ५ ॥ शव
दीगो एक आवतो, नीर पूरेथी जाम ॥ धन्ने ग्रही शव निरखते, रत्नराशि लही ताम ॥ ६ ॥
रत्न ग्रह्यां शव काठिने, दीधो जंबूक जक ॥ देखो नैमित शास्त्रनां, पाम्यो फल परतक ॥
७ ॥ अनुक्रमे नद्धंध्यो तिहां, वंध्याचल १नगराज ॥ उज्जयनी आव्यो तुरत, साहसिकमां
शिरताज ॥ ८ ॥

॥ ढाल ध थी. ॥ (चित्रोत्ता राजा रे.—ए देशी.)

उज्जयनी निरखे रे, मनमांही परखे रे ॥ शुं दीसे ठे रे, सरिखी स्वर्गपुरी समी रे ॥
१ ॥ लंका पिण लाजी रे, ईण आगल ज्ञांजी रे ॥ मनमें नही राजी रे, तव जलमें पनी रे
॥ २ ॥ रुदे करी पूरी रे, सुजटे करी शूरी रे ॥ कोई वाते न अधूरी रे, सुंदर शोचंती रे ॥
३ ॥ चंद्रप्रद्योत राजा रे, जश अधिक दिवाजा रे ॥ वसुधामे ताजा रे, यश ठे जेहना रे ॥
४ ॥ गज रथने घोडा रे, पायक दल जोडा रे ॥ नहि तेहने घोडा रे, नृपने पायके रे ॥ ५
॥ शिवादेवी राणी रे, सीता सम जाणी रे ॥ पटराणी श्रपाणी रे, उत्तम गुण श्रकी रे ॥ ६
॥ एक दिन नृप चिंते रे, मन केरी खंते रे ॥ बुद्धिवंत संकेते रे, मंत्रि न माहरे रे ॥ ७ ॥

तेदज्ञणी निरधारी रे, करी परिक्रा सारी रे ॥ मतिवंत विचारी रे, कीजे मंत्रवी रे ॥ ७ ॥
 परुहो वज्रमावे रे, नृप निज मन जावे रे ॥ करे अति वरुदावे रे, ए नृधोपणा रे ॥ ८ ॥
 सरोवर ?लाखेटे रे, जे ठे अति ठेटे रे ॥ ते थंजने वींटे रे, वेगो शपालथी रे ॥ १० ॥ नृप त
 स धन आपे रे, मंत्री पद आपे रे ॥ यज्ञ तेहनो व्यापे रे, बुद्धिवले जलो रे ॥ ११ ॥ सुणयो
 धन्नकुमारे रे, मनमें तव धारे रे ॥ एह वात विचारे रे, विलंब न कीजीए रे ॥ १२ ॥ परु-
 हो ठवि आवे रे, सर कंठे सोहावे रे ॥ अति हर्ष न आवे रे, नृपने निरखतां रे ॥ १३ ॥ ए-
 क दोरी ते लीधी रे, इतरु मूलमें सीधी रे ॥ यतने करी बांधी रे, धसर पाठल फिल्लो रे ॥
 १४ ॥ रज्जुथी वींटाणो रे, देखी तव राणो रे ॥ बुद्धिवंत वखाएथो रे, आण्यो मंत्रवी रे ॥ १५ ॥
 ॥ पुरजन सहु हरख्यां रे, सुणी बुद्धि परिक्रा रे ॥ तस पुण्य आकर्ष्यां रे, सवि आवी नमे

? सरोवरनी वजे. १ ते तलावनी पाले वेसीने तलावनी वचमां रहेला थंजने बांधे. ३ तलाव-
 नी पाले एक वृक्षना मूले दोरमानो ठेमा बांध्यो. ४ पत्ती वीजो ठेमा लेइने तलावनी एक कोरथी
 चाफेर फरी आवां, प्रथम वृक्षना मूले बांधेला दोरमाना ठेमा साथे, आ ठेमानी आंटी देइने प्रथम
 चाल्यो हतो, ते तरफ चाल्यो, प्रथम ठेमा बांध्यो हतो, तेनी सन्मुख पाले जइने ठेमा खेंच्यो एटले
 स्थंजे गांठ जइ पहोती, एटले पागो तेज मार्गे वली आव्यो, पत्ती वे ठेमा जेगा हाथमां लेइ धन्नकुमर
 वेगो खारे राजाए जाण्युं के, आ बुद्धिवंत ठे.

रे ॥ १६ ॥ पुरजन प्रत पोखे रे, नृपने संतोखे रे ॥ कोई बुद्धि विशेषे रे, सुपरे ज्ञाग्यथी रे
॥ १७ ॥ यतः ॥ मालिनीवृत्तम् ॥ नरपति हितकर्ता द्वेषतांयाति लोके, जनपद हितकर्ता
त्यज्यते पार्थिवेन ॥ इति महति विरोधे वर्त्तमाने समाने, नृपति जनपदानां दुर्लभः कार्य-
कर्ता ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—राजानुं सारुं करनार माणसना उपर लोको द्वेष राखे ठे, देशनुं सा
रुं करनार पुरुष, राजावने त्याग कराय ठे; एवो महोठो अने सरखो विरोध वर्त्तते ठे,
राजानुं अने देशनुं जलुं करनार तो दुर्लभज मली आवे ठे. ॥ १ ॥ नृप दत्त आवासे रे, र-
हेतां सुखवासे रे ॥ जुए मनने उच्चासे रे, पुर शोजा जली रे ॥ १८ ॥ कल्पद्रुम रासे रे,
जिन कहे सुविलासे रे ॥ एह बीजे उडहासे रे, ढाल चोथी सही रे ॥ १९ ॥

॥ दोहा. ॥ दीग दूरथी आवतां, १पांशु विलिप्त शरीर ॥ मलिन वसन शत खंरु
तस, मात पिता तिम वीर ॥ १ ॥ कांति हिए कुत्सितपणे, जग्न ज्ञांरु अही हाथ ॥ दीन
खीण दीगी तिहां, जोजाई पिण साथ ॥ २ ॥ देखी चिंते धन्नकुमर, विस्मयथी चित्तमांहि
॥ मात पितादिक माहरा, किम आवे ईण ठाहिं ॥ ३ ॥ रुद्धि घणी ठे तस घरे, पुण्यथकी
सुविलीन ॥ ते किम संज्ञविये इहां, एहतो दीसे दीन ॥ ४ ॥ दीसे ठे तेह सारिखा, ते पि-

ए केम कहाय ॥ माहरी माने वांजणी, आव्यो इहां ए न्याय ॥ ५ ॥

॥ ढाल ५ मी. ॥ (चरणाली चामुंफा रण चढे.—ए देशी.)

वन्नकुमर मन चिंतवे, ए परिजन इहां केम आवे रे ॥ धन संपद घरमें घणी, ए वि
स्मय बहुलो आवे रे ॥ जुं जुं पुण्य पटंतरो ॥ १ ॥ ए आंकणी. ॥ पुण्ये वंठित सीजे
रे ॥ पुण्यवले लक्ष्मी मिले, पुण्ये राजा रीजे रे ॥ जु० ॥ २ ॥ जई जोउं हवे एहने, इम
चिंती तिहां आवे रे ॥ मात पिताने उदखी, विनये शीश नमावे रे ॥ जु० ॥ ३ ॥ आ शुं
थयूं मात तातने, बोले एहवी वाणी रे ॥ दरिद्र तणी एह सामटी, कीधी केम कमाणी रे
॥ जु० ॥ ४ ॥ तव कहे तात तनुज सुणो, तुमे चाड्या अम मूकी रे ॥ लक्ष्मी तुम साथे
चली, सतीय परे नवि चूको रे ॥ जु० ॥ ५ ॥ १ प्रत्यूपे अमे तुम तणी, खबर करावी श्चावी रे
॥ पिण किदांथी ३ परगमी, ४ तुमची शुद्धि न पावी रे ॥ जु० ॥ ६ ॥ तुम विरहे अमे आकूलां,
धरने रोदन कीजे रे ॥ जोर न चाले कोयथी, दोष ते केहने दीजे रे ॥ जु० ॥ ७ ॥ नोजाई
तुम नक्तिथी, गुणलीणी दुःख पावे रे ॥ परिजन पिण मिली सामटा, तुम शुद्धि पूठण
आवे रे ॥ जु० ॥ ८ ॥ एहवे नृप राणी तणो, हार दासीये लीधो रे ॥ पञ्चनपणे धनेदेवने,

१ सवारे. २ ठामोठाफ. ३ सारी. ४ तमारी. खबर न मळी.

धना०
३८

वेचवा काजे दीधो रे ॥ जु० ॥ ९ ॥ वात ठानी ते नाव रही, राजाये जद जाणी रे ॥ अनु
चर मूकी आषणा, धन लीधो सवि ताणी रे ॥ जु० ॥ १० ॥ कांईक बाकी रह्यो हतो, तेह
गया चोर लेई रे ॥ सेवक संबंधी हता, ते पिण लेई गया केई रे ॥ जु० ॥ ११ ॥ जलवटनो
जलवटे गयो, जूमीथी लेई गया यक रे ॥ जाग्यहीननो ततकणे, फल दीठो परतक रे ॥
जु० ॥ १२ ॥ शृहपातन अनले कस्यां, तव रहेवानो नही लागो रे ॥ कुकीसंबल थई नीस
ख्या, जिम रुषि उपने वैरागो रे ॥ जु० ॥ १३ ॥ यतः ॥ दिवस पलटयो ही बुरो, जागि श
के तो जाग ॥ पाणी उपर पढर तरे, सोने सलगी आग ॥ १ ॥ फिरता देश विदेशमें, नद
रनो जरण वहंता रे ॥ शीत तापादिक अति घणा, ते पिण सकल सहंता रे ॥ जु० ॥ १४ ॥
ईहां आब्या तुमने मिळ्या, इवे अम सह दुःख जाग्यां रे ॥ कुलदीपक तुम पेखतां, सुकृत
तणा दिन जाग्या रे ॥ जु० ॥ १५ ॥ जाई पिण आवी मिळ्या, कपटथी हेत नपाई रे ॥
अधिक आनंद थकी तिहां, आवी मिली जोजाई रे ॥ जु० ॥ १६ ॥ सयल सयण हूआ साम
टा, धनो मन सुख पावे रे ॥ बीजे नलहासे पांचमी, जिन मन रंगे गावे रे ॥ जु० ॥ १७ ॥
॥ दोहा ॥ धनाशाहे नेहज धरी, तात प्रमुख तिणिवार ॥ गुप्तपणेशी लेइने, आ

१. अग्नि थवाथी घर बली गयां.

३८ १

३८

एया निज आगार ॥ १ ॥ स्नान करावी शुचि कस्या, पहिराव्या शुभ्र वेश ॥ वस्त्राञ्जरेणा
 दिक थकी, संतोषा सुविशेष ॥ २ ॥ वसवाने आवास अति, सुंदर दीधा तास ॥ पितृ व्रातृ
 परिवार सवि, सुखी थया सुविलास ॥ ३ ॥ अति तेजस्वी धन्नकुमर, बुद्धिंत प्रधान ॥ प्र
 जा सकल जी जी करे, नृप ये अति सनमान ॥ ४ ॥ अणसहता ते तेजद्युति, धनदत्तादिक
 व्रात ॥ जिम रवि तेज न सांसहे, कौशिक खेचर व्रात ॥ ५ ॥ पिता प्रते प्रणामी कहे, अ-
 मने धननो जाग ॥ देवरावो दिलमें धरी, जिम रहे वधतो राग ॥ ६ ॥ तात कहे रे अति
 निघृण, हजीय न आवे लाज ॥ इप्सित जोगने जोगवो, कां विणसासो काज ॥ ७ ॥ तुम
 गृहथी ए धनकुमर, लाव्यो नहि लिमार ॥ लक्ष्मी एहना जाग्यनी, किम करो होंश ग-
 मार ॥ ८ ॥ तव त्रिणये त्रटकी कहे, अम गृहनो जे सार ॥ रत्नादिक ते ए सकल, लाव्यो
 ठे निरधार ॥ ९ ॥ अन्योन्ये पितु पुत्रना, वचन विरोध विशेष ॥ शीख न माने साखिया,
 लोत्ने प्रस्त अशेष ॥ १० ॥ पितृ व्रातृ विरतंत सवि, जाणयो धन्ने जाम ॥ एकांते आवी
 करी, आलोचे अन्निराम ॥ ११ ॥

॥ ढाल ६ ठी. ॥ (कर्म परीक्षा करण कुमर चाळ्यो रे.—ए देशी.)

धन्नकुमर मन धीर धरी तिहां रे, चिंतवे चित्त मजार ॥ इहां रहेतां जाइने दुःख हुवे

धन्ना०
३ए

रे, मुज हुंती निरधार ॥ धन्नकुमर मन धीर धरी तिहां रे ॥ १ ॥ ए आंकणी. ॥ अर्द्ध निंशा
ये ऊगो नीसखो रे, साहसिक थइ सुविवेक ॥ स्वरबल साधीने ते संचरे रे, शुकन थया
शुज ठेक ॥ ध० ॥ २ ॥ अनुक्रमे कौतुक विधि निहालतो रे, पहोत्यो काशी देश ॥ वाणार
शी पुर पासि आवीयो रे, जोवे नगर निवेश ॥ ध० ॥ ३ ॥ पार्श्व सुपार्श्व जिणंदना जन्मनो
रे, ए उत्तम अहिगाण ॥ देखीने मनमां सुख ऊपन्यो रे, जन्म थयो सुप्रमाण ॥ ध० ॥ ४ ॥
गंगा तीरे निरमल नीरमां रे, करे जलक्रीडा काम ॥ एहवे आवी अंबरथी तिहां रे, गंगादे
वी ताम ॥ ध० ॥ ५ ॥ देखी धन्नकुमरना रूपने रे, मोही मनमें अत्यंत ॥ पंच विषय सुख
विलसण तेहथी रे, खरी राखे मन खंत ॥ ध० ॥ ६ ॥ वैक्रिय रूप विकूर्वी ने नवो रे, अपञ्जर
सम अदञ्जुत ॥ हाव जाव विन्नम करिने तिहां रे, वचन वदे सदञ्जुत ॥ ध० ॥ ७ ॥ स्वामी हुं
तुम सेवक हूं सदा रे, नेहथकी लयलीन ॥ प्रीत बंधाणी प्रेम रसे करी रे, जेहवी जलने
मीन ॥ ध० ॥ ८ ॥ पंच विषयसुख मुज साथे मुदा रे, जोगवो ज्ञाम्य निधान ॥ हूं हूं गंगादेवी
गुण जरी रे, जाणी द्यो मुज मान ॥ ध० ॥ ९ ॥ यतः ॥ आया आश करेय, तास निराश न
मूकीए ॥ निपटजना कारेण, निरसुं दीसे नागरा ॥ १ ॥ तुम गुण रूप लावण्य लीलाथकी
रे, हूं मोही सुप्रकास ॥ विनती मानी वावेशर माहरा रे, आवो मुज आवास ॥ ध० ॥ १० ॥

उ० २

३ए

इत्सित सकल पदारथ संपदा रे, परशुं मनने कोरु ॥ जोजन जगति ज्ञवी पर साचवी रे,
 रहेशुं वे कर जोरु ॥ ध० ॥ ११ ॥ तव धन्नो सुणाने वाणी तदारे, धैर्य धरी निज चित्त ॥
 शील सन्नाह सजी सुपरे तिहां रे, बोले वचन पवित्र ॥ ध० ॥ १२ ॥ वात कही जे चित्त
 चालण ज्ञानी रे, ते जाणी में मांय ॥ अमे श्रावक व्रतधारी वाणिया रे, पाखूं व्रत हित ला
 य ॥ ध० ॥ १३ ॥ परस्त्री संग सदा वरजूं सही रे, परस्त्री संगम पाप ॥ परस्त्री संगमथी
 दुःख पामीये रे, नरक गमननी ठाप ॥ ध० ॥ १४ ॥ रावण लंकाधिप सीताथकी रे, वेदा
 व्यां दश शीश ॥ पांरुव नारीथी पदमोत्तरे रे, खोई जग सुजगीश ॥ ध० ॥ १५ ॥ मणिर
 थे जुगवाहु ब्राता हणयो रे, मयणरेहाने काज ॥ मुंज मृणादा संगे रोलव्यो रे, इंड लह्यो
 दुःख साज ॥ ध० ॥ १६ ॥ इत्यादिक बहु परस्त्री संगथी रे, दुःख पाम्या इह लोक ॥ पर-
 लोके दुःखीया परवश पढ्या रे, ते जाणे सहु लोक ॥ ध० ॥ १७ ॥ उत्तम नर ते परस्त्रीने
 गणे रे, माता जगिनी समान ॥ शैठ सुदर्शननी परे सुख लहे रे, सुजस वधे असमान ॥ ध०
 ॥ १८ ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ आत्मवत्सर्व जूतेषु, परद्वेषु लोष्टुवत् ॥ मातृवत्परदार-
 षु, यःपश्यति स पंक्तिः ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—सर्व प्राणी मात्रोने पोताना जेवा; पारका. इय
 ने माटी समान; परस्त्रीने माता समान; एवी रीते जे पुरुष जाणे ठे, तेज पुरुष जगतूने

विषे पंक्ति ठे ॥ १ ॥ परणी विलसे ते अति सुंदर कह्या रे, पर जोवे ते हीन ॥ बीजे उ-
ढ्हासे ढाल ठठी जिने कही रे, शील थकी सुख चीन ॥ ध० ॥ १ए ॥

॥ दोहा, ॥ रे जडे जिनधर्मना, दान शियल तप ज्ञाव ॥ तेहमां शील विशेष ठे,
ज्वजल तारण नाव ॥ १ ॥ सिंह सर्प गज अनलना, जय सवि शीले जाय ॥ शीले वंठि-
त सवि फले, शील वनो सुखदाय ॥ २ ॥ यतः ॥ शार्दूलविक्रीणितवृत्तम्. ॥ तोयत्यग्निरपि
स्रजत्यहिरपि व्याघ्रोपि सारंगति, व्यालोप्यश्वति पर्वतोप्युपलति द्वेभ्योपिपीयूषति ॥ वि-
घ्नोप्युत्सवति प्रियत्यरिरपि क्रीमातमागत्यपां, नाथोपिस्वगृह्यत्यटव्यपिनृणांशीलप्रज्ञावाद्
ध्रुवं ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—शीलना प्रज्ञावथी मनुष्यने, अग्नि जल रूप थाय ठे; सर्प फूलनी मा
ला रूप थाय ठे; वाघ हरण रूप थाय ठे; दुष्ट गज अश्व रूप थाय ठे; पर्वत पाषाण जेवो
थाय ठे; विष अमृत समान थाय ठे; विघ्न उत्सव रूप थाय ठे; शत्रु मित्र रूप थाय ठे; स-
मुद्र क्रिमा करवाना सरोवर रूप थाय ठे; अने अटवी पोताना घर रूप थाय ठे ॥ १ ॥ शी-
लं प्राणजृतां कुलोदयकरं शीलं वपुर्जृषणं, शीलं शौचकरं विपन्नयहरं दौर्गत्य दुःखापहं ॥
शीलं दुर्जगतादि कंददहनं चिंतामणिःप्रार्थितो, व्याघ्रव्याल जलानलादि शमनं स्वर्गापवर्ग
प्रदं ॥ २ ॥ ज्ञावार्थः—प्राणियोने शील, कुलनो उदय करनाहं, शरीरने जूपण रूप पवित्र-

ता करनारुं; विपत्ति अने जयने हरनारुं; दुर्गति अने दुःखनो नाश करनारुं; दुर्जाग्यादि
 कंदने देहन करनारुं; प्रार्थना करेल चिंतामणिरत्न सरखुं; वाघ, सर्प, जल अने अग्निना उप
 सर्गने शमन करनारुं; तेमज स्वर्ग अने मोक्ष आपनारुं ठे. ॥ १ ॥ शरीर अनित्य संसरमें,
 रोग शोग जंमार ॥ मल मूत्रादिकथी जरी, अशुचि वहे नित छार ॥ ३ ॥ आयु वायु सम
 अधिर ठे, जोग रोग सम जोय ॥ धन मद संध्या रंग सम, सयण सुपन सम होय ॥ ४ ॥
 यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम्. ॥ अनित्यानि शरीराणि, वैज्जवो नैव शाश्वतः ॥ नित्यं समीहतो मृ
 त्युः, कर्त्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥ ३ ॥ ज्ञावार्थः—शरीर अनित्य ठे; वैज्जव अशाश्वता ठे अने मृत्यु
 नित पाले आवतुं जाय ठे; माटे धर्मनो संग्रह करवो. ॥ ३ ॥ तिण कारण माता तुमे, म-
 हिमावंत महंत ॥ पुत्र विनती सांजली, धरो धर्म गुणवंत ॥ ५ ॥

॥ ढाल ७ मी. ॥ (शिरोहीनो सालू हो के, ऊपर योधपुरी.—ए देशी.)

तव वचन सुणीने हो के, धन्नकुमार तणां ॥ शील रतन यतननां हो के, अतिहि सो
 हामणां ॥ ते सांजली देवी हो के, गंगा मन हरखी ॥ निज मन उडहासे हो के, कुमरनुं
 मुख निरखी ॥ १ ॥ करजोमी बोले हो के, कुमर प्रते वाणी ॥ तुम हृदयतणी में हो के,
 वात सयल जाणी ॥ तूं धर्म धुरंधर हो के, मनुष्यमांहे मोटो ॥ बीजो तुज आगल हो के,

धन्ना०
४१

नर सघलो बोटो ॥ १ ॥ तुमे पर उपगारी हो के, गुणमखिना दरिया ॥ तुमे सहज सुरंगा
हो के, संतोषे जरिया ॥ सुविवेक विचारी हो के, सारी तुम करणी ॥ जिनमत १अनुखंगी
हो के, पुण्यतणी जरणी ॥ ३ ॥ तुमे सुजने तारी हो के, वारी हुं २जाउं तुमची ॥ सम
कित सुरमणिशुं हो के, मति जागी अमची ॥ संसार जलधिमें हो के, परतीने राखी ॥
समजावी विगते हो के, मधुर वचन जाखी ॥ ४ ॥ ३उपकृति हवे तुमची हो के, ऊरण
किम थाऊं ॥ तुमे धर्मना धोरी हो के, जामणमे जाऊं ॥ इम कहीने कुमरने हो के, गंगा
देवी तिहां ॥ शुभ-रयण चिंतामणि हो के, आपे आणि तिहां ॥ ५ ॥ देश रत्न अमूलिक हो
के, कुमर प्रते बोले ॥ जिनधर्मने आगल हो के, एह ठे कुण तोले ॥ करिने विधि वंदन हो
के, देवी ठाम गई ॥ धन्नकुमरना मननी हो के, चिंतित वात अई ॥ ६ ॥ लेइ रत्नने संगे
हो के, रंगे प्रयाण करे ॥ अनुक्रमे नू क्रमतो हो के, मगधे पाउं घरे ॥ अति देश रंगीलो
हो के, नीलो उपवनथी ॥ सवि देशमें महोटो हो के, ग्राम नगर पुरथी ॥ ७ ॥ तिए
देश दीपंती हो के, धनगरी मांहि वस्ती ॥ उपमाने एहने हो के, अवर न कोय जमी ॥

१ जिनमत माथे प्रीति ठे. २ तुमारे वारणे जाउं. ३ तमे मने उपकार कर्यो, ते गुणउर्शि
गण केम थउं ? ४ राजगृही नगरी.

तोले करी तुलतां हो के, सुरपुरी हीण छई ॥ तव ते कारणथी हो के, ऊंची स्वर्ग गई ॥७॥
 लंका पिण लाजी हो के, जलधीमें ऊंप जई ॥ अलका तिम सलकी हो के, अलगी नास गई
 ॥ १ सुरलोक समाणी हो के, जे जगमें जाणी ॥ परसिद्ध गवाणी हो के, उत्तम नर खाणी
 ॥ ए ॥ गढ कोट डुरंग हो के, चंगा कौशीशा ॥ कोठा नवरंगा हो के, ऊलके आरीसा
 ॥ तिहां नाल बिराजे हो के, मेघपरे गाजे ॥ जस नाद अवाजे हो के, वैरी दल जाजे ॥
 १० ॥ पोल पिण अति धोढी हो के, दोढी अति दीपे ॥ द्वारगल सारी हो के, जारी अरि
 जीपे ॥ चहुटां चोराशी हो के, विविध वाणिज्य तणां ॥ तिहां हाट बखारें हो के, कीरियाणां
 रे घणां ॥ ११ ॥ वसे वरण अदारे हो के, ते सघला सुखीया ॥ निज पुण्य प्रबलथी हो के,
 दीसे नही दुःखीया ॥ अति उन्नत मंदिर हो के, सुंदर सुविशालता ॥ गोखे मन हरखे हो
 के, रमण करे वाला ॥ १२ ॥ प्रासाद सोहावे हो के, जैनने शैवतणां ॥ तिहां पूजा नाटक
 हो के, बत्रिशबद्ध घणां ॥ वरुहथ व्यवहारी हो के, धनथी धनद समा ॥ दाने करी शरा
 हो के, सुरतरु सम उपमा ॥ १३ ॥ गौज्ज सुदर्शन हो के, श्री जिनदास जिशा ॥ कोटी
 ध्वज कहीए हो के, जिनमत चित्त वशा ॥ जिण नगरे सुपरें हो के, चौद चोमास किया ॥

१ देवलोक सरखी. २ ज्यां उत्तम उत्तम पुरुषो अथा. ३ कांगरु ४ महोदी पोत.

श्री वीर जिणंद हो के, धर्मोपदेश दिया ॥ १४ ॥ वैज्रार विपुलने हो के, कंचन देव गिरी ॥
उदयाचल नामे हो के, ए पंचे शिखरी ॥ तिणे करि पुर सोहे हो के, कहे जिन एम वली ॥
बीजे उल्हासे हो के, सातमी ढाल जली ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ ते राजगृहीनो जलो, १जंजसार राजन ॥ अरियणने अहि गरल सम,
सज्जनने बे मान ॥ १ ॥ कर करवाले कंपनीया. वैरी श्वात विकराल ॥ ते सेवे नृप पदकम
ल, मानसरे ज्युं मराल ॥ २ ॥ दानी मानी अनरुज्जम, साहसिकमां शिर ताज ॥ ज्ञानी
ध्यानी जिन गुणे, सदा रहे सुखसाज ॥ ३ ॥ द्वायिक समकित आचरे, ३अक्षय पदने हेत ॥
अष्टोत्तर शत जव थकी, स्वस्तिक जिन संकेत ॥ ४ ॥ नंदा धारणी चेलणा, प्रमुख एक
शत नार ॥ अजय मेध कोणिक प्रमुख, शत कुमार सुखकार ॥ ५ ॥ चारे बुद्धितणो न
दधि, अजयकुमार प्रधान ॥ राज काज सवि साचवे, ५जूधवनो बहुमान ॥ ६ ॥ अरि कटक
अलगं करी, न्याय मार्ग करे शुद्ध ॥ अनय ध्वांत टाले तुरत, सुनय तेज अविरुद्ध ॥ ७ ॥

॥ ढाल ७ मी ॥ (हां रे महारे शीतल जिनशुं लागी पूरण प्रीत जो.—ए देशी.)

हवे ते राजगृही नगरीए नगरनो शेठ जो, कुसुमपाल नामे ते जगमें जाणियो रे लो

१ श्रेणिक राजा. २ समूह. ३ मोक्षने माटे. ४ एकसो. ५ राजानुं बहुमान हतुं.

॥ नृप श्रेणिकनो ठे अधिको तसुपरी माने जो, दानादिक गुण निपुण विशेषे वखाणियो
 रे लो ॥ १ ॥ तस कांता शांता कुसुममाला मनोहार जो, पुत्री ठे गुणवंती कुसुमश्री ज्ञ-
 ली रे लो ॥ कला चोशठनुं गृह रूपे रति अवतार जो, बुद्धे जारति दानगुणे लक्ष्मी वली
 रे लो ॥ २ ॥ तस शोठने वन हुतो नंदनवन सम एक जो, कोई कारण वशश्री सूकाइ ते ग
 यो रे लो ॥ एहवे ते धनकुमर तिहां आवे रंग जो, पुण्य प्रज्ञावे वन सवि नवपद्मव अयो
 रे लो ॥ ३ ॥ ते देखी पुरजन हरखित हृदय मजार जो, आवीने प्रत्यूबे आपी वधामणी रे
 लो ॥ सुणी प्रमुदित मनथी शोठ सकल परिवार जो, आवीने निरखे तव वन शोना घणी रे
 लो ॥ ४ ॥ मन चिंते विस्मित अइने एहवी वात जो, केहने पुण्ये वन सर्वे फूटयो फटयो
 रे लो ॥ तव वन हुंढतां चंपक तरुवर हेठ जो, बेठो रे दीठो ते ज्ञाग्यथी अटकल्यो रे लो
 ॥ ५ ॥ तस इंगितने आकारे ते शुभ रूप जो, देखी रे मन हरखी परखे ततक्षणो रे लो ॥
 जिम रत्नपरिष्कक परखे रत्नने काच जो, बुद्धिवलीने परिष्का तिम कवियण गणे रे लो ॥ ६
 ॥ हवे आवी धना पासे शोठ तिवार जो, कुशलालाप पूठीने प्रमुदित मन कियो रे लो
 ॥ कहे स्वामी पधारो अम मंदिर महाराज जो, तुम मिलवाथी लाज घणो प्रजु अम
 अयो रे लो ॥ ७ ॥ इम ज्ञांखी शोठ ते धनाने ततखेव जो, अश्वारूढ करीने घर तेनी गया

रे लो ॥ तैलादिक मर्दन ऊगटनादिक चंग जो, स्नान सुगंधो जलथी करी पावन थया रे लो ॥ ७ ॥ मन गमतां जोजन कीधां एकण थाल जो, बेठा रे करे कीना तिहां वातायने रे लो ॥ कहं शेर धन्नाने सुपरे अमची बाल जो, परणोने प्रेमे खेमे शुभ्र मने रे लो ॥ ८ ॥ तव बोले धन्नो शेर जणी सुविचार जो, विण नलखियां अमने किम परणावशो रे लो ॥ कुल जाति पूढ्या विण एवजां म्होटां काज जो, कीजे जे कहो किण विधि मन उगाहसो रे लो ॥ ९ ॥ तव बोढ्या शेर धन्नाने करि मनुहार जो, रूप कला गुण लावण्यथी तुम कुल लह्यो रे लो ॥ वली आचारेथी जाणी उत्तम जाति जो, अम वन फलेथी अमे मनमें निश्चय ग्रह्यो रे लो ॥ १० ॥ तव मौन करी रह्या धन्नोशाह तिवार जो, शेर तव विवाहनां परठण तिहां कियां रे लो ॥ तव गोरी गाथे कोकिल स्वरथी गीत जो, श्रीफलने सोपारी पान प्रमुख दियां रे लो ॥ ११ ॥ हवे धन्नाशाहे चिंत्यो मनमें ताम जो, सुसराने घेर रहेतां लाज वधे नही रे लो ॥ वलि पाणिगृहणानो किम होवे उठरंग जो, नात प्रमुखने पोखवी पिण माहरे सही रे लो ॥ १२ ॥ यतः ॥ उत्तम आप गुणे ज्ञस्या, मध्यम तात गुणेश ॥ अधम सुण्या मातुल गुणे, अधमाधम सुसरेण ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—पोताना गुणथी नलखाय ते उत्तम, पिताना गुणथी नलखाय ते मध्यम, माताना गुणथी नलखाय ते अधम अने सस-

राना गुणथी अर्थात् ससराना नामथी नुलखाय ते अधममां पण अधम जाणवो. ॥ १ ॥
 इम चिंती लीधां ततक्षण महोटां धाम जो, काम चलायो सघलो मणि महिमा थकी रे
 लो ॥ जस चिंतामणी घर तेहने शी ठे खोरु जो, मनचिंतित सवि थावे इम सघले वकी
 रे लो ॥ १४ ॥ हवे सुरमणि पूजी जे जे चिंते काज जो, ते ते रे ततकाले थइ आवे जलो रे
 लो ॥ बहु सेवक सेना हय गय रथ परिवार जो, सेवे रे करजोनी यश पिण कुजलो रे लो
 ॥ १५ ॥ जे ज्ञाग्यवली ठे तेहने पग पग रुद्धि जो, विण नद्यमथी आवे जावे आपदा रे
 लो ॥ जिम नत्कर तुरतमें विण आयासे वृद्ध जो, थाये रे तिम आवे मिली सवि संपदा रे
 लो ॥ १६ ॥ जेणे पूरवे सुकृत करतां राखी खोरु जो, तेहने रे मनबंधित कहो किहाथी
 मिले रे लो ॥ एह बीजे नुलहासे आवमी ढाल रसाल जो, कहे जिन रंगे पुण्ये बंधित सवि
 फले रे लो ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ कुसुमपाल शेवे तुरत, तेनाच्या जूदेव ॥ आदर दई अति घणो, पूठे ल
 गन सुदेव ॥ १ ॥ जोशी जोई टीपणुं, शुभ मुहूर्त शूभ वार ॥ कुसुमथी पुत्री तणो, लगन
 कस्यो निरधार ॥ २ ॥ हवे विवाह तणां तिहां, महोटां करे मंमाण ॥ आगलथी पापरु
 वनी, प्रमुख शाक परियाण ॥ ३ ॥ कंदाई वेठा करे, विविध ज्ञात पकवान ॥ दोठाथी दा

ढ्यो गले, सुख लहे सुणतां कान ॥ ४ ॥ मंरुप बांध्या मोटका, पंचरंगी परगट्ट ॥ रचना
जोवाने रसिक, आवे नरना थट्ट ॥ ५ ॥

ढाल ए मी. ॥ (करमो तिहां कोटवाल.-ए देशी.)

हवे ते धन्नोशाह, लगन दिवस जब आयो रंगशुं जी ॥ पकवाने करी पांति, पोखे
परिघल अति उठरंगशुं जी ॥ १ ॥ उपर शाखि ने दाखि, तिम घृत ताजां पिरसे प्रेमशुजी
॥ व्यंजन नवि नवि ज्ञात, आणे ने वली टाणे सहु जिमे खेमथी जी ॥ २ ॥ गोरस सरस
आहार, करीने सहु को मन प्रमुदित थया जी ॥ ऊपर फोफल पान, ते लेइने सहु निज
मंदिर गया जी ॥ ३ ॥ लगन वेला थइ जाम, तव वरघोमे वधु वरवा ज्ञली जी ॥ चढिया
मन धरी चोंप, आचूषणनी ते शोजा अतिहे बनी जी ॥ ४ ॥ हय गय रथ परिवार, शेठ
सामंत सचिवथी परिवस्था जी ॥ देतां दान उदार, सुंदर खुंप ते शिर ऊपर धर्यो जी ॥
५ ॥ वाजे तूर उत्रीश, नादे अंबर सवि गाजी रह्यो जी ॥ देवध्वनिनां गीत, तेहनो वर्णन
किम जाए कह्यो जी ॥ ६ ॥ जुगते लेई जान, धनपति आव्या सुसरा आंगणे जी ॥ सुस
रो थयो रलीयात, सासु पण मनमें धन्य दिन ते गणे जी ॥ ७ ॥ पूंखणे पोंखी ताम, ली
धा जमाइने हरषे मांयरे जी ॥ तेनी कन्या तिवार, वर कन्याने करमेळो करे जी ॥ ८ ॥

चोरी मणिमय चंग, रंगे बांधी ते ज्ञानी ज्ञांतिशुं जी ॥ फेरा फेरे तिहां सार, मंगल वरत्यां
 चारे खांतिशुं जी ॥ ए ॥ वेद ज्ञणे द्विज ताम, स्वर उदामे होम हवन करे जी ॥ करमो
 चननां दान, सुसरो सासू देवे बहु परे जी ॥ १० ॥ आरोग्या कंसार, दंपतिनां दिल हेजे
 हरखीयां जी ॥ मांहे मांहे श्रयो राग, गुण लक्षण सुपरे सवि परखीया जी ॥ ११ ॥ परि
 जन पोख्यो ताम, शेठे सुपरें सघलो आपणो जी ॥ दीघां याचक दान, लाहो लीधो लख
 मीनो अणगण्यो जी ॥ १२ ॥ इण विध कीध विवाह, जय जय बोले वे विहुं तणो जी ॥
 विहुं मन आणंद पूर, हेज वध्यो तिम विहुंने अति घणो जी ॥ १३ ॥ कुसुमश्री लेइ संग,
 रंगे धन्नो आव्यो गृह आपणे जी ॥ जोगेवे जोग विलास, सुर सुखने पिण तृण सरिखां
 गणे जी ॥ १४ ॥ पुण्यतणे संयोग, सरिखा सरिखो जोनो आवी मिले जी ॥ नवमी बीजे
 उल्हास, जिन कहे ढाल ए सोहलामें जले जी ॥ १५ ॥

॥ दोहा ॥ एहवे मालवदेश पति, चंरुप्रद्योतन नूप ॥ कोइक वयण विरोधश्री, युद्ध
 करण अइ चूप ॥ १ ॥ वज्रवावी रणजेर तव, दीया निशाणे घाव ॥ सामंत सवि जेला श्र
 या, तेहाव्या नमराव ॥ २ ॥ चौद सुगटवद्ध राजवी, महा वीर अति धीर ॥ सहस युद्ध
 शूरा घणा, वरुवागीया वजीर ॥ ३ ॥ हय गय रथ पायकतणो, कोय न दीसे पार ॥ चालं

ते जूँइ धणहणे, शेष करे सलकार ॥ ४ ॥ शशि रवि ढाया खेहथी, श्वोऽप्यां जलधी अ
गाध ॥ व्यंतर पिण चित्त चमकिया, आशी वरु विराध ॥ ५ ॥ अति अविच्छिन्न प्रयाण
थी, आव्यो मगध मजार ॥ श्रेणिकने पिण अइ खवर, सैन्यतणी तिणिवार ॥ ६ ॥ गढरोहो
करि राय तव, बेगो जूऊण काज ॥ राजगृही आव्यो तुरत, प्रद्योतन नर राज ॥ ७ ॥

॥ ढाल १० मी. ॥ (आघा आम पधारो पूज्य, अम घर वहोरण वेला.—ए देशी.)

अजयकुमरने तेनी श्रेणीक, पर दल वात प्रकासे ॥ चंरुप्रद्योतनने जीतेवा, बुद्धि
करो सुविलासे ॥ देखो कुमर राय, बुद्धिवले अरि जीपे ॥ १ ॥ ए आंकणी. ॥ तव बोले
कुमर सुणो स्वामी, तुमे चिंता मत करज्यो ॥ दाय उपाये जीतशुं एहने, ते निश्चय
चित्त धरज्यो ॥ देखो० ॥ २ ॥ एहने सैन्य घणो ठे साथे, पिण ए जाग्ये हीणो ॥ एहनो
३जय करतां नही डुर्वज, ए बल बुद्धे खीणो ॥ दे०॥३ ॥ एणे संग्रामे लाज गमावी, धजय
नृप साथे (युद्ध) करीने ॥ मुगट जणी लेवा मन कीधो, मान अधिक मन धरिने ॥ दे० ॥

१ लश्करना घणणाटथी पातालमां रहेला शेषनाग पण जय पाम्या. २ सरोवरनां पाणी सूकावा
मांड्यां. ३ एने जीतवो ते कांइ कठण नथी; कारण के, एनी पासे लश्कर ठे पण बुद्धि नथी. ४ जयराजा
अपर नामे डम्पुह राजा साथे मुगट लेवा माटे युद्ध करयुं, खां पण एणे पोतानी लाज गमावी हती.

४ ॥ कोशंबी पण काज न सीध्यो, मृगावतीथी एहनो ॥ उज्जयिनी गढ पाती एणे, १दुर्ग
 कराव्यो तेहनो ॥ दे० ॥ ५ ॥ दासी काजे उदयन आगल, युद्ध करंतां जाणो ॥ मम दासी
 पति नाम एहवो, निलवट मांही लखाणो ॥ दे० ॥ ६ ॥ धुंधुमारगुं धंध मचायो, अंगारव
 तीने हेते ॥ तिहां पण शरम गमावी पापी, परण्यो जाग्य संकेते ॥ दे० ॥ ७ ॥ युद्ध करंतां
 जन क्य थाए, सकल प्रजा सीदाये ॥ युद्ध कस्या विण जय थाए तो, युद्ध न कीजे प्राये
 ॥ दे० ॥ ८ ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम्. ॥ पुष्पैरपि न योद्धव्यं, किं पुनर्निशितैः शरैः ॥ युद्धे
 विजयसंदेह, प्रधान पुरुष क्यः ॥ १ ॥ जावार्थः—फूलवने पण युद्ध न करवुं जोडए, तो
 धारवाला वाणवने युद्ध करवानी तो वातज शी ? कारण के, युद्धवने जीतनो संदेह ठे अ-
 ने तेमां प्रधान एटले उत्तम पुरुषोनो क्य थाय ठे. ॥ १ ॥ अजयकुमारे बुद्धि नपाई, धन
 धरतीमें धराव्यां ॥ गुप्तपणेथी शैन्य स्थलमें, अति प्रहन्न कराव्यां ॥ दे० ॥ ९ ॥ पत्र लि-

१ संतानिक राजानी राणी अने चेमाराजानी पुत्री एवी मृगावती राणी साथे, विषय सुख जोगववा
 नी लालचथी ए चंमपद्योतने पोतानी उज्जयिनी नगरीनो कोट पाडी नांखी, ते इच्छोथी कांशंबी नगरी
 नो कोट करावी आप्यो, तथापि तेनुं काम वन्युं नही. बीजा ग्रंथोमां एम ठे के, उज्जयिनी नगरीथी हार
 बंध माणसो उजा राखी उज्जयिनीनो इच्छोथी कोट करावी आप्यो.

ख्यो प्रेमे करी युगते, विनयानत अइ अज्ञये ॥ स्वामी, तुम पूज्योपम अमचे, सुणो वात
 इक निज्ञये ॥ दे० ॥ १० ॥ शिवादेवी तुमची पटराणी, चेलणा सम में जाणी ॥ तेह ज्ञ-
 णी स्नेह अमने अधिको, तुमथी ठे गुणखाणी ॥ दे० ॥ ११ ॥ अम ताते धन आपी बहुलो,
 सामंत सवि पतलाव्या ॥ ते ग्रही तुमने देशे सुपरें, जे साथे इहां आव्या ॥ दे० ॥ १२ ॥
 जो अम वचननो प्रत्यय नावे, तो जोज्यो निरधारी ॥ सामंतादिक पटकुटी पासे, ज्ञुक्ति
 लेज्यो सारी ॥ दे० ॥ १३ ॥ धन देखो तो वचननो प्रत्यय, निश्चेशी चित्त धरज्यो ॥ तुमे ठे
 समयतणा उपलक्षक, जिम जाणो तिम करज्यो ॥ दे० ॥ १४ ॥ इम लिखी पत्र प्रहन्नप-
 णेशी, प्रद्योतरायने प्रेक्षो ॥ तिणे पण एकांते अवसरथी, वांचीने सवि देख्यो ॥ दे० ॥ १५
 ॥ प्रत्यय माटे नृप पटकुटीने, पासे तव जोवरावे ॥ ज्ञूपति निधि देखीने ततक्षण, अंति
 अधिक मन थावे ॥ दे० ॥ १६ ॥ यामिनीये निज प्राण ग्रहीने, चंरुप्रद्योतन नागो ॥ मर-
 ण तणा ज्ञयथी मति हीणो, कीधो तिहां मन कागो ॥ दे० ॥ १७ ॥ यतः ॥ उपजातिवृ-
 त्तम् ॥ विपक्षवर्गेण बलाधिकेन, स्वयं विवादो विदुषा न कार्यः ॥ नष्टापि रक्षं किल जी-
 वितव्यं, जीवन्नरो ज्ञइ शतानि पश्यति ॥ २ ॥ ज्ञावार्थः—अधिक बलवाला शत्रुनी साथे
 विघ्नान पुरुषे वाद विवाद अर्थात् कजीयो न करवो; नासीने पण जीवितव्यने राखवुं जो-

इए; कारण के, जीवतो मायास शंकनो सुखने जूए ठे. ॥ १ ॥ सैन्य सकल पिण चिहुं दि-
 शि जावे, नृपनी शुद्धि करंतो ॥ अनुक्रमे उज्जयनी ते पहेत्यो, नृप मन शोक धरंतो ॥
 दे० ॥ १७ ॥ सामंत राय सज्जामें बोळ्या, शूं इम स्वामी ज्ञाग्या ॥ इजत सहुनी एले ग-
 मावी, केहने केहणे लाग्या ॥ दे० ॥ १८ ॥ चंरुप्रद्योत कहे तुम धनश्री, लपटाणा में जा-
 एया ॥ तव ते कहे अमे किम पलटानं, फोगट तुमे जरमाणा ॥ दे० ॥ १९ ॥ अज्ञयकु-
 मारनी चंरुप्रद्योते, कपट वात ते जाणी ॥ चिंते मनमें ए शूं कीधुं, खोई लाज पुराणी ॥
 दे० ॥ २० ॥ हवे कोइ दाय नपाय करीने, अज्ञयकुमारने आणुं ॥ चरण नमावीने वश रा-
 खुं, कोइक जोई टाणुं ॥ दे० ॥ २१ ॥ देखो हवे प्रद्योत नरेसर, कपट नपाय ते करशे ॥ ढाल
 दशमी बीजे उलहासे, जिन वचने सुख वरशे ॥ देखो ॥ २२ ॥

॥ दोहा. ॥ सज्जा समक एकण दिने, कहे प्रद्योतन राय ॥ अज्ञयकुमारने जे ग्रहे,
 तेहने करूं पसाय ॥ कोइ शूरो कोइ साहसी, कोइ ठल बलनो जाण ॥ जे ग्रही अज्ञय-
 कुमारने, लावे ते सुप्रमाण ॥ १ ॥ सुणी कहे सामंत सवि, स्वामी ए नवि आय ॥ इंड चं
 इ नागेंडश्री, अज्ञय उल्यो नवि जाय ॥ २ ॥ समुद्र तरंतां सोहलो, भृगपति ग्रहण सुकाज
 ॥ व्याघ्रने वश करवो सुलज्ज, पिण ए दुर्लज्ज काज ॥ ३ ॥ परुहोद्घोषण नगरमें, ताम क

रावे राय ॥ अन्नयकुमर आणे जिर्के, ते लहे लाख पसाय ॥ ५ ॥ परुह ठव्यो गणिका तु
रत, राय लह्यो आदेश ॥ परिकर युत आवी प्रबल, मगधदेश सुविशेष ॥ ६ ॥
॥ ढाल ११ मी. ॥ (वाह वाह बनायो वींजणो.—ए देशी.)

हवे ते गणिका कपटी मली, करे कपट श्राविका वेशो रे ॥ मुखवस्त्रादिक उपग
रणे, मुखे राखी दिये नषदेशो रे ॥ तुमे देखो कपट गणिकातणां ॥ १ ॥ ए आंकणी. ॥
एतो परिपाटी श्राविका तणी, सवि शीखी सुफरे राखी रे ॥ तेणे वेश धर्या श्राविकात
णा, वचनादिकथी मृडु ज्ञापी रे ॥ तु० ॥ २ ॥ केइ धवयुत केइ विधवा अइ, केइ वृद्ध अने
केइ बाला रे ॥ जीवाजीवादि पद जणे, करे त्रस आवर रखवाला रे ॥ तु० ॥ ३ ॥ इम वेश
वनावी विगतशुं, राजगृही नगरीमें आवे रे ॥ उपवनमें मेरा थापीया, अति नन्नति अधि
की फावे रे ॥ तु० ॥ ४ ॥ प्रत्युषे पुष्पादिक ग्रही, अई जेली नगरीमां जावे रे ॥ फिरतो
फिरे ते देरासरे, सहु श्रावकने मन ज्ञावे रे ॥ तु० ॥ ५ ॥ एक दिन नृप चैत्यालये, आवे
अति हर्ष धरंती रे ॥ अन्नये दीठी जिनमेदिरे, विधि सहित जिनार्चना करंती रे ॥ तु० ॥
६ ॥ देखी कहे अन्नयकुमर इशुं, तमे कोण ठो किहां रहो वाई रे ॥ किण कारण आव्यां
ठो ईहां, किहां जाशो कहो चित्त लाई रे ॥ तु० ॥ ७ ॥ तत्र बोली विमास्तीने तिहां, एक

वृक्ष विधवा वेशे रे ॥ सुणो अज्ञयजी अर्थ ए वयणनो, जिशो वाख्यो गुरु उपदेशे रे ॥ तु-
 मे० ॥ ८ ॥ अमे चेतना लक्षणथी सही, ठइए संसारी शुद्ध प्राणो रे ॥ रहिये ठे एह सं-
 सारमां, योनी चोराशी लख खाणी रे ॥ तु० ॥ ९ ॥ कोइ निमित्त विशेषे साधवा, शुद्ध
 फल लह्यो नर अवतारो रे ॥ तिहां साधन शिवपूर कारणे, आख्यां जिनमार्गमें सारो रे ॥
 तु० ॥ १० ॥ सार्थप श्री वीरजिणंद मिट्या, निर्जय शिवपुर पहोचामे रे ॥ तिहां जावानो
 सही मन रहे, पिण तनु आलस देखामे रे ॥ तु० ॥ ११ ॥ साधु मारग अति दोहिलो, स-
 हेवा परिसहना कांटा रे ॥ पंच महाव्रत ज्ञार नपामवो, ते वहेतां रहे पग आंटा रे ॥ तु०
 ॥ १२ ॥ आठ लंठथी ठल करी चालवो, तेवीश विषय वश करवा रे ॥ पचवीशने पासे न
 राखवा, पांच वैरी विश्वास न धरवा रे ॥ तु० ॥ १३ ॥ एक जिद्धाधिप विचे डुष्ट ठे, तस
 सेवक ठे दोइ माठा रे ॥ तेहने पिण यतने वर्जवा, जेह डुर्जय ठे अति काठा रे ॥ तु० ॥
 १४ ॥ इम उद्यमथी पंथे चालतां, चौदमे वासे पहोचे रे ॥ ए मार्ग विपम सुसार्थपे, देखा-
 ड्यो मननी होंशे रे ॥ तु० ॥ १५ ॥ पिण ते पंथनो पूरो नवि पमे, तव सार्थप वली इम
 ज्ञाखे रे ॥ एक वाट सुगम बीजी अठे, शिवपुर जावा जे मन राखे रे ॥ तु० ॥ १६ ॥ अ-
 णुव्रतनो ज्ञार अल्प ग्रही, दानादिक रक्षक संगे रे ॥ तप विनयादि अश्वे चढी, पहोचे शि

वपुर मन रंगे रे ॥ तु० ॥ १७ ॥ तव ते मारग मनमें वशो, ते पंथे अमे ह्वे चालुं रे ॥ पं-
थवाहक साधुने पूठतां, शिव नगरने नजरे जालुं रे ॥ तु० ॥ १८ ॥ तिहां जइ वसवानुं म-
न अठे, सुखगाम जणी धिर जाणी रे ॥ इग्यारमी बीजा उटहासनी, ढाल जिनविजये
वखाणी रे ॥ तुमे० ॥ १९ ॥

॥ दोहा. ॥ अजय कहे साहमिणी सुणो, तुमे कही जे वात ॥ जाव थकी सवि
अनुजवी, ए तुमची अखियात ॥ १ ॥ इअ थकी ह्वे दाखवो, नाम ठामने काम ॥ तव
वोले ते यत्तथी, अजयने करी प्रणाम ॥ चंपाये प्राहिं रहूं, वहुं सदा जिन आण ॥ सत्य
वचन मुखथी कहूं, लहुं अध्यात्म प्रमाण ॥ ३ ॥ संसारिकना कार्यथी, धर्मकार्य शुं रंग ॥
राखुं तुं निश्चय थकी, अविहम रंग अजंग ॥ ४ ॥ देवार्चन गुरु सेवना, पात्रदान सुपवित्र ॥
तप जप काया शक्ति सम, करूं अमे सुचरित्र ॥ ५ ॥ सिद्धाचल यात्रा निमित्त, मन राखुं
तुं प्राहिं ॥ चैत्यालय नमवा जणी, आव्यां तुं अमे आंहिं ॥ ६ ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम् ॥
अनल जल चौर याचक, नृप खल दायाद संहतंयाति ॥ धन्यो सो यस्य धनं, जिनयात्रा-
दौ शुभे लग्नं ॥ १ ॥ जावार्थः—धनने अग्नि, पाणी, चोर, याचक, राजा, खललोको अने
गोत्रीयो हरण करी जाय ठे; माटे तेज पुरुषने धन्य ठे के, जेनुं धन जिन यात्रादिक शुभ

कार्यने विषे वपराय ठे. ॥ १ ॥

॥ ढाल १२ मी. ॥ (आठे लाल.—ए देशी.)

वचन सुणी तेणीवार, हरख्यो अज्ञयकुमार ॥ सोजागी लाल ॥ धन्य धन्य ए शुद्ध
आविका जी ॥ जीवाजीवादिक जाण, शिर वहे श्री जिन आण ॥ सो० ॥ जिनमतनी
ए शोजाविका जी ॥१॥ एह तो उत्तम पात्र, एहनो निर्मल गात्र ॥ सो० ॥ यात्रा अइ मुज-
ने जली जी ॥ एहनो जक्ति उदार, कीजे विविध प्रकार ॥ सो० ॥ सारपणाथो वली वली
जी ॥ २ ॥ इम आलोची चित्त, वोढ्यो अज्ञय पवित्र ॥ सो० ॥ अम घर तुमे पावन क-
रो जी ॥ तव बोली ततखेव, धर्मवांधव तुम हेव ॥ सो० ॥ वचन अमारुं चित्त धरो जी ॥
३ ॥ आज ठे तीर्थोपवास, सवि साहमिणीने खास ॥ सो० ॥ जोजन हठ किम कीजीए
जी ॥ सुणि चमक्यो चित्तमांदि, वचन अनोपम त्यांदि ॥ सो० ॥ लाज प्रत्यूत्रे लीजिये
जी ॥ ४ ॥ बीजे दिन सुप्रकार, जक्ति करे मनुहार ॥ सो० ॥ अज्ञयकुमार जोजन तणी जी
॥ तव ते कपटी वेश, अज्ञय अकी सुविशेष ॥ सो० ॥ प्रीति करे वचने घणी जी ॥ ५ ॥
यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम्. ॥ सुप्रयुक्तस्य दंजस्य, ब्रह्माप्यं तं न गच्छति ॥ कोलिको विश्वरूपे
ण, राजकन्यां निषेवते ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—सारी रीते करेला कपटना पारने ब्रह्मा पण जा

एणी शकता नथी; जेम कोलीए विष्णुनुं रूप करी राजकन्या जोगवी तेम ॥ १ ॥ ग्रामंत्रे
उह्वांदि, अन्नयने मेरे त्यांदि ॥ सो० ॥ अन्य दिवस अवसर लहीजी ॥ पिरशां जोजन
सार, व्यंजन विविध प्रकार ॥ सो० ॥ शालि दालि घृतथी सही जी ॥ ६ ॥ तडुपरि गोरस
ठाम, चंडहास्य इशे नाम ॥ सो० ॥ मदिराने मन मोदशुं जी ॥ जिमतां वेंत तिवार, घू
णित नयन विकार ॥ सो० ॥ निडा लहे आणंदशुं जी ॥ ७ ॥ घाली रथमें ताम, चालीने क
रिने काम ॥ सो० ॥ गणिका राजगृहि थकी जी ॥ पोहती उज्जयिनी तेह, नृपने कहे सस
नेह ॥ सो० ॥ अन्नय आणयो अमे ठल थकी जी ॥ ८ ॥ सुणि प्रद्योतन राय, कीधो लाख
पसाय ॥ सो० ॥ गणिकाने अति सादरे जी ॥ अन्नयकुमरने ताम, तेमावी तिण ठाम ॥
सो० ॥ गणिका गृहथी आदरे जी ॥ ९ ॥ तव प्रद्योत नरेश, अन्नय थकी सुविशेष ॥ सो० ॥
हास्यादिक विधि बहु करे जी ॥ बुद्धितणो जंमार, देखी अन्नयकुमार ॥ सो० ॥ चंरुप्रद्योत
पिण हित धरे जी ॥ १० ॥ अन्नय कहे सुण राय, ठंरी अवर नपाय ॥ सो० ॥ धरम तणो
ठल मुज कस्यो जी ॥ एह अघटतो काज, तुजने न लागी लाज ॥ सो० ॥ नीति वचन पिण
नवि घस्यो जी ॥ ११ ॥ धिग धिग तुज अबतार, कूरु कपट कोठार ॥ सो० ॥ जिनमतने
मेळो कस्यो जी ॥ मुज मासीने गेह, रहेशुं धरी बहु नेह ॥ न नसुं तुजने वीफस्यो जी ॥

१२ ॥ इम कहीने सुविचार, मासीने आगार ॥ सो० ॥ अन्नय रहे आणंदमें जी ॥ ढाल ए
वारमी खास, कही वोजे उब्हास ॥ सो० ॥ बुध जिनविजये मन गमे जी ॥ १३ ॥

॥ दोहा. ॥ एहवे राजगृह नगर, नृप श्रेणिक दरवार ॥ सेचन गज मदथी थयो, वि
कल विरूप तिवार ॥ १ ॥ आलानथंज उपासने, पामे गोपुर पोल ॥ मंदिर ढाहे मोजथो,
चूरे हाटनी तुल ॥ २ ॥ नाणावटी फरिया प्रमुख, देखि दिशो दिशि जाय ॥ विंखेरी तस
वस्तुने, वलि आगल ऊजाय ॥ ३ ॥ जार सहस अयमय निविर, श्रोनी सांकल ताम ॥
पुरजनने सुंढाग्रथी, ग्रहे क्रिमाने काम ॥ सयल नयरने ततक्षणो, कीधो हाल कडोल ॥
नगर लोक आकुल थयो, गजथी अतिहि अतोल ॥ ५ ॥

॥ ढाल १३ मी. ॥ (कोइ शूर सुजटने जांखो रे.—ए देशी.)

गज लूटो देखीने नूपति, मनमां एम विमासे रे ॥ बुद्धिवंत बलथी पिण शूरो, अन्न
य नही मुज पासे रे ॥ तुमे लावो रे, कोइ गयवर पकमी लावो रे ॥ कोइ दाय उपाय
वतावो रे ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ तेह अवंति मांहे विराजे, प्रद्योतन गृह गाजे रे ॥ अवर न
इण नगरे कोइ एहवो, जे ए कोइ संकट जाजे रे ॥ तु० ॥ २ ॥ सुजट सकल सेना अइ चि
हुं दिशि, पिण गज हाथ न आवे रे ॥ विलखा अइने वीर हुताते, नासीने घर जावे रे ॥

धन्ना०
५०

तुमे० ॥ ३ ॥ परुह वजाथ्यो प्रगटपणे तव, जे गज वश्य करी लावे रे ॥ सोमश्री पुत्री ते परणे, ग्राम सहस्र वली पावे रे ॥ तु० ॥ ४ ॥ परुह सुणीने धन्नकुमर तव, सुरमणिने पर जावे रे ॥ गजमदनी विद्याना बलश्री, गज ततक्षण वश आवे रे ॥ तु० ॥ ५ ॥ फेरवी गज आकुल करी तडुपरि, बलथी वेठो कुंजे रे ॥ मस्तकमें अंकुश देइ गजने, आण्यो आला न धंने रे ॥ तु० ॥ ६ ॥ बांध्यो गजने स्वल्प प्रयासे, सहु को अचरिज निरखे रे ॥ नव रूपे ए देव ठे कोइक, इम मनमें सहु परखे रे ॥ तु० ॥ ७ ॥ नृप निरखी परखी तस गुणश्री, निज वच प्रत्यय आपे रे ॥ सोमश्री पुत्रीनुं श्रोफल, धन्नाशाहने आपे रे ॥ तु० ॥ ८ ॥ लगन आपीने तिलक वधावी, धवल मंगल देवरावे रे ॥ उच्चव अधिक करी धन्नाने, सोमश्री पर णावे रे ॥ तु० ॥ ९ ॥ गाम सहस्र दीधां मनगमतां, दीधा गज रथ वाजी रे ॥ श्रेणिक राजाये मनमोदे, कीधा जमाइ राजी रे ॥ तु० ॥ १० ॥ धन्ने पिण पाणिगृहणने हेते, धन व्यय बहुलो कीधो रे ॥ स्वजनादिक जन सवि संतोष्या, दान याचकने दीधो रे ॥ तु० ॥ ११ ॥ जश लीधो जुगते जय वरत्यो, पूरव पुण्य संयोगे रे ॥ वे स्त्रीथी आसक्त रहे जिम, चेतन वे नपयोगे रे ॥ तु० ॥ १२ ॥ देव दोगुंदकनी परे विलसे, जोग संयोग सवाई रे ॥ ते रमी ढाले बीजे उडहासे, बुध जिनविजये गाई रे ॥ तु० ॥ १३ ॥

॥ दोहा. ॥ धन्नाशाह प्रसंगश्री, शालिज्ज संबंध ॥ वर्णवशुं संक्षेपश्री, सुणजो
तेह प्रबंध ॥ १ ॥ राजगृह पास अठे, शालिग्राम सुविख्यात ॥ पशुपालिक तिहां कणे र
हे, संगम केरो तात ॥ २ ॥ धन्ना तेहनी शुद्धमती, घरणी पुण्य पवित्र ॥ संगम सुत ठे ते-
हने, लघु चयश्री सुचरित्र ॥ ३ ॥ रोग योगथी अन्यदा, धन्ना धव व्युत्पन्न ॥ लक्ष्मी पिण
साथे गइ, कर्म योग निष्पन्न ॥ ४ ॥

॥ ढाल १४ मी. ॥ (देशी नणदलनी.)

तव धन्ना सुतने ग्रही, राजगृहीमें वाल हो ॥ सुंदर ॥ वसीने इत्यादिक घरे, करे ति
हां कार्य अत्र्यास हो ॥ सुंदर ॥ पुण्यतणां फल सांजलो ॥१॥ ए आंकणी ॥ पुण्य विना
नवि सिद्धि हो ॥सुं॥ पुण्य अधिक जगमें कह्यो, पुण्यशकी नव नीधि हो ॥सुं॥पु॥२॥
संगम चारे सामटां, वाठरुआं वन मांहि हो ॥ सुं॥ एक दिवस पायस तणो, जोजन दे-
खे त्यांहि हो ॥ सुं॥ पु॥३॥ माताशुं हठ मांरुने, मागे पायस ताम हो ॥सुं॥ आंखे
आंसु नांखती, माता बोले आम हो ॥ सुं॥ पु॥४॥ न मिले पूरा कूशका, जोजन वेला
जात हो ॥ सुं॥ तैलादिक पिण दोहिलो, तो पायसनी शी तात हो ॥सुं॥पु॥५॥ रुदन

१. पशुपालिक नामे गोवाल. २ धन्ना नामे छीनो धणी मरण पाम्यो. ३ मजुरी करे ठे.

करे बालक इठे, माता तव दुःख दीन हो ॥ सुं० ॥ देखी पानोशणो मीली, पूठे ते सुप्रवी-
न हो ॥ सुं० ॥ पु० ॥ ६ ॥ वात कही सवि बालनी, मागे ए १ परमात्र हो ॥ सुं० ॥ ते बोलीयो
हसी ततकणे, एहमां शूं ठे अज्ञान हो ॥ सुं० ॥ पु० ॥ ७ ॥ दूध खांरु घृत शालिने, आणी
ये एकेक हो ॥ सुं० ॥ सर्व संजोगे नीपनी, खीर ते अति ही सुठेक हो ॥ सुं० ॥ पु० ॥ ८ ॥
बालक तेनी हर्षशुं, पिरसे ते परमात्र हो ॥ सुं० ॥ पवन थकी शीतल करे, राखी निश्चय
ध्यान हो ॥ सुं० ॥ पु० ॥ ९ ॥ एहवे मुनिवर गौचरी, फिरता आहारने काज हो ॥ सुं० ॥ मा-
सखमणने पारणे, तिहां पहात्या सुखसाज हो ॥ सुं० ॥ पु० ॥ १० ॥ देखी मुनिवरने तिहां,
जागी दाननी बुद्धि हो ॥ सुं० ॥ समकित कायोपसम थकी, आत्म थयो सविशुद्ध हो ॥
सुं० ॥ पु० ॥ ११ ॥ दान दियो ऊलट धरी, न करी विमासण कोय हो ॥ सुं० ॥ कोर्क जाव
विशेषथी, अल्प संसारी होय हो ॥ सुं० ॥ पु० ॥ १२ ॥ मुनिवर वहोरी संचख्या, संगम चाटे
आल हो ॥ सुं० ॥ देखी माता चिंतवे, जूखयो ठे हजी बाल हो ॥ सुं० ॥ पु० ॥ १६ ॥ पिरशी
शेष हती तिके, खाधी खीर सवाद हो ॥ सुं० ॥ जूखयो बालक मुज रहे. इम धरे मन वि-
षवाद हो ॥ सुं० ॥ पु० ॥ १४ ॥ माता आगल मुनितणी, वात न कीधी कांय हो ॥ सुं० ॥ रा

त्री समय उदरे व्यथा, अन्न अजीर्ण ते श्राय हो ॥ सुं० ॥ पु० ॥ १५ ॥ यतः ॥ अनुष्टुब्धवृत्तम् ॥
 अजीर्णतपसः क्रोधो, ज्ञानाजीर्णमहंकृतिः ॥ परतापिक्रियाजीर्ण, मन्नाजीर्ण विषुचिका ॥
 १ ॥ ज्ञावार्थः—तपनुं अजीर्ण क्रोध, ज्ञाननुं अजीर्ण अहंकार, क्रीयानुं अजीर्ण परने परि
 ताप उपजाववो तेमज अन्ननुं अजीर्ण उलटी अने जामो जाणवुं ॥ १ ॥ ते पीरुाथी मृ
 त्युने, पामे संगम वाल हो ॥ सुं० ॥ बीजे उलहासे जिन कहे, चौदमी ढाल रसाळ हो
 ॥ सुं० ॥ पु० ॥ १६ ॥

॥ दोहा ॥ ते राजगृहमें वसे, गौज्ज श्रेष्ठ गुणवंत ॥ धनश्री धनद समान ठे, न्याय
 नीति पुण्यवंत ॥ १ ॥ ज्ञज्ञ ज्ञामिनी तेहनी, रूप कला आगार ॥ राधा कृष्णतणी परे,
 विलसे विविध प्रकार ॥ २ ॥ हवे ते संगम जीव चवी, ज्ञज्ञ उर उत्पन्न ॥ सुपन मांहि तव
 शालिनो, दीगो क्षेत्र निष्पन्न ॥ ३ ॥ फल पूढ्यो ज्ञरतारने, सुणी श्रेष्ठ सुविलास ॥ पुत्र
 रत्न होशे ज्ञलो, कुलमंरुन सुप्रकाश ॥ ४ ॥ दंपति दिन दिन अति सुदित, रहे सदा सुप्र
 सन्न ॥ पूर्ण मास पहाते श्रके, जनम्यो पुत्र रतन्न ॥ ५ ॥

॥ ढाल १५ मी. ॥ रामचंद्र के बागमें, चांपो मोरी रह्योरी.— ए देशी.)
 प्रसव्यो पुत्र सुरंग, ज्ञज्ञ हर्ष धरेरी ॥ श्रेष्ठ सुणी तव वात, उल्लव अधिक करेरी ॥

घना०
५९

७०९

१ ॥ पंच शब्द-वाजिंत्र, घर आंगणे वाजेरी ॥ जेरी जूंगल घन घोर, अंबर लगि गाजेरी
॥ २ ॥ सोहव गावे गीत, ये आशीष घणेरी ॥ तुं कुलमंजन पुत्र, सुखथी एम जणेरी ॥
३ ॥ याचकने दिये दान, वंढित तेह तणेरी ॥ सयण संबंधीने मान, विविध प्रकारे घणेरी
॥ ४ ॥ पूजा परिघल चित्त, जिनमंदिर विरचेरी ॥ कुलदेव्याने ताम, चंदनश्री चरचेरी ॥
५ ॥ दश उठामण एम, कुल मर्याद कियोरी ॥ पोखी नात पवित्र, नाम विचारी दियोरी
॥ ६ ॥ सुपनमें शालिनो क्षेत्र, दीठो अति सुखकारी ॥ तिणे करी शालिजड कुमार, नाम
दियो निरधारी ॥ ७ ॥ रूपे अमर कुमार, के रति पति सम कहीए ॥ इंडतणे अनुहार, अ
वर न इण युग लहीए ॥ ८ ॥ सुंदर वाणी सार, गज गतिनी परे चाले ॥ ठमक ठमक बवे
पाय, मात पिता मन महाले ॥ ९ ॥ अल्प प्रयासे ताम, विद्याज्यास करावे ॥ पठित संज्ञा
रे जेम, तिम तस सघला आवे ॥ १० ॥ योवन आव्यो जाम, ताम वत्रीश कुमारी ॥ शुज
वेला शुज लग्न, परणावे सुविचारी ॥ ११ ॥ तेहशुं विविध प्रकार ॥ पंच विषय सुख वि-
लसे, जाणे न रातने दीह, चरण धरणि नही फरसे ॥ १२ ॥ अहमिंडनो अवतार, ते
शालिजड सोजागी ॥ बीजे नडहासे ढाल, पंदरमी गुणरागी ॥ १३ ॥

॥ दोहा. ॥ एहवे राजगृह नगर, अन्नय मंत्रि विण ताम ॥ न्यायादिक व्यवहार

५९

विण, थयुं अठे निष्काम ॥ १ ॥ निशा चंड विण जेहवी, दंत रहित गजराज ॥ कुमुद वि
 ना जिम सर सही, (कुसुम गंध सर जल विना,) चरण हीण रुपिराज ॥ २ ॥ तिअ भंज्री
 विण नृप सजा, दीसे दिन दिन दीन, अन्नयकुमरने अनुदिने, संचारे सहु लीन ॥ ३ ॥ धूर्त
 एक एहवे तिहां, एकाकी अविवेक ॥ लोन्नवशे धनवंतने, धूते ए तस टेक ॥ ४ ॥ वेश धरो
 सुपरे सुन्नग, सार्धवाहनो ताम ॥ गौन्नड शैठ तणे घरे, आव्यो पूठी नाम ॥ ५ ॥

हाल १६ मी. ॥ (मेतारज मुनिवर, धन धन तुम अवतार.—ए देशी.)

धूतारो तस धूतदा जी, आव्यो गौन्नड आगार ॥ आसन बेसण आपियो जी, कीधी
 घणी मनुहार ॥ सोत्ताणी साजन, देखो धूर्त विचार ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ कुशालालाप
 पूठे तिहां जी, गौन्नड न्नडक शैठ ॥ १ एकाकी जी जी करे जी, राखी नीची डेठ ॥ सो०
 ॥ २ ॥ वलतो धूर्त कहे सुणो जी, शैठजी सेवक वात ॥ चंपाये आव्या हुता जी, तुमे व्यव
 साथे विख्यात ॥ सो० ॥ ३ ॥ लक्ष दिनार लीया तिहां जी, में तुम पासे सुपात्र ॥ नवन
 एक दीधुं अठे जी, देखो ते मुज गात्र ॥ सो० ॥ ४ ॥ ते धन लक्ष लेई घणो जी, कीधो में
 व्यवसाय ॥ वृद्धि थई तेहनी घणी जी, पूरव पुण्य पसाय ॥ सो० ॥ ५ ॥ व्याज युक्त धन

१ एक आंखवालो कांणो.

धना०
५३

लेयने जी, द्यो मुज लोचन तेह ॥ ढील हवे करवी नही जी, राखो पूरव नेह ॥ सो० ॥ ६ ॥
 कहे गौज्जड सुणो शेठजी जी, ए शी खोटी रे तात ॥ चंपा पिण दीठी नथी जी, लोचन
 नी शी वात ॥ सो० ॥ ७ ॥ आज लगें नवि सांज्जड्यो जी, लोचननो व्यवहार ॥ खोटी वात
 प्रकाशतांजी, किम रदेशे इतवार ॥ सो० ॥ ८ ॥ तव कांणो आक्रोशथी जी, बोले वरु वरु
 वेण ॥ कोन्निथकी बहु मूख्य ठे जी, निर्मल माहरुं नेण ॥ सो० ॥ ९ ॥ रूडुं देखी राखशो
 जी, शुं मुज नेत्र सुजाण ॥ आखर हुं गोडुं नहीं जी, जो मुज पिंरुमें प्राण ॥ सो० ॥ १० ॥
 गौज्जडशेठने ग्रही तदा जी, लेई गया दरवार ॥ श्रेणिक नृप संशय पड्यो जी, निसुणो वा
 त विचार ॥ सो० ॥ ११ ॥ अज्जयकुमरने अति घणुं जी, संजारे सहु ताम ॥ जो एक सूर्य उ
 दय हुवे जी, तो किशुं दीपक काम ॥ सो० ॥ १२ ॥ न्याय न धाये कोईथी जी, तव श्रेणिक
 नूपाल ॥ पुरमें परुह वजावियोजी, सांज्जलजो चउसाल ॥ सो० ॥ १३ ॥ कांणो जे उग
 मो रच्यो जी, तेहनो जे करे न्याय ॥ गौज्जडशेठ पुत्री तणो जी, पाणिग्रहण तस थाय
 ॥ सो० ॥ १४ ॥ परुह सुणी धन्ने ठव्यो जी, आव्यो नृप दरवार ॥ तेमावी कांणा प्रते जी,
 कहे इम वात विचार ॥ सो० ॥ १५ ॥ गौज्जडशेठना घर तणा जी, हुं अमे लेखक धीर ॥
 वात सकल अम दफतरे जी, लिखि राखी ठे वीर ॥ सो० ॥ १६ ॥ शेठने खवर न को पमे

जी, देण लेण धन वात ॥ नामु ठामु एहनुं जी, जाणुं तुं अम चात ॥ सो० ॥ १७ ॥ पूठयो
 शेठे अम जणी जी, नयन तणो व्यवसाय ॥ संजाली अमे जोईयुं जी, तव पाम्या सवि
 गाय ॥ सो० ॥ १८ ॥ लाख दोय धन अम प्रते जी, आपो प्रथमः एक वार ॥ तव धूतारे तत
 कणे जी, कीधो ड्य तैयार ॥ सो० ॥ १९ ॥ कहे धनो अम शेठने जी, घरमें नेत्र अनेक ॥
 मुक्यां ठे ते बहु जणे जी, धन कारण सुविवेक ॥ सो० ॥ २० ॥ ते कारण तुमे तुम तणो
 जी, थो लोचन सुप्रकार ॥ जोइने ते सारिखो जी, दीजे नेत्र ईवार ॥ सो० ॥ २१ ॥ सुणि
 कांणो विलखो अयो जी, नेत्र ते केम कढाय ॥ लेहणाथी देहणो अयो जी, मूकी धन ते
 जाय ॥ सो० ॥ २२ ॥ जूपति मन हरखित अयो जी, बुद्धि अकी ततखेव ॥ पकनी धूतारो
 तदा जी, काढ्यो देशथी हेव ॥ सो० ॥ २३ ॥ जयलक्ष्मी धन्ने वरी जी, पूरव पुण्य पसाय ॥
 बीजे उड्हासे सोलमी जी, ढाल ए जिन सुखदाय ॥ सो० ॥ २४ ॥

॥ दोहा. ॥ गौज्जइ शेठनो जय गयो, हृदय अयो उड्हाह ॥ धनो मतिवाहण तख्यो,
 चिंता समुद्र अथाह ॥ १ ॥ पुत्रि सुज्जानो तिहां, धन्नाशाहने साथ ॥ विवाहनो निश्चय
 करे, आपी बहुली साथ ॥ २ ॥ लगन लीयां पूठी डुरस, बहेव्यां फौफल पान ॥ नात जा
 तने पोखवा, परिघल कियां पकधान ॥ ३ ॥ मंरुप महोदा मांरिया, बिहुं ठामे बहु ज्जति ॥

सरिखे सरिखा योगथी, युगते मली युगति ॥ ४ ॥ परण्या ते प्रमुदित पणे, जिम सीता
रघुनंद ॥ दान मान दीधां डुरस, पोख्यो परिजन वृंद ॥ ५ ॥ नारी त्रिणयथकी तिहां, वि-
लसे पूरण जोग ॥ जिम मुनिवर लीणो रहे, गुप्ति त्रय संयोग ॥ ६ ॥ राजा पण माने ध-
णुं, देखी बुद्धि अथाह ॥ शेठ सेनापति सर्वने, वल्लभ धनोशाह ॥ ७ ॥

॥ ढाल १७ मी. ॥ (धणराढोलानी देशी.)

एहवे वीर समोसख्या रे, परिवृत बहु परिवार ॥ गुणना पूरा ॥ गौतम प्रमुख गुणे
जस्य रे, चौद सहस्र अणगार ॥ गुणना पूरा ॥ आवो आवो रे, ए जिनपति पासे ॥ जावो
जावो रे, जक्ति सुविलासे ॥ एहनी सेवाथी सुख पाथ, पुण्यना पूरा ॥ १ ॥ ए आंकली ॥
चंदनवालादिक तिहां रे, साधवी सहस्र ठत्रीस ॥ गुण ॥ अतिशयथी अति लुपता रे, जग-
गुरु श्री जगदीश ॥ गुण ॥ आ० ॥ १ ॥ श्रेणिक वंदन चालिया रे, चतुरंगी सेना साथ ॥ गुण ॥
पंचाग्निगम ते साचवी रे, जेव्या त्रिज्जुवन नाथ ॥ गु० ॥ आ० ॥ ३ ॥ गौजड शेठ सुणी
तदा रे, जिन आगमन अनूप ॥ गुण ॥ जाव धरी वंदन तदा रे, पहोत्यो ते जिम जूप ॥ गुण
॥ आ० ॥ ४ ॥ वारे पर्षद तिहां मली रे, इंद्रादिक सुर कोनि ॥ गुण ॥ देशना छे तव वीरजी
रे, वचनामृत रस जोनि ॥ गु० ॥ आ० ॥ ५ ॥ अनित्यवणो संस्कारमें रे, धन यौवननो जाण

॥गुण॥ सक्तण पक्तण विध्वंसणा रे, तनु लक्षण निरवाण ॥ गु०॥आ०॥ ६ ॥ जाणी धर्म क-
 रे जिके रे, ते लहे शिवसुख ठाम ॥ गु० ॥ धर्म विना ए जीवने रे, कोय न आवे काम ॥
 गुण ॥ आ० ॥ ७ ॥ जीवतणी हिंसा तजो रे, अलिक वचन परिहार ॥ गु० ॥ चोरी न कोजे
 सुपनमें रे, झैथुन दूर निवार ॥ गु० ॥आ०॥ ८ ॥ परिग्रहनी ममता तजो रे, निशि जोजन
 करो दूर ॥ गुण ॥ पंच महाव्रत पाळते रे, लहिये सुजस सनूर ॥ गु०॥आ० ॥ ९ ॥ गौज्ज
 शेठ ते देशना रे, सुणि वृत्तयो ततकाल ॥ गुण ॥ ज्ञाने पूठी तदा रे, ले चारित्र विशाल ॥
 गु० ॥ आ० ॥१०॥ सिंह परे व्रत आदरे रे, पाले मृगपति जेम ॥ गु० ॥ अणलण आराधन
 करी रे, सुर पद पाम्यो खेम ॥ गु० ॥ आ० ॥ ११ ॥ प्रथम सुरालये ऊपन्यो रे, रुढे इंद्र ल
 मान ॥ गुण ॥ सागर दायने आनखे रे, जोगवे जोग प्रधान ॥ गु० ॥आ०॥१२॥ पुत्र स्नेह
 प्रेस्यो अको रे, गौज्ज शेठनो जीव ॥ गु० ॥ पेटी नवाणुं प्रतिदिन रे, प्रगट करे ते अतीव
 ॥गु०॥आ०॥१३॥ जूषण वस्त्र जोजन तणी रे, वर वधुने परिजोग ॥ गु० ॥ पूरे वंठित नि
 त नवा रे, पूरव स्नेह संयोग ॥ गु०॥आ० ॥ १४॥ शालिकुमर सुख जोगवे रे, मन चिंतित
 मनुहार ॥ गु० ॥ पात्र दान फल देखजो रे, हृदय अकी नर नार ॥ गु०॥आ०॥ १५ ॥ यतः
 ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ व्याजेस्याद्द्विगुणं वित्तं, व्यवसाये चतुर्गुणं ॥ कुषौशतगुणैर्प्रोक्तं, पात्रे

धना०
५५

लंतगुणैर्जवेत् ॥१॥ ज्ञावार्थः— धन जे ते, व्याजे आपवाथी वमणुं, व्यापार करवाथी चो
गणुं, खेती करवाथी सोगणुं अने सुपात्रने विषे दवाथी अनंतगणुं प्राय ठे. ॥ १ ॥ बीजो
नडहास पूरो थयो रे, सत्तर ढाले सुरंग ॥ गुण ॥ दान कडपद्रुम रासनो रे, सुणतां अति न
ठरंग ॥ गु० ॥ आण ॥ १६ ॥ सवि पंक्तिमां परगमो रे, कोविद तिलक समान ॥ गुण ॥ गजवि
जय गुरु नामथी रे, लहिये सुख बहुमान ॥ गु० ॥ आ० ॥ १७ ॥ तसु विनयी विद्या नीलो रे,
हितविजय बुधराय ॥ गु० ॥ जेहना चरण प्रसादथी रे, दिन दिन सुजस सवाय ॥ गु० ॥
आ० ॥ १८ ॥ तस सेवा करतां लह्यो रे, अनुपम ए अधिकार ॥ गु० ॥ जिनविजय कहे पुण्य
थी रे, नित्य नित्य जय जयकार ॥ गु ॥ आण ॥ १९ ॥

इति श्री धन्नशालिचरित्रे प्राकृतप्रबंधे दानकडपद्रुमाख्ये द्वितीयशाखारूपधन्नशाहबुद्धिपरा
क्रमवर्णनो नाम द्वितीयोऽडहासः समाप्तम्. ॥ अस्मिन्नोऽडहासे ॥ ढाल १७ ॥

नु०२

५५

॥ उद्धास ३ जो. ॥

॥ दोहा. ॥ श्री जिनगुरु प्रणमुं मुदा, धर्मध्यान धरि खास ॥ दान कल्पद्रुम रासनो,
अथ त्रीजो उद्धास ॥ १ ॥ वर्णवशुं मन मोदथी, श्रुतदेवी सुपसाय ॥ श्रोता जन सवि
सांजलो, अति उत्तम सुखदाय ॥ २ ॥ शाह धनो सुखमें रहे, सप्तजूमि आवास ॥ नाटक
विविध प्रकारथी, निरखे चित्त उद्धास ॥ ३ ॥ एहवे एक दिन आवता, दीठा पितृस्वरूप ॥
अग्रज त्रिणये पिण तिहां, कांतायुन विद्रूप ॥ ४ ॥ वस्त्र जीर्ण वसुथी रहित, पशु विलिप्त
शरीर ॥ दंरु खंरु करमें धरी, आतुरवंत अधीर ॥ ५ ॥ चाले पग पग पूठता, राजगृहनी
पोल ॥ देखीने चित्त चिंतवे, ए शी दीसे उल ॥ ६ ॥ उज्जयनीमां एहने, मूक्या ठे शुज
काम ॥ एहवी अवस्था किम अइ, एहतो वरुो विराम ॥ ७ ॥ इम चिंती ऊठ्यो तुरत, म
होत अकी मनरंग ॥ आव्यो अति उतावलो, मात तातने संग ॥ ८ ॥ तात चरण सुपरें
नमी, मिल्यो मन हरखे मात ॥ बांधव जोजाई प्रते, प्रणमी पूठे वात ॥ ९ ॥

॥ ढाल १ ली. ॥ (देशी चोपाइनी.)

पूठे धनो विनये वात, कहो तात ए शो अवदात ॥ में मुक्या हता सुख आवास, एह
अवस्था किम हुए तास ॥ १ ॥ तव कहे तात सुणो रे पूत्र, तुम जातां विणव्यो घर सूत्र ॥

लक्ष्मी सवि तुम साश्रे अइ, मंदिर शोजा पिण तिम गइ ॥ ९ ॥ राजानो जयन्यो अपमान,
 धन लीधो तिले सकल निदान ॥ धरतीनो धन धरती गळयो, शेष रह्या ते अनले बळयो ॥
 ३ ॥ शेषाशेष ग्रंही गृह सार, ज्ञायनीथी करिय जुहार ॥ चाळ्या पंश्रे अइ आकला, मारग
 मांही तस्कर मळया ॥४॥ लूटी लीधा अमने तिहां, फिरता फिरता आव्या इहां ॥ करिये
 पेट पूरण अति दुःखे, तुज विरहे नवि वेग सुखे ॥५॥ तुज मिलवे हवेथयो संतोष, पांम्या
 हवे अमे पूरण पोष ॥ तुं अम कुल मंरण कुल दीव, कुल आधार घणो तुं जीव ॥६ ॥ तव
 धन्ना मन चिंते इशो, ज्ञायोदय एहनो नहि तिशो ॥ प्रह्वन्न पणे राखी तिले ठाम, बह्याज
 रण अकी सुखदाय ॥७॥ करि शोजा सहुनी तिलिवार, पढी पढोत्यो ते निज आगार ॥ ते
 माव्या तिहां व्यवहारिया, मान देइने पासे लीया ॥८ ॥ कुसुमपाल गौजइ सुजइ, देवपाल
 महिपाल देवेंइ ॥ अमिततेज सहितेज दयाल, पुण्यपाल जिनपाल कृपाल ॥ ९ ॥ धनपाल
 धर्मपाल मयाल, जूधर श्रीधर ने श्रीपाल ॥ आसपाल गुणपाल पवित्र, खेमकरण जयक
 रण सुचित्त ॥१०॥ देवकरण कुंजकरण सुवास, विजयकरण गजकरण गोदास ॥ जिनरक्षि
 त जिनदत्त जयंत, देवदत्त रुषिदत्त महंत ॥११॥ सागरचंद शिवचंद सुकुंद, गोविंद माधव
 धवल आणंद ॥ शंख सुनंद सुजश जयशेन, वीरसेन महसेन देवसेन ॥ १२ ॥ इत्यादिक

आख्या शुभ रीत, धनाशाह मिट्या एक चित्त ॥ करि ह्य रथ शिणगारी क्रिया, व्यवहारी
 सवि साधे लिया ॥१३॥ वाजंते वाजिंत्र सुचंग, चाड्या तात तेदण मनरंग ॥ आवी तातने
 लाग्या पाय, सहु व्यवहारी मिट्या तिण ठाय ॥ १४ ॥ कुशालापा पूठे अन्योन्य, मात
 पिता हरख्या बहु मन्न ॥ मात तात सुखासने सार, वांधवने इया तरल तुखार ॥ १५ ॥
 जोजाइ रथे वेसारियां, आदर मान विशेष दियां ॥ तेनि आव्या निज आवास, सहु साज-
 ननी पूगी आश ॥ १६ ॥ याचक जनने संतोपिया, परिघल पकवाने पोपिया ॥ त्रीजे उ-
 ढ्हासे पहेली ढाल, जिन कहे पुण्ये मंगल माल ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ धने पिण धीरज धरी, निज वांधवने ताम् ॥ आप्यां मन उत्कर्षणी,
 एक एक शत गाम ॥ १ ॥ वस्त्राञ्जरण गृहादिके, पोख्या घणुं अतीव ॥ तो पिण गुण लेवे
 नही, अवगुण वदे सदैव ॥ २ ॥ यतः ॥ अनुष्ठुवृत्तम्. ॥ खलःसक्रियमाणोपि, ददाति क
 लहं सतां ॥ दुग्धधौतोपि किं याति, वायसः कलहंसतां ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—सत्कार करातो
 एवो पण खल पुरुष जे ते, कलहंसताने आपे ठे एटले उष्टेग करावे ठे; अर्थात् ते कदि पण
 पोतानुं खलपणुं गोप्तो नथी. जेम कागमाने दूध वने धोयो होय, तो पण शुं ते राजहंस
 नी पेटे धोलो आय? नज आय. ॥ १ ॥ अणख अदेखाई धरे, ते त्रिण्ये शठ सींह ॥ शाम

धन्ना०
५७

वदन अहनिशि रहे, जाग्यहीनमां लीह ॥ ३ ॥ ते देखी धनशाहजी, चित्ते चित्त विशेष ॥
एहने हितकारण ज्ञानी, हुं जाइश परदेश ॥ ४ ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम् ॥ दिसइविविहच-
रियं, जाणिऊइसऊणडऊणविसेसो ॥ अप्पाणं च किलऊइ, हिंऊऊइ तेण पुहविए ॥ २ ॥
जावार्थः—परदेश जवाथी विविध प्रकारनां चरित्र देखवामां आवे ठे, सऊण अने डऊणनमां
शुं फेर ठे? ते जाणवामां आवे ठे अने आत्मानी कलना थाय ठे; ते माटे पृथ्वीमां चालवुं
जोइए ॥ २ ॥ ए लहमी ए गृह प्रमुख, विलसो एह निश्चित ॥ सुख संयोग लहिशुं अमे,
जो देशे जगवंत ॥ ५ ॥ इम निश्चय करि चित्तथी, गृहि चिंतामणी पास ॥ एकाकी दृढ
मन करी, चालण कियो प्रयास ॥ ६ ॥ राजाने पूढ्यो नहीं, त्रिणये स्त्रीने तेम ॥ श्वसुर प्र-
मुख सवि सयणने, नाग कंचुकी जेम ॥ ७ ॥ ठांमीने चाल्यो चतुर, यामिनिये तिण ताल
॥ देश विदेश विलोकतो, नवनव कौतुक ख्याल ॥ ८ ॥

॥ ढाल २ जी. ॥ (मगधदेशको राज राजेसर.—ए देशी.)

धन्नाशाह ते पुण्य प्रयोगे, चिंतामणी संयोगे ॥ चिंतित कार्य सकल साधंतो, जा-
ग्यवले सुख जोगे रे ॥ जवियां, पुण्यतणां फल पेखो ॥ पुण्ये सयल पदारथ सीजे, पुण्य
प्रवल जग देखो रे ॥ ज०॥पु० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ वडदेशे कोशंबी नगरी, अनुक्रमे तिहां

कणे श्रावे ॥ स्थानक सुंदर लेई धनश्री, सुखमय काल गमावै रे ॥ ज०॥ पु०॥ १ ॥ राय सं-
 तानिक तिहांनो राजा, सहस्रानिकनो बेटो ॥ ठत्रीश राज्यगुणो करी पूरो, त्यागी मांस
 आखेटो रे ॥ ज०॥ पु०॥ ३ ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम् ॥ शठदमनाशठपालण-माश्रितजरणं च
 राज्यचिन्हानि ॥ अग्निषेकपट्टबंधो, बालव्यजनं व्रणस्यापि ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः-शठने दमबुं,
 अशठनुं पालण करबुं अने आश्रितजनो एटले शरणे आवेलानुं जरण पोपण करबुं, एज
 व्रण राज्यचिन्ह ठे; परंतु शठदमनादिक विना राज्याग्निषेक मस्तके पट्टबंध अने वने वा-
 जु चामरोनुं विंजावबुं, ते गूमना तुल्य ठे, अर्थात् गूमनाने जेम पाणीनो अग्निषेक, पाटो
 अने मांखीनुं उमारुबुं थाय ठे, तेम पूर्वोक्त राज्यचिन्ह विना अग्निषेकादिक पण गूमना
 तुल्य जाणवा ॥ १ ॥ जेहनी जग्निनी जयंती जाणी, सतियो मांहे गवाणी ॥ बालकुमा-
 री प्रथम शय्यातरी, वीरे जेह वखाणी रे ॥ ज० ॥ पु० ॥ ४ ॥ राय संतानिकनी पटरा-
 णी, मृगावती सपराणी ॥ चेना महाराजानी पुत्री; चावी जगमां जाणी रे ॥ ज० ॥ पु०
 ॥ ५ ॥ पुत्र उदायन नामे शूरो, सकल कलाये पूरो ॥ वीणा नाद-विशेषे वजावे, गांधर्वि-
 क गुणो पूरो रे ॥ ज० ॥ पु० ॥ ६ ॥ सौजाग्यमंजरी नृपनी बेटो, रूपे रतिनी जोनी ॥ ल-
 क्ष्मीनी परे लक्षणवंती, कोय न दीसे खोनी रे ॥ ज० ॥ पु० ॥ ७ ॥ राय संतानिकने जेना

रे, सहस्रकिरण मणि सोहे ॥ पेढी परंपर सहु को पूजे, दर्शन करी दिल मोहे रे ॥ ज० ॥
 ॥ पु० ॥ ७ ॥ पिण तेहनो गुण क्रोय न जाणे, तव नृपे परिक्रक तेड्या ॥ मान देइने मणि गु
 ण पूठे, पिण कोइ न कहे ठेड्या रे ॥ ज० ॥ पु० ॥ ८ ॥ तव नृपे नगरमां परुह वजायो, सुण
 जो सकल लोकाइ ॥ जे ए मणिनो गुण देखामे, प्रत्यय प्रगट बनाइ रे ॥ ज० ॥ पु० ॥ १० ॥
 तेइने नृप त्रूठयो दिये हरखे, पांचशे गाम उदार ॥ पांचश हाथी पांचशे घोडा, बलि द्ये
 अवर प्रकार रे ॥ ज० ॥ पु० ॥ ११ ॥ वेटी गुणनी जे ठे पेटी, सौजाग्यमंजरी सारी ॥ परणा
 वे नृप तेहने रंगे, मणि परिक्रक जे विचारी रे ॥ ज० ॥ पु० ॥ १२ ॥ सांजली परुह डव्यो ते
 जाणी, धन्नाशाहे ताम ॥ राजसज्जामां आव्यो वेगे, नृपने करी प्रणाम रे ॥ ज० ॥ पु० ॥ १३
 ॥ देखी नृप लघु वयथी बोले, रे वड्ड ! तूं हजी नहानो ॥ रत्न परिक्रा करवा समरथ, कोइ
 न परगट ठानो रे ॥ ज० ॥ पु० ॥ १४ ॥ बुद्धि विशेष जो होये तुमची, तो ए मणी गुण दाखो
 ॥ ढाल ए बीजी त्रीजे उल्लासे, जिन कहे मन टढ राखो रे ॥ ज० ॥ पु० ॥ १५ ॥

॥ दोहा ॥ कहे धन्नशाह नृपति सुणो, रत्न परिक्रा वात ॥ शास्त्र सकल जोयां अठे,
 गुरु समीप सुविख्यात ॥ १ ॥ हीरो मोती निलमणी, माणिक्य मरकत संच ॥ मूल रत्न
 ना जेद ए, शास्त्रे बोळ्या पंच ॥ २ ॥ पुष्कराज वैडूर्य तिम, विद्रुम ने गोमेद ॥ ए चारे

नपरत्नना, दाख्या ठे शुद्ध जेद ॥ ३ ॥ ए नव रत्नने आश्रया, नव ग्रह ठे निरधार ॥ फल
 पिण देखामे तुरत, श्रेष्ठ नेष्ट तिणिवार ॥ ४ ॥ पद्मराग रवि १ मौक्तिक शशो, २ विद्रुम
 ज्ञाम ३ विख्यात ॥ बुध मरकत ४ जृगु वजू ५ तिम, पुष्कराज गुरु ६ जात ॥ ५ ॥ इंद्र
 नील शनिनो ७ कल्लो, राहु गोमेद ८ गणिज्ज ॥ केतु वैरूर्य ते लसणियो ए, नव विध एह
 जणिज्ज ॥ ६ ॥ स्फटिक रत्न चिहुं जेदथी, सूर्यकांत १ शशिकांत २ ॥ हंसगर्ज ३ जलकांत
 ४ तिम, गुण निष्पन्न एकांत ॥ ७ ॥ साठ जेद ठे रत्नना, रत्नपरिक्का मांह ॥ गुण अवगुण
 पिण तेहना, दाख्या ठे सोढाह ॥ ८ ॥

॥ ढाल ३ जी. ॥ (काज सीध्यां सकल हवे सार.—ए देशी.)

पीरोजा अवर प्रकार, नील ठांयावंत नदार ॥ पीत रक्त प्रजा पिण होवे, शाम रंग
 ते सवि विप खोवे ॥ १ ॥ ए चारे पीरोजा जाते, गुण एहना नव नव ज्ञांते ॥ पारापत ग्री
 वा रंगे, मणि सिंदूर वर्ण अजंगे ॥ २ ॥ रेखायुत अवर प्रकार, मणि जेद अनेक विचार ॥
 हवे चिंतामणिनो जेद, निसुणो कहुं टाळी खेद ॥ ३ ॥ हीरानी कांति समान, ज्ञासूर अ-
 ति देदिप्यमान ॥ रेखा त्रिणये करी युक्त, मणि दोष अकी विप्रमुक्त ॥ ४ ॥ पटकोण जळो
 पर तरतो, सवाटांक प्रमाणे धरतो ॥ ते चिंतामणि इम कहीए, सेव्याथी सवि सुख ल-

घना०
५ए

हिये ॥ ५ ॥ रति नपरलो जेइ रत्न, तेहनां कीजे बहु यत्न ॥ रत्नाकरनो निष्पन्न, स्वाज्ञावि-
क घाट संपन्न ॥ ६ ॥ तेह रत्न सकल फल आपे, खंभित दुःख स्थानके आपे ॥ हवे मौक्ति
क आठ प्रकारे, उत्पत्ति कही अनुसारे ॥ ७ ॥ ढीपोदर १ गजने शीश २, मञ्ज ३ शंख ४
वराह ५ जंगीश ॥ वंशमूल ६ मंजूकने ७ नाग ८, ए आठ स्थानक शुभ्र लाग ॥ ८ ॥ म-
णिरत्न तणा बहु जेद, दाख्या शास्त्र तजीने खेद ॥ तुम मणि ए ठे बहु मूल्य, चिंतामणी
रत्नने तुल्य ॥ ९ ॥ एह मणिने राखी संग, करे युद्ध ते होय अजंग ॥ एह जेहने गृहे पू-
जाये, इति सात तिहांथी जाये ॥ १० ॥ जूत प्रेतादिक साक्षात्, जे कोप्या करे उत्पात ॥
ते पिण एह रत्न प्रजावे, शुभ्र शांति होवे वरदावे ॥ ११ ॥ ज्वर वमन शूलादिक रोग, ते ए
मणिने संयोग ॥ सवि कष्ट ते दूरै आवे, जिम रवि तेजे तम जावे ॥ १२ ॥ एहनो प्रत्यय
तुमे देखो, सुविशेष थकी तुमे पखो ॥ महोटो एक थाल मंगावो, शुभ्र शालि कणेशी ज-
रावो ॥ १३ ॥ मध्यस्थाने ए मणि मूको, पठे निरखंतां मत चूको ॥ कोइ पंखी जात न
खाशे, तो ए मणि परिक्रा आशे ॥ १४ ॥ राजाये ततकण कीधो, कोइ पंखीये कण नवि
लीधो ॥ मणि लीधो थालथी जाम, कण खाधा पंखीए ताम ॥ १५ ॥ सुणो स्वामी रत्ननो
एह, प्रत्यह प्रताप अवेह ॥ थाल पासे ब्रमण खगे कीधो, कण मात्र कण नवि लीधो ॥

नुप ३

५ए

१६ ॥ तिम ए मणि जेहनी पासे, वैरी गद इति ते नासे ॥ जूतादिक तेहने नवि कोपे, एह
मणिने कोय न लोपे ॥१७॥ सुणी राजा प्रत्यय पाम्यो, मन हरख्यो जे हुवो कामो ॥ ध-
त्राने थे सनमान, परख्यो ए बुढि निधान ॥ १८ ॥ जोतां मिल्यो जुगते जमाइ, पुत्रीनी
पूरण पुन्याइ ॥ त्रीजे उल्हासे सवाइ, ढाल त्रीजी जिन इम गाइ ॥ १९ ॥

॥ दोहा. ॥ राजाये तव धन प्रते, करी उन्नव श्रीकार ॥ पुत्री परणावी तुरत, सौजा
ग्यमंजरि सार ॥ १ ॥ ग्राम पंच शत सोंपियां, तिम हय गय शत पंच ॥ बीजो पिण दी
धो बहुल, वस्त्रादिक सवि संच ॥ २ ॥ सुख विलसे दंपति सुखे, चक्रवर्त्ति सम जूर ॥ बुढि
तेज वलवंत तस, जिम गयणांगण सूर ॥ ३ ॥ कोशंवीथी वाहिरे, वाशो धनपुर गाम ॥
गढ मढ पोल प्रसादथी, सुंदर अति शुन्न ठाम ॥ ४ ॥ जिनमंदिर महोटां रज्यां, थाप्या
श्री जिनराज ॥ पूजा सत्तर प्रकारथी, दिन दिन अधिके साज ॥ ५ ॥ चोराशी चहुटां सु-
न्नग, विसरी तिहां वजार ॥ वरण अढार विशेषथी, करे विविध रोजगार ॥ ६ ॥ सुख सघ
लो तिहां लोकने, पिण नहि नदि य निवाण ॥ तिणे आतुर धन्नो रहे, जल विण शो अहि
गाण ॥ ७ ॥ इम चिंतीने ततकणे, सर करवा सुविलास ॥ स्थानक निरखीने डुरस, आरं
च्यो आयास ॥ ८ ॥ शुन्न वेला अवलोकने, मांड्यो कार्य महंत ॥ महेनतिया महेनत करे,

धना० उच्चक पणे अत्यंत ॥ ए ॥ एक कर्ष अवला प्रते, पुरुषने दोय दिनार ॥ जोजन चोला तैल
६० धी, टंक दोय व्यवहार ॥ १० ॥ धन्नो राजगृही थकी, निसरिथो तिणिवार ॥ जे जे कार
ण नीपन्यो, ते निसुणो अधिकार ॥ ११ ॥

॥ ढाल ४ धी. ॥ (कण लाखीणी रे जाय.-ए देशी.)

धन्नोशाह जव नीसख्यो जी, ठंमी नारी प्रसंग ॥ नारी त्रिणये ततकणे जी, नवि देखे
पियु संग रे ॥ प्रीतम किहां गया अमने रे गोमि ॥ हांसीनी वेला नहीं जी, आवो वालम
दोमि रे ॥ प्री० ॥ १ ॥ आंकणी. ॥ अमे तुम पालव बांधिया जी, तुमे अमचा नरतार ॥
तुम आधार वालेशरू जी, जीव जीवन निरधार रे ॥ प्री० ॥ २ ॥ मात पिताये तुम प्रते जी,
सौप्यां पंचनी साख ॥ केम न ठोडुं जीवतां जी, ते निश्चय मन राख रे ॥ प्री० ॥ ३ ॥ ए
मंदिर ए माळियां जी, ए सुखसेज सुवास ॥ सरवे वल्लन्न तिहां लगे जी, जिहां लगे तुं
पियु पास रे ॥ प्री० ॥ ४ ॥ इम कहेती त्रिणये सती जी, जोया सयल आवास ॥ नवि दी-
गो वल्लन्न तदा जी, आवी सासू पास रे ॥ प्री० ॥ ५ ॥ अम प्राणेश दीसे नही जी, अम
मंदिर इणिवार ॥ वाइजी तुम जाया पखे जी, अवर कवण आधार रे ॥ प्री० ॥ ६ ॥ इम
कहेती रमती थकी जी, ते त्रिणये तिणिवार ॥ विरह विलाप करे घणा जी, कहेतां नावे

पार रे ॥ प्री० ॥ ७ ॥ शीलवती पिण सांजली जी, धरणी ढली ततखेव ॥ वारंवार ए पु-
 त्रनो जी, विरह दिये कां दैव रे ॥ प्री० ॥ ८ ॥ तुं मुज आंवा लाकनी जी, कुलसंरुण कुल
 ज्ञाण ॥ पर उपगारी परगमो जी, पैतृक दुःखनो जाण रे ॥ प्री० ॥ ९ ॥ वय पाकी हवे अ
 म तणी जी, तूं किम झूकी रे जाय ॥ धरुपणमें सेवा तणो जी, फल अधिको कहिवाय रे
 ॥ प्री० ॥ १० ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ पतिताः पितरस्त्याज्याः, माता नैव कदाचन ॥ गर्भ
 धारण पोषाज्यां, ज्ञेन्माता गरीयसी ॥ ? ॥ ज्ञावार्थः—पतित अएला पिता त्याग करवा
 योग्य ठे, परंतु माता तो कदि पण त्याग करवा योग्य नथी; कारण के, गर्भधारण अने पो
 षण करवाथी माता वधारे मान्य ठे ॥ ? ॥ इम निष्टुर मन तुम तणो जी, किम थाये ठे
 रे पूत ॥ तुज विण कृणमां अम तणो जी, विणसे ठे धरसूत्र रे ॥ प्री० ॥ ११ ॥ धनसारे पि-
 ण सांजली जी, पुत्र गमननी रे वात ॥ शोकातुर विलवे घणुं जी, करे अशेष अश्रुपात रे
 प्री० ॥ १२ ॥ जोजाई त्रिण्ये तिदां जी, आवी ते समकाल ॥ धन्ना गुणथी गोरनी जी, जूरे
 हृदय विचाल रे ॥ देवर० ॥ १३ ॥ अमने तुमे सुखीया कीयां जी, वारंवार पवित्र ॥ ज्ञा-
 ग्यहीन तुं अति अमे जी, तुमे देवर सुचरित्र रे ॥ दे० ॥ १४ ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम् ॥ सायर
 तुज्ञन दोसो, दोसो अह्लाण पुवकन्माणं ॥ रयणायरंमि एत्ते, साखूरो हृद मे लग्गो ॥ ९ ॥

घन्ना०
६१

जावार्थः—हे समुद्र! आमां तारो कांइ पण दोष नथी, दोष तो अमारा पूर्व कर्मनोज ठे; केमके, रत्ननी खाण एवो तुं मल्यां ठतां, मारा हाथमां तो पत्तरज आव्यो! ॥ १ ॥ दोष नथी इहां तुम तणो जी, बे अम दोष सुजाण ॥ पिण शुं कीजे तेदशुं जी, कोइ न चाले प्राण रे ॥ देण ॥ १५ ॥ अम अवगुण जो देखशो जी, तो अम कोय न ठाय ॥ सज्जन कळपद्दु म कह्या जी, डुहव्या फल देइ जाय रे ॥ दे० ॥ १६ ॥ यतः ॥ सोज सज्जन अंब सम, अवगुण तजी गुण लेय ॥ नून तथे पत्तर हणे, नून तथे फल देय ॥ ३ ॥ जावार्थः—तेज सज्जन के, जे आंवाना वृक्ष जेवा होय ठे. केमके, कोइ माणस जो तेने पथरो मारे ठे, तो ते आंवानो वृक्ष उलटो तेने फल आपे ठे. ! ॥ ३ ॥ रात्रि सकल सवि सयणने जी, रुदन करंतां विहाय ॥ प्रत्यूषे नृप प्रमुखने जी, सवि विरतांत जणाय रे ॥ पूताण ॥ १७ ॥ गाम गाम तुरि दोहव्या जी, मूक्या प्रेष्य अनेक ॥ पिण घन्नाशाहनी तिहां जी, खबर न लाव्यो एक रे ॥ पूता० ॥ १८ ॥ विस्मय सवि पामी रह्या जी, देखी घन्न चरित्र ॥ त्रीजे उलहासे जिने कही जी, चोथी ढाल पवित्र रे ॥ पूता० ॥ १९ ॥

॥ दोहा. ॥ राय कोपी घनसारने, कहे रे सांजल शेर ॥ अम जमाइ उपर अधिक, राखी विरुइ डेर ॥ १ ॥ अम जमाइ जाते थके, अमे मूजाणा आज ॥ बुद्धिंत नहि अवर

नु० ३

६१

को, जेह चलावे काज ॥ २ ॥ अन्नय कुमरना विरहथी, दाण्या हूता पूर ॥ ऊपर लूण अ-
 यो इहां, विरह घन्नानो चूर ॥ ३ ॥ अम पुत्री दुःखणी अइ, पति वियोगथी प्राय ॥ एह स
 यल अस्वास्थिनो, कारण तूं हि कहाय ॥ ४ ॥ तव बोल्यो धनसार इम, नृपने करी प्रणा-
 म ॥ धनपति मुज वल्लन्न घणो, आशानो विश्राम ॥ ५ ॥ मुजथी दुःख पाम्यो नथी, पिं
 ण ए अग्रज वेण ॥ निसुणी रात्रे नीकल्यो, ठंढी सघलो सेण ॥ ६ ॥ यतः ॥ अनुष्टुप् वृत्तम् ॥
 रे जिह्वे कुरु मर्यादां, ज्ञोजने वचने तथा ॥ वचने प्राण संदेहो, ज्ञोजने च अजीर्णता ॥ १ ॥
 ज्ञावार्थः—हे जीज्ञ ! तुं ज्ञोजन करवाने विषे अने वचन बोलवाने विषे मर्यादा राख; कार-
 णके, जो वचनने विषे मर्यादा नहि राखे तो, कोइ वखत जीव जशे अने ज्ञोजनने विषे
 मर्यादा नहि राखे तो अजीर्ण थशे. ॥ १ ॥ सुणि चूपति ते त्रिण्यने, दंढी लीधो दाम ॥
 ग्राम प्रमुख खोंची लियां, पाम्ही सघली माम ॥ ७ ॥ धन हीणो धनसारजी, थयो ते थोमे
 काल ॥ न मिले असन व्यसन प्रमुख, दुःख पामे असराल ॥ ८ ॥ धन हीणो शोन्ने नहीं,
 ज्यूं आवलनो फूल ॥ धनवंतो आदर लहे, चंपा फूल अमूल ॥ ९ ॥ यतः ॥ धनमर्क्य का
 कुस्थ, धनमूलमिदं जगत् ॥ अंतरं नैव पश्यामि, निर्दनस्य शबस्य च ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—हे
 राम ! तुं धन पेदा कर, कारण के, आखुं जगत् धननां उपर आधार राखनाहें ठ; केमके

निर्धन अने निर्जीव एवं मरुडुं, तेने विषे हुं कांइ फेर देखतो नथी. अर्थात् जो पास धन होय, तोज सहु मान आपे ठे; परंतु कोइ मरुदानी पेटे निर्धनना सामुं जोतुं नथी. ॥ १ ॥
॥ ढाल ए मी. ॥ (त्रिपदीनी देशी.)

धन उज्जित धनसार रे, चित्तमें चिंतवे ॥ इहां रहेवो जुगतो नहीं ए ॥ महोटाशुं सं-
बंध रे, सगपणनो सदा ॥ तिणे करी लाजीजे सही ए ॥ १ ॥ धना विण घरसूत्र रे, धूल
मिली गयो ॥ लाज गइ सवि माहरी ए ॥ तिणे करी हवे परदेश रे, पिंरुने पावशुं ॥ मूल
मजूरीने करी ए ॥ २ ॥ धनाशाहनी नार रे, त्रिणये तेनीने ॥ सुपरें सुसरोजी कहे ए ॥
पीयर जान पुत्र रे, सुखमें तिहां रहो ॥ तुम पति दुःख अमने दहे ए ॥ ३ ॥ अमे जाशुं
परदेश रे, धनाशाह जणी ॥ गोति करीने लावशुं ए ॥ जो अिलशे ए पुत्र रे, तो तेहने इ-
हां ॥ तेनी वहेला आवशुं ए ॥ ४ ॥ सोमश्री कुसुमश्री रे, सुसराज्ञा अकी ॥ प्रणमीने पी-
यर गइ ए ॥ कहे सुजज्ञा ताम रे, लाश्रु लोचन करी ॥ विनय अकी अवनत अई ए ॥ ५ ॥
हुं आवोश तुम साथ रे, निश्चयथी करी ॥ तुम सेवा करती अकी ए ॥ स्त्रीने रहेवो सास-
रे, प्रतिपके सदा ॥ शास्त्रे पिण ठे ए वकी ए ॥ ६ ॥ स्त्रीने पीयर जेम रे, तिम नर सासरे ॥
शिरवासे मुनिने सही ए ॥ तेग रहित नृप तेम रे, मंत्री मति विना ॥ एटला सुयस लहे

नहीं ए ॥ ७ ॥ यतः ॥ स्त्री पीयर नर सासरे, संयमिया सहवास ॥ एता होय अलखाम-
 णा, जो मंमे थिरवास ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—स्त्री पीयर, पुरुष सासरे अने मुनि एक नपाश्रय-
 मां, ए त्रणे पूर्वोक्त स्थानकमां घणा दिवस रहे, तो जरूर अलखामणा थाय ॥ १ ॥ जिण
 दिन धन होय पास रे, पति संगे होवे ॥ ते दिन पीयर रूयमो ए ॥ पिण लही आपद योग
 रे, ठंमी सासरो ॥ पीयर जावो कूयमो ए ॥ ७ ॥ सुख दुःख सवि तुम साध रे, जोगविशुं
 सदा ॥ धीर धरो तुमे तातजी ए ॥ जो भिलशे पियु योग रे, तो पीयर हवे ॥ आवशुं स-
 यल संपद ज्ञजी ए ॥ ए ॥ सुणी हरख्यो धनसार रे, धन धन ए बहु ॥ सहुमें ए आधार
 ठे ए ॥ मात तात ने ज्ञात रे, सासरियां थकी ॥ लेखवीया सघला पठे ए ॥ १० ॥ चाल्यो
 हवे धनसार रे, राजगृही थकी ॥ अंगज स्त्री वधु परिवस्थो ए ॥ वस्त्र विज्ञूषण हीन रे,
 दीनपणा थकी ॥ ज्ञंनोपगरण शिरे धख्यां ए ॥ ११ ॥ अष्ट करमथी जीव रे, जिम संसार
 मां ॥ परित्रमणां करे परगमो ए ॥ तिम धनसार तिवार रे, आठे जन थकी ॥ देश विदेश
 फिरे वमो ए ॥ १२ ॥ जोतां वन आराम रे, ग्राम घणां ज्ञमे ॥ पिण थिरता न लहे किदां
 ए ॥ कोशंबीपुरि पास रे, आवे अन्यदा ॥ वार्ता वृत्तिनी लहे ए ॥ १३ ॥ धनपुरमें धनशेठ
 रे, शर खानन ज्ञणी ॥ आपे प्रबल आजीविका ए ॥ स्त्रीने एक दिनार रे, युग्म पुरुष प्रते

धना०
६३

॥ तैल चोलादि हितथकी ए ॥ १४ ॥ सुणी हरख्यो धनसार रे, सार उपाय ए ॥ बुद्धर ज-
रण करवा जणी ए ॥ ढाल पांचमी एह रे, त्रीजा उडहासनी ॥ कही जिनविजये सोहा-
मणी ए ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ आव्यो धनपुरमें तुरत, पतिवृत ते धनसार ॥ देखे व्यापारी तिहां, जां
ति जांति तिणिवार ॥ १ ॥ नाणावटी दोशी तिमज, पारेखने मणिहार ॥ सौक्तिक मुक्ता
फल क्रयिक, घृत तैलादि विचार ॥ २ ॥ सोनी गांधी सामटा, फनीया ने तांबूल ॥ साथ
रिया सुखजहिका, कारक तिहां करे मूल ॥ ३ ॥ देखी व्यापारी सकल, पूठे तव धनसार
॥ व्यापारिने वणिजना, धननो कवण दातार ॥ ४ ॥ तव ते कहे अम नगरनो, स्वामी ठे
धनशेठ ॥ ते धन आपे व्याज विण, जाग्यवंत लही डेठ ॥ ५ ॥ निर्धनने पिण शर खनन,
कीधो ठे आधार ॥ सांजलिने हरखित अयो, परिकर युत धनसार ॥ ६ ॥

॥ ढाल ६ छी. ॥ (नदी यमुनाके तीर नुम्हे दोय पंखीयां.—ए देशी.)

पुत्र सहित धनसार सरोवरमें तदा, करे तिहां खनननुं कार्य धरी मनमें मुदा ॥ बां-
धी कठोटा तंग सुरंग पणे करी, कोश कोदाली तेम खणे ते करे धरी ॥ १ ॥ शीखवतो
नी साथ वडू चारे तिहां, माटी वहे जरी प्रात्र ते खात्र खणे जिहां ॥ क्लिष्ट कार्य करी एम

ज०

६३

दिवस सवि निर्गमे, जोजन चोला तलै प्रजात संध्या समे ॥ १ ॥ एहवे धनपतिशाह सरो
 वर देखवा, आवे धरीय नुमाह कारीगर पेखवा ॥ साथे सवि सामंत मंत्रीश्वर नृप तणा,
 शेठ सेनापति वृंद सेवक पिण अति घणा ॥ ३ ॥ शिरपर सोवन ठत्र सूरज परे जगमगे,
 याचक जोजक जाट अनेक ते नलगे ॥ जय जय तूं चिरंजीव तुं दुस्थित दुःख हरु, आ-
 श्रित जन आधार सयणने सुखकरु ॥ ४ ॥ आवी सरोवर पाल जोवे चिहुं दिशि फिरी,
 सरोवर केरो काम ते नद्यम मन धरी ॥ देखो तातने मात बांधव ज्ञात्री बहु, चिंते चित्त
 मजार ए किम आव्यां सहु ॥ ५ ॥ जोईने निरधार करी मन चिंतवे, मात पिताने ज्ञात प्र
 मुख सवि संज्ञवे ॥ पिण मुज कामिनी एह सुजज्ञ ज्ञामिनी, माटी वहे सहे कष्ट देखो
 गति कर्मनी ॥ ६ ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ कृतकर्म ह्यो नास्ति, कल्पकोटीशतैरपि ॥
 अवश्यमेव ज्ञोक्तव्यं, कृतंकर्म शुजाशुज ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—अज्ञोना अज्ञो कल्प (युग)
 जाय, तो पण करेला कर्मनो ह्य अतो नथी; केमके, सारु अथवा नरतुं, जे कर्म करयुं हो
 य, ते अवश्य ज्ञोगवबुंज पमे ठे ॥ १ ॥ कर्मवशे दमयंती नल प्रिया दुःख लहे, राम घर-
 णी तिम सीत लंकागढ दुःख सहे ॥ कलावतीने कर्म नद्य आव्यां यदा, शंख नृपे धरी
 रोष ठेदाव्या कर तदा ॥ ७ ॥ सुरसुंदरीने कंत वने भेली गयो, शैपदीने वनवासमें दुःख

बहुलो अथो ॥ प्रजावतीने कंत वियोग थयो वली, मृगावतीनो कष्ट ते जाणे केवली ॥८॥
 नृप पवनजय नारी लहे दुःख अंजना, नर्मदासुंदरी तेम करी पति रंजना ॥ मयणरेहा
 सती कष्ट लही ते सहु कहे, अञ्जकारी तेम अतूल पीमा सहे ॥ ९ ॥ चंदनवाल विशाल
 गुणेश्री वखाणीए, कर्मोदयश्री तेह वेचाणी जाणीए ॥ हरिचंद्रायने पुत्र स्त्री तारा लोच-
 ना, वेचाणां परतक शी करवी सोचना ॥ १० ॥ देखो कर्मनी वात आवी बनी एहने, ज्ञो-
 गीजमर शालिज्जड बांधव ठे जेहने ॥ गौज्जड सम तात मात ज्ञज्ञ सती, मुज सरिखो ज्ञ
 रतार ने सुख न लहे रती ॥ ११ ॥ जुन जुन मात ने तात अनेक विपद सहे, उदरजरणने
 काज उपल मस्तके वहे ॥ जगमें दुर्जर पेट कह्यो ठे शास्त्रमें, कुण कुण न करे अकाज
 जुन ते अनुक्रमे ॥ १२ ॥ यतः ॥ सवैयो तेत्रीशो ॥ जूख कुलीन करे अकुलीनके जूख
 घरो घर जूख मगावे, नीचकी चाकरी जूख करावे निर्मल वंशकु मेल लगावे ॥ जूख
 जमावे विदेश विपत्तिमें दीन दुःखी मसकीन कहावे, जूख समो नही दुःख जसा कोइ
 पाषिणी जूख अजक जखावे ॥ १३ ॥ देखो घनावह शैठ अजक जक्षण कख्यो, सुसमा पु
 त्री मांस जखी तनु निज धख्यो ॥ उदरार्थे नतराय सुआरपणो कीयो, घर घर मुंज नरेश
 माग टूकनो लीयो ॥ १३ ॥ आषाढजूती आहार निमित्ते विद्या करी, नव नव रूप वनाय

मोदक लिया फिरी फिरी ॥ राय यशोधर मांस जखयो नयनावली, दुजर नदरने काज
 अकाज करे वली ॥ १४ ॥ कर्मतणे वश त्रात ए दुःख बहुलां सहे, लक्ष्मी गृह सुखवास
 तिहां ए दुःख लहे ॥ न लहे विनय विवेक विचार आचार ए, मान मगन रहे मस्त न धर्म
 विचार ए ॥ १५ ॥ एहना संगथी मात अशात घणी सहे, तिम वली तात विख्यात विटं-
 बनता लहे ॥ जोजाई पिए त्रातृथी आपदमें पनी, मुज रामा इण साथ लहे दुःख वाप-
 नी ॥ १६ ॥ यतः ॥ अनुष्टुब्वृत्तम् ॥ कुसंगा संग दोषेण, साधवो यांत विक्रियां ॥ एकरा-
 त्रि प्रसंगेन, काष्ठघंटा विटंबना ॥ ३ ॥ ज्ञावार्थः—खराब माणसनी सोबतथी सारा माण-
 सो पण विक्रिया पामे ठे; कारण के, हराइ गायनी साथे (सारी गायने) एक रात सोबत
 रहेवाथी वे पग वच्चे लाकमुं अने गलामां घंटनीनी विटंबना थइ ॥ ३ ॥ हवे हुं मातने ता
 त प्रिया प्रतिपालशुं, ए बांधवने दूर करी रखवालशुं ॥ इम आलोची वात धन्ने धीरज ध-
 री, त्रीजे उल्हासे ढाल ठठी जिन जयवरी ॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥ तात प्रते पूढे तुरत, धनपतिशाह सुजाण ॥ कवण तुमे कोण ग्रामथी,
 आव्या ठो इण ठाय ॥ १ ॥ तव लज्जाथी गोपवी, अवर कह्यो अधिकार ॥ पिए धन्ने नि-
 श्रय कियो, एइ सही निरधार ॥ २ ॥ धनोशाह चित चिंतवे, धन विए लाजे एइ ॥ तिणे

धन्ना०
६५

करी निज कुल गोपवे, तिणमें नही संदेह ॥ ३ ॥ ऊपरवाइने कहे, मोसो मोसी वृद्ध ॥
एदने घृत गुण अन्न शुद्ध, देजो तुमे अविद्ध ॥ ४ ॥ सर्व ऋत्यमां वृद्ध ए, आपे करी आ
देश ॥ तव धनसार खुशी थयो, तूठयो सुज इच्छेश ॥ ५ ॥

॥ ढाल उ मी. ॥ (सीता तो रूपे रूनी.—ए देशी.)

हवे बीजे दिन धन्ना, आवे तिहां अति सुप्रसन्नो हो ॥ सुकृत फल एहवां ॥ ए आंक-
णी ॥ बोलावे हित आणी, धनसार जणी शुद्ध वाणी हो ॥ सु० ॥ १ ॥ तांबुलादिक तस
आपे, तव हर्ष धणो तस व्यापे हो ॥ सु० ॥ त्रीजे दिन तिम देव, धनपति आवे धरी टेव
हो ॥ सु० ॥ २ ॥ वस्त्र अनेक अणावे, सवि ऋत्य प्रत्ये तेभावे हो ॥ सु० ॥ वस्त्र दिये तस
ताम, अति हसख्या ऋत्य सुकाम हो ॥ सु० ॥ ३ ॥ पळे वृद्ध प्रते तेभावे, अंबर उत्तम प-
हिरावे हो ॥ सु० ॥ माता प्रते पटकूल, दिये हर्ष धरी बहु मूल्य हो ॥ सु० ॥ ४ ॥ त्रातृने
सम परिणामे, दिये सुंदर वस्त्र सुकामे हो ॥ सु० ॥ त्रातृजाया पिण आवे, सामी तस
शुद्ध पहिरावे हो ॥ सु० ॥ ५ ॥ एक चीर अमूलिक सार, आपे कांताने तिणिवार हो ॥ सु०
॥ सवि परिकरने संतोपी, धनसार प्रते कहे पौषी हो ॥ सु० ॥ ६ ॥ सुणो तुमे गो वृद्ध सु-

१ चाकरमां, २ वस्त्र. ३ जोजाइयो.

सु० ३

६५

जात, तुम गुण अम चित्त सुहात हो ॥ सु० ॥ किशी वाते दुःखी मत आजो, जे जोइए ते
 मंगावजो हो ॥ सु० ॥ ७ ॥ ए अम घर ठे सवि तुमचा, तुमे तात स्थानक ठो अमचा हो
 ॥ सु० ॥ तुम शतनुये गरमी दीसे, अमे जाणीए विसवावीसे हो ॥ सु० ॥ ८ ॥ तिणे शतक्र
 प्रमुख अम घरणी, लीयो ठांकी त्रपानवि परणी हो ॥ सु० ॥ ए तुम श्वधुने तुमे कहेजो,
 सुखे काल इहां निरवहेजो हो ॥ सु० ॥ ९ ॥ देइ आसासना तिणे ठामे, मंदिर ये रहेवा
 कामे हो ॥ सु० ॥ इम प्रति दिन खबर ते लेवे, जे जोइए ते तसु देवे हो ॥ सु० ॥ १० ॥
 घेर आवी कहे धन्नशाह, प्रिये सांजल अन उवाह हो ॥ सु० ॥ परदेशी उत्तम प्राणी, इहां
 आव्या ठे अम जाणी हो ॥ सु० ॥ ११ ॥ तेहने ठे वधु चार, गुणवंती अति मनुहार हो ॥
 सु० ॥ लेवा ते तक्र जो आवे, तुमे देजो तव जले जावे हो ॥ सु० ॥ १२ ॥ पल तेहमां ल-
 घु ठे जेह, धरजो तुमे तेहशुं नेह हो ॥ सु० ॥ तस देजो आदरमान, वली देजो फोफल पा
 न हो ॥ सु० ॥ १३ ॥ तिम शाक प्रमुख सुविचित्र, देजो तुमे पुण्य पवित्र हो ॥ सु० ॥
 अति गौरस सरस सवाद, देजो विल धरी आढिहाद हो ॥ सु० ॥ १४ ॥ इम शीख देई मन
 रंगे, धनपति पिण रहे सुखसंगे हो ॥ सु० ॥ ४ द्वारपाल प्रमुखने जाखयो, सह सेवकने

१ शरीरे. २ वाश. ३ बहुने. ४ दरवाजा उपर रहेला सीपाह.

पिण दाख्यो हो ॥ सु० ॥ १५ ॥ हरे शैव तिहां धनसार, कहे बहु प्रते सकल विचार हो ॥
सु० ॥ तुमे जानु धनपति गेह, तक्रादिक लावो ये जेह हो ॥ सु० ॥ १६ ॥ तव ते बहु नि-
सुणी वाणी, वारू कहे मनमां जाणी हो ॥ सु० ॥ त्रीजे उद्धासे गवाणी, ढाल सातमी
जिन गुणखाणी हो ॥ सु० ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ हवे ते त्रिणये वधु तिहां, लेवा आवे तक्र ॥ स्वहृद दिये जल सारिखी,
नयन वदन करी वक्र ॥ १ ॥ चोथे दिन ते लाजथी, आवे सुजडा जाम ॥ सौजाग्यमंजरी
ए तिहां, बेसानी शुन ठाम ॥ २ ॥ आदर देइ अति घणो, आपे गोरस सार ॥ कहे वाइ तूं
आवजे, नित प्रते मुज आभार ॥ ३ ॥ तक्रादिक पिण अति अवल, लेइने ततखेव ॥ आवी
ते निज स्थानके, सासूने ये हेव ॥ ४ ॥ तव सुसरो सासू कहे, देखो पुण्य प्रकार ॥ धनप
ति वधु प्रणिपति करे, जाग्य प्रबल मनोहार ॥ ५ ॥ निसुणी खोजी ते त्रिणे, कहे सुणो
सासू वात ॥ नित प्रते पुत्र वखाणते, हाथथी गयो विख्यात ॥ ६ ॥ वली तेहनी वधुने तु-
मे, परसंसो परगट्ट ॥ ते पिण धन्नानी परे, जाइ कोइक वट्ट ॥ ७ ॥ दिवसे माटी शिर व-
हे, रात्रे पमे जूपीठ ॥ देखो देशणी जाग्यबल, कंत विरह अति धीठ ॥ ८ ॥ सुणी सुजडा
ते वचन, दाऊी दिलमें दीन ॥ नयलेशी आंसू ऊरे, विरह व्यथा लयलीन ॥ ९ ॥

॥ ढाल ७ मी. ॥ (रतनशी गुण मीठ्ठा रे.—ए देशी.)

एक दिवस सुज्ज्ज सती रे, आवे ते लेवा ठाश ॥ सौजाग्यमंजरीए तिहां रे, बेसानी
लेइ पास ॥ बहिन कहो दुःख मुज प्रते रे ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ तुमे ठो चतुर सुजाण ॥
प्रीति बंधाणी ठे माहरे रे, तुमथी जीवनप्राण ॥ ब० ॥ २ ॥ आंख अरूण दीसे ताहरी रे,
मुख ठवी अति दिलगीर ॥ नीसासा पिण एवमा रे, नयणे ऊरे बहु नीर ॥ ब० ॥ ३ ॥ सु
सरो सासू ठे ताहरे रे, जेठाणीने जेठ ॥ वर वारू हशे ताहरे रे, पीयर पिण हुशे नेठ ॥
ब० ॥ ४ ॥ के पीयर दुःख सांज्जस्यो रे, के डुहवी तुज कंत ॥ शी चिंता तुज एवनी रे,
कहे मुजने मतिवंत ॥ ब० ॥ ५ ॥ मुजथी अंतर एवमो रे, तूं किम राखे मुढ ॥ कहे अव
दात तूं ताहरो रे, जिम हुं जाणुं शुढ ॥ ब० ॥ ६ ॥ १आनन वस्त्रे श्राठादती रे, २अधो-
मुखथी कहे ताम ॥ बहिन कहूं शी कर्मनी रे, गति विपरीत विराम ॥ बहिन सुणो दुःख
माहरूं रे ॥ ७ ॥ ए आंकणी ॥ यतः ॥ शार्दूलविक्रीतवृत्तम्. ॥ ब्रह्मायेनकुलालवन्नियमि
तो ब्रह्मांज्ज्जानोदरे, विश्नुयेंनदशावतारगहनेक्षिप्तोमहासंकटे ॥ रुद्रोयेनकपालपाणिपुटके
ज्जिक्काटनंकारितः, सूर्योञ्ज्जाम्यतिनित्यमेवगगने तस्मैनमःकर्मणे ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—जे कर्म-

१ मुख.

२ ढांकती.

३ नीचुं मुख राखी.

घना०
६७

वने ब्रह्मा कुंजारना चाकनी पेठे ब्रह्मांन रूप घनाना पेटमां कवजे रखायो, विश्नु दश अ-
वतारणी ज्ञयंकर एवा महोटा संकटमां नंखायो, शिव हाथमां काचली लेइने जिह्वा मागे
ठे अने सूर्य हमेशां गगनने विषे जेनावने जमे ठे; ते कर्मने नमस्कार घात, ॥ १ ॥ गो-
इशेवनी अंगजा रे, जज्ञ नर अवतार ॥ बांधव शालिकुमार ठे रे, इंइतणे अनुहार ॥ व०
॥ ७ ॥ तातजी पूत्रता स्नेहणी रे, पूरे वंछित जोग ॥ वत्रीश वधू अने पुत्रने रे, आपे वंछि-
त योग ॥ व० ॥ ए ॥ तुज पति नामे माहरे रे, ठे जर्तार सुरंग ॥ दानी मानी ग्यानी ज-
लो रे, धरतो प्रीति अजंग ॥ व० ॥ १० ॥ श्री श्रेणिक नृप पुत्रिका रे, सोमश्री विख्यात
॥ कुसुमपाल तनया तिसी रे, कुसुमश्री शुचि गात ॥ व० ॥ ११ ॥ ते परणयो तिहां प्रेम-
थी रे, उत्तम गुणनो पात्र ॥ कांता त्रिणयेथी क्रीरतो रे, सुगुण सुरूप सुगांत्र ॥ व० ॥ १२
॥ बंधव वयण विशेषणी रे, बंढी सवि परिवार ॥ एकाकी कोइ देशमे रे, पढोत्यो ठे निर-
धार ॥ व० ॥ १३ ॥ ते जाते लक्ष्मी गई रे, सतीय परे ते साथ ॥ सुसरादिक सवि नीस-
ख्या रे, परदेशे विण आथ ॥ व० ॥ १४ ॥ नीर विना जिम कमलिनो रे, सरोवरमें सूकाय
॥ तिम धन हीन मनुष्यने रे, मान नही किण ठाय ॥ व० ॥ १५ ॥ करवा उदर आज्जी-
विका रे, इहां आख्यां इणिवार ॥ सर खणीए ठीए तुम तणुं रे, तुमचो ठे आधार ॥ व० ॥

सु० ३

६७

१६ ॥ यतः ॥ किं किं न कियं किं किं न कायध्वं, कह कह न नामियं सीसं ॥ डुप्रर उअर-
 स्स जरणे, किं न कियं किं न कायध्वं ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—शुं शुं न करयुं, शुं शुं नहि करवा
 योग्य ठे अने कोने कोने शीश नथी नमाव्युं? अपितु आ डुःखे जरवा योग्य एवा पेटने मा
 टे शुं न करयुं अने शुं न करवा योग्य ठे; अर्थात् सर्वे करयुं अने सर्वे करवा योग्य ठे! ॥१॥
 धनपतिशाह पटंतरे रे, जोजन करते वात ॥ सांजलीने चित्त चिंतवे रे, धन्य धन्य एह सु
 जात ॥ ब० ॥ १७ ॥ सुचि अइ ताम सिंहासने रे, बेगो अइ नजमाल ॥ त्रीजे नडहासे आ
 ठमी रे, कही जिनविजये ढाल ॥ ब० ॥ १८ ॥

॥ दोहा. ॥ कहे धनो रे ज्ञामिनी, तुं पति हीणी दीन ॥ प्राण धरे प्राणेश विण, कि
 ण रीते डुःख लीन ॥ १ ॥ फाटे काली जूमिका, जल विरहे ततकाल ॥ प्राण धरे पति वि
 रहणी, ए अचरिज इण काल ॥ २ ॥ सा कहे तव लज्जा करी, आशाथी अहो शोठ ॥ आ-
 शा पासे बांधीया, जीव करे ठे वेव ॥ ३ ॥ यतः ॥ अनुष्टुब्वृत्तम्, ॥ इयमाशा महाराजन,
 विपरीता हि शृंगला ॥ येनबलाः प्रधावन्ति, मुक्ता स्तिष्ठन्ति पंगुवत् ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—हे म
 हाराजा! आ आशारूपी सांकल बहु तरेहवार ठे; केमके, ते सांकलवमे बंधाएला पुरुषो
 दोने ठे अने तेनाथी बूटा थएला पांगलानी पेटे बेसी रहे ठे. अर्थात् सामान्य सांकलथी बं

धाएला माणसो हाली चाली शकता गथी, पण तेथी बूटा हरी फरी शके ठे; परंतु आ आ शारूपी सांकल तो एवी तरेहवार ठे के, एना पासमां पमेला माणसो दोरुदोरु करे ठे अने तेथी मुक्त अएला पांगलानी पेठे निरांते बेसी रहे ठे. ॥ १ ॥ तव घनो कहे सुंदरी, ते तुं किहां लहेश ॥ जोगव जोग जला इहां, वयण प्रमाण करेश ॥ ४ ॥ ए यौवन ए वसन सुख, ए जोजन ए वास ॥ पामीने जे हारवे, पसतावो पने तास ॥ ५ ॥

॥ ठाल ए मी. ॥ (हो कोइ आणी मिलावे साजना.—ए देशी.)

हो वयण सुणी विष सारिखां, घनानां तिणिवार हो ॥ दृढ मन करी धीरज धरी, बोले सुजज्ञ बाल हो ॥ वयण विमासी बोलीए ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ जिम रहे जगमां माम हो ॥ अपकीरति अलगी हुवे, परजव पिण सुख ठाम हो ॥ व० ॥ २ ॥ पश्चिम सूरज जगमे, धरणी रसातल जाय हो ॥ मेरू महिधर जो चले, अगनि ते शीतल थाय हो ॥ व० ॥ ३ ॥ उग्र तपे सशि सूर ज्यूं, जो ध्रुव चंचल होय हो ॥ तो पिण सती चूके नही, हृदय विमासी जोय हो ॥ व० ॥ ४ ॥ सतीनो सत्व मूकाववा, कीथा जेणे उपाय हो ॥ ते दुःखीया अया देखतां, पाम्या मरण सहाय हो ॥ व० ॥ ५ ॥ रावण सीता मोहीयो, तो

खोयां दश शीश हो ॥ लंका लूटावी तिहां, राम तणी ते रीस हो ॥ व० ॥ ६ ॥ परमोत्तर
 परनारथी, राख्यो डौपदी रूप हो ॥ केशव कोप करी तिहां, टाढ्यो तिहांथी जूप हो ॥
 व० ॥ ७ ॥ परनारीनी संगते, जुन ललितानंग कुमार हो ॥ विष्टा मंदिरमां वशो, शव शम
 थयो तिणिवार हो ॥ व० ॥ ८ ॥ जुन मणिरथे अनरथ कियो, मयणरेहाने काज हो ॥ तो
 ते नरके गयो तदा, रुंक दियो ?अहिराज हो ॥ व० ॥ ९ ॥ इत्यादिक अवदात ते, शुं नथो
 जाणता स्वाम हो ॥ श्रावक कुल पामी करी, राखो निज मन ठाम हो ॥ व० ॥ १० ॥ अग
 नि प्रवेश करुं अमे, वलि करुं ऊंपापात हो ॥ विष जकण जल आगमें, शरसना ठेदन घात
 हो ॥ व० ॥ ११ ॥ पिण अणघटता कामनो, वयण न सांजलुं कान हो ॥ इंड चंड नागेंड
 थी, न चलुं शीयलनुं ध्यान हो ॥ व० ॥ १२ ॥ यतः ॥ केसरि केश जूयंग मणि, शरणाग
 य सुहमाय ॥ सतीय पयोधर कृपण धन, चढसि हठ मुआह ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—केसरी सिं
 हना केश, सापने माथे रहेलो मणी, वीर पुरुषोने शरणे गएलो माणस, सती स्त्रीनां स्तन,
 एक कृपणनुं धन; ए सर्वे तेमना जीवतां तो हाथ नज लागे, परंतु मृत्यु अएज मले ॥
 १ ॥ वयण सुणी वनिता तणां, दरख्यो धनपति ताम हो ॥ ए सुकुलीन महासती, शियल

१ सर्प. २ जीत.

धन्ना०
६ए

रयण गुणधाम हो ॥ व० ॥ १३ ॥ कहे धन्नो में ताहरो, मन जोयो अजिराम हो ॥ शियल
सुरंगो हुं धरुं, न गमे परस्त्री नाम हो ॥ व० ॥ १४ ॥ विण पूबुं तुजने हवे, किम जाणीश
निज नाह हो ॥ दीठाथी हूं जाणशो, के प्रत्यय निरवाह हो ॥ व० ॥ १५ ॥ तव बोली
सा सुंदरी, जे कहेशे प्राचीन हो ॥ वारता जे जे जोगवी, सुख दुःखनी लयलीन हो ॥
व० ॥ १६ ॥ ते जरतार हुशे सही, शतदनंतर आकार हो ॥ ढाल ए त्रीजा उढहासनी, नव
मी जिन कहे सार हो ॥ व० ॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥ धनपति कहे सुण रे सती, प्रतिष्ठानपुर वास ॥ धनसारेन्य वखाणीए,
शीलवती सती तास ॥ १ ॥ चार पुत्रमां लघु तनुज, धन्नो बुद्धि निधान ॥ बंधव क्लेश
थी नीसखो, पिण तस पूण्य निदान ॥ २ ॥ उज्जयिनी आव्यो वही, पाप्यो नृपनो मान
॥ माता पिता बांधव सवि, ते आव्या त्तिण ठाण ॥ ३ ॥ सन्मानी राख्या निकट, पिण
मञ्जर तस देख ॥ धन्नोशाह वली नीसखो, सघली रुद्धि उवेख ॥ ४ ॥ राजगृहीए रंगशुं,
आव्यो धरी उढहास ॥ कुसुमपालनो वन फट्यो, पुत्री दीधी खास ॥ ५ ॥ सेचानक ग-
ज रायनो, आय्यो आलानधंज ॥ पुत्री आपी श्रेणिके, देखी अतुल अचंज ॥ ६ ॥ काणा-

१ जुनी. २ सारपगी.

नु० ३

६ए

नो ऊगमो पढ्यो, गौजइ शेठने जाम ॥ तेहने फेढ्यो ततहणे, तुजने परणी ताम ॥ ७ ॥
 मात पिता चाता वली, आब्या विपद नपाय ॥ देखी आमंवर थकी, आणया आपणे ठाय
 ॥ ८ ॥ पुनरपि कलह ते केलवे, बंधव राखी द्वेष ॥ तव धनपति तुजने तजी, इहां आय्यो
 शुज देख ॥ ९ ॥ प्रत्यय ए तुजने कह्यो, वली मुज श्वदन निहाल ॥ चांति म राखीश
 नामिनी, चिंती चित्त विचाल ॥ १० ॥

॥ ढाल १० मी. ॥ (मुजरो ढ्योनें जाळिम जाटमी.-ए देशी.)

वयण सुणी निज नाहनां, प्रत्यय पामी तिवार ॥ नाम थकी रे निश्चय थयो, पेढ्यो
 प्रगट आकार ॥ तोरी बलिहारी प्रीतम आहरा रे ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ शूघटमें रे आन-
 न धरी, लाजि करी कहे वेण ॥ प्राणप्रिय पियु माहरा, तुमे वल्लज मुज सेण ॥ तो० ॥ २
 ॥ तुज विरहे में परिहखां, वस्त्राञ्जरण विशेष ॥ जोजन सरस सवे तज्यां, तांबूलादि अशे
 ष ॥ तो० ॥ ३ ॥ स्नान श्रुशुशा शरीरनी, में लांकी पियु एह ॥ तुमे तो अमने रे अवगु-
 ण्यां, जाण्यो पियु तुम स्नेह ॥ तो० ॥ ४ ॥ एटला दिन लगे अमतणी, कंत न कीधी जी
 सार ॥ श्रुत्यप्रणे अमने गण्यां, नाणी शरम लिगार ॥ तो० ॥ ५ ॥ पुरुष सदा कपटी हु-

१ मुख.

२ घूघटासां मुख घाजी.

३ चाकरपणे.

वे, १पूर्वाप्रयाथी ।वरक्त ॥ अवर प्रिया रसमें रहे, तेह सदीव आसक्त ॥ तो० ॥ ६ ॥ सांज
ली सौजाग्यमंजरी, २प्रियपत्नितणां वेण ॥ हर्ष धरीने हेजे कहे, तूं तो दीसे ठे रेण ॥ तो०
॥ ७ ॥ स्नान करावे रे स्नेहथी, पहिरावे शुचि वेष ॥ आज्ञूषणथी जूषित करे, मान दिथे
सुविशेष ॥तो०॥८॥ धनो कहे धण सांजलो, तुमे बे नयन समान ॥ तन मनथी मुज प्रिय
घणी, विलसो सुख सुप्रमाण ॥ तो०॥९॥ हवे धनसार चित्त चिंतवे, ए सुकुलीन सुरीत ॥
क्षण एक मात्र रहे नही, शुं अयुं ए विपरीत ॥ ते दजु नावी बहुअर माहरी रे ॥ १० ॥ ए
आंकणी ॥ धनपतिशाह तणे घरे, गइ हती लेवा ठाश ॥ आवी नही हजी आंगणे, शुं का
रण हुशे तास ॥ ते० ॥ ११ ॥ कष्टपद्रुम सम ए अठे, धनपतिशाह पवित्र ॥ तेहथी तो जय
नवि हुवे, दीसे वात विचित्र ॥ ते० ॥ १२ ॥ वृद्ध वधूने बोलाविने, मूकी तेरुण काज ॥ ते
आवी धनपति गृहे, देखी पामी रे लाज ॥ ते० ॥ १३ ॥ जाजन तक्रनो लेइने, आवी स्था-
नक ताम ॥ वात कही सुसरा प्रते, जे गइ आपणी माम ॥ ते० ॥ १४ ॥ सुखी धनसार अ-
पार ते, रुदन करे ततकाल ॥ हा हा कुलने कलंकियो, खोयो शील विशाल ॥ ते० ॥ १५ ॥
देशाटन धन कय पणो, ए बे दुःख हतां मूत्र ॥ ए अपवाद ते ऊपरे, ए महोटो मुज शूत्र

॥ ते० ॥ १६ ॥ किहां जाऊं केहनै कहूं, शौं करुं वलि प्रतिकार ॥ धन विण कोय न उलखे,
कोय न माने जीकार ॥ ते० ॥ १७ ॥ यतः ॥ सर्वैयो त्रेवीशो. ॥ चाह करे जिनकी
जगमें सब आयके पाय नमे जलजैया, मातकुं तातकुं लागत वच्चन जामिनी ब्हेन रुखेत
बलैया ॥ वात जुगी सब साचहि मानत लोक गुनी यश वास कहैया, केशवदास कहे सुण
सज्जन सोही बभो जागी गांठ रुपैया ॥१॥ तो पिण नातिने आगले, कहूं सवि वात विचार
॥ नाति थकी सवि नीपजे, कार्य अनोपम सार ॥ ते० ॥ १७ ॥ आवी नातिने आगले, पोका-
स्यो धनसार ॥ त्रीजा उडहासनी ढाल ए, जिन कहे दशमी उदार ॥ ते० ॥ १८ ॥

॥ दोहा. ॥ इन्ध प्रमुख सवि इम कहे, सांजल रे धनसार ॥ धनपति शेठ तणो
सहु, यश जाणे संसार ॥१॥ परनारीने नवि जजे, न लिये वली पर इय ॥ जीवघात नवि
आचरे, अजक तजे ए सर्व ॥ २ ॥ तूं पिण जूगे नवि कहे, ते नवि करे अन्याय ॥ इणि दि
शि व्याघ्र इहां नदी, आवी बन्यो ए न्याय ॥ ३ ॥ तो पिण ताहरे कारणे, करशुं उद्यम आ
ज ॥ बहु तुमारी तुतरमें, लावेशुं महाराज ॥ ४ ॥ इम कही सवि जेला थइ, लेइ नजरा
णो सार ॥ धनपतिशाहने आगले, आवी करे जुहार ॥ ५ ॥ सन्माने सवि शेठने, देई फो
फल पान ॥ पूठे शे कारण तुमे, आव्या पुरुष प्रधान ॥ ६ ॥

॥ ढाल ११ मी. ॥ (करजौनी वेदिया कहे हो लाल, जले रे पधास्या आज.—ए देशी.)
 करजौनी सवि इम कहे हो लाल, सुणो रे सोजागी ॥ वीनतनी महाराज हो धना
 शाह, सुणो रे सोजागी ॥ ए आंकणी ॥ धनपुर नगर ए धने जस्यो हो लाल, सु० ॥ अमर
 पुरी सम आज हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ १ ॥ इंड सदश तुमे नपता हो लाल, सु० ॥ निरुपम
 रूप निधान हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ सामानिक साभंत ठे हो लाल, सु० ॥ दिन दिन चढते वान
 हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ १॥ देव सरीखा दीपता हो लाल, सु० ॥ इज्य अठे धनवंत हो ॥ ध० ॥ सु०
 ॥ सकल प्रजा परषद जली हो लाल, सु० ॥ तुमची ए मतिवंत हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ ३ ॥ इंडा
 णी सम शोचती हो लाल, सु० ॥ सोजाग्यमंजरी नार हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ हय गय रथ पा
 यक घणा हो लाल, सु० ॥ वली कोठार जंमार हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ ४ ॥ तुम यश जगमें वि
 स्तस्यो हो लाल, सु० ॥ परखी बंधव नाम हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ परडुख जंजन परगना हो
 लाल, सु० ॥ दुस्थित जन विश्राम हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ ५ ॥ पिण निसुणो एक अमतणी हो
 लाल, सु० ॥ वात जे अइ विपरीत हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ परदेशी धनसारनी हो लाल, सु० ॥
 वहु हुती सविनीत हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ ६ ॥ तक्र लेवा तुम मंदिरे हो लाल, सु० ॥ आवी हुती
 सुविवेक हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ कोइक कार्य उदेशिने हो लाल, ॥ सु० ॥ बेठी हुशे धरी टेक हो ॥

ध०॥ सु०॥७॥ खबर करावी तेहनी हो लाल, सु०॥ सौंपावो ते सदीश हो ॥ ध० ॥ सु० ॥
 जूरे सुसरो एहनो हो लाल, सु० ॥ आस्फाले निज शीश हो ॥ ध०॥ सु०॥७॥ इत्यादिकनां
 एहवां हो लाल, सु० ॥ वचन न धाखां कान हो ॥ ध०॥ सु०॥ तव चमक्या ते वाणिया हो
 लाल, सु० ॥ अन्योन्ये करे सान हो ॥ ध०॥ सु०॥७॥ करी प्रणाम कठी गया हो लाल, सु०
 ॥ सहु को निज आगार हो ॥ ध०॥ सु० ॥ धनपति मंदिर आगले हो लाल, सु०॥ पोकारे ध
 नसार हो ॥ ध०॥ सु० ॥१०॥ रे धनशेठ तुं माहरी हो लाल, सु० ॥ आपो वधु इणी वार हो
 ॥ ध०॥ सु०॥ ए अन्याय तुम नवि घटे हो लाल, सु०॥ जुलने हृदय विचार हो ॥ ध० ॥ सु० ॥
 ॥ ११ ॥ अमे परदेशी प्राहुणा हो लाल, सु०॥ दुस्त्रित जनमां लीह हो ॥ ध०॥ सु०॥ तूं प-
 रदुःख जंजक अठे हो लाल, सु० ॥ सा पुरिसामां सिंह हो ॥ ध ॥ सु० ॥ १२ ॥ यतः ॥
 आर्यावृत्तम् ॥ विरला जाणंति गुणा, विरला पालंति निहणा नेहा ॥ विरला परकळ परा,
 परदुःखे दुस्क्रिया विरला ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—गुणना जाणनार, निर्धननो स्नेह पालनार अने
 परनां कार्य करवामां तत्पर, एवा पुरुषां विरला होय ठे; परंतु ते करतां पण पारका दुःखे
 दुःखीआ तो, तेषी पण विरला होय ठे ॥ १ ॥ तव धनसार तेमाविने हो लाल, सु० ॥ ध-
 न्नां प्रणमे पाय हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ अविनय खमज्या तातजी हो लाल, सु० ॥ मुजशी क-

री सुपसाय हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ १३ ॥ देखी पुत्रने नलख्यो हो लाल, सु० ॥ हरख्यो तन म
न ताम हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ पूनम चंडथी नदधिनो हो लाल, सु० ॥ जिम किछ्चोल उदाम
हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ १४ ॥ स्नान प्रमुख सवि साचवी हो लाल, सु० ॥ नूषण वस्त्र उदार
हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ नोजन नगति करी नली हो लाल, सु० ॥ थाप्या गूप्तागार हो ॥ ध०
॥ सु० ॥ १५ ॥ एहवे शीलवती सती हो लाल, सु० ॥ पति प्रेमे तिणिवार हो ॥ ध० ॥ सु० ॥
आवी धनपति मंदिरे हो लाल, सु० ॥ करे आकंद पोकार हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ १६ ॥ रे पापी सु
ज वधु नणी हो लाल, सु० ॥ राखी कीध अन्याय हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ वली नट्ट पासे माह
रो हो लाल, सु० ॥ कंत ग्रहाव्यो शे न्याय हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ १७ ॥ न्याय न दीसे गाममां हो
लाल, सु० ॥ एक घरे एह राज्य हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ वसते गामे वाणियो हो लाल, सु० ॥ ए
वनो करे अकाज हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ १८ ॥ वर वधु ए वे मुज प्रते हो लाल, सु० ॥ दो कहं
गोद विठाय हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ नहितर पिण मुज कंतने हो लाल, सु० ॥ मूकंतां शू जाय हो
॥ ध० ॥ सु० ॥ १९ ॥ जीर्ण जराये जाजरो हो लाल, सु० ॥ चिंतार्थी कृप गात्र हो ॥ ध० ॥
सु० ॥ एहवो पिण पति माहरो हो लाल, सु० ॥ मूकने तूं गुणपात्र हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ २० ॥

तव धनो माता ज्ञानी हो लाल, सु० ॥ तेरावे ततकाल हो ॥ध०॥सु०॥ अविनय खमज्यो
 मातजी हो लाल, सु० ॥ हूं तुमचो लघु बाल हो ॥ध०॥सु०॥ ११ ॥ माता मनमें उच्छ्वसी
 हो लाल, सु० ॥ देखी पुत्र दीदार हो ॥ध०॥सु०॥ हरखे हैमे ज्ञानियो हो लाल, सु० ॥ नि
 रखे वारंवार हो ॥ध० ॥ सु० ॥ १२ ॥ वस्त्राञ्जरणे ततकाले हो लाल, सु० ॥ संतोष्या सु-
 विदास हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ त्रीजे नल्हासे श्ग्यारमी हो लाल, सु० ॥ जिन कहे ढाल प्र-
 काश हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ १३ ॥

॥ दोहा. ॥ हवे ते धनदत्तादि त्रय, ज्ञाता करे विचार ॥ जइने धनपतिने गृहे, कीजे
 प्रबल पोकार ॥ १ ॥ मात पिता ने लघु वधू, एणे राख्यां एकांत ॥ बल बलथी जो लीजो
 ए, तो आपण मतिवंत ॥ २ ॥ इम चिंतो त्रिण्ये तुरत, आब्या धनपति गेह ॥ उच्च स्वरथी
 इम कहे, देय देय रे देह ॥ ३ ॥ अम माता ने तातने, ग्रही राख्या शे काज ॥ १ ज्ञातवधू
 पिण ज्ञोदवी, ए वाते तुज लाज ॥ ४ ॥ सांजली धने तुरतमें, तेराव्या आवास ॥ वस्त्राञ्ज
 रण विशेषथी, आपे धरी नल्हास ॥ ५ ॥ मात पिता वांधव वधु, मलियां मंदिर मांह ॥ ध
 नपतिनी गुण वर्णना, करे ते अति नल्हाह ॥ ६ ॥ हवे ते पाबल त्रिण्य वधु, चिंते चित्त म

जार ॥ उल करी धनपतिथे सवि, लीधो अम परिवार ॥ ७ ॥ एक बधूने कारणे, घे ठे स-
हुने दुःख ॥ देखो ए ग्रामे इहां, अन्यायेथी सुख ॥ ८ ॥ जइए धनपति मंदिरे, कहिये गोद
बिगाय ॥ पति अम पकड्या शा जणी, मूक तुं करि सुपसाय ॥ ए ॥

॥ ढाल १२ मी. ॥ (वीण म. वाइल रे, विछल वारुं तुजने.—ए देशी.)

करिय विचारने त्रिणये अबला, आवी धन आवासे ॥ छाररकके हांकी काढी, विल-
खी अइय विमासे ॥ देखो दैवे रे, ए दिन अमने दीधा ॥ १ ॥ ए आंकणी. ॥ सांज पनीने
पति पिण न मिळया, न मिळया सुसरो सासू ॥ देशणी पण दूरे नाठी, फेरो पनीयो फांसू
॥ दे० ॥ २ ॥ हा! हा! धने अधम ए कीधो, वसते गामे वणीके ॥ व्हार न पडोचे कोइना
एहने, चंडगुप्त जिम ३चणिके ॥ दे० ॥ ३ ॥ इम विलवंती ते निज स्थानक, रात्रि समय
तिहां आवे ॥ विरह विलूधी व्याकूल आवे, पाणी अन्न न जावे ॥ दे० ॥ ४ ॥ सुसरा सासु
कंत विना ते, सूनो स्थानक लागे ॥ रात्रि गले तेम रोवे अबला, विरह विशेषे जागे ॥ दे०
॥ ५ ॥ शुं अमे वनमां रुषि संताप्या, माख्या मृगने मरती ॥ के इमां पंखीनां फोड्यां, के
इमाखने जरती ॥ दे० ॥ ६ ॥ कंतने वश करवाने कारण, कामणजां में कीधां ॥ के शोक

લમ્બી ગર્જ ગલાવ્યા, સાતન પાતન કીધાં ॥ ૬૦ ॥ ૭ ॥ કે જલચારી જીવને માસ્યા, નાં
 સ્ત્રી જાલ તે જલમાં ॥ વૃષજ પ્રમુખને સકટે જોમી, જાર વહાવ્યા થલમાં ॥ ૬૦ ॥ ૮ ॥ કે
 સંગ્રામ કચ્યાં શૂરાતન, માસ્યાં માણસ હોમે ॥ કે ઠલ કરીને વાટ પમાવી, ઘન લીધાં મન
 કોમે ॥ ૬૦ ॥ ૯ ॥ અણગલ પાણી પીધાં અહ નિશિ, પૂરા પ્રમુખ ન રાખ્યા ॥ ૧પાલર વા
 કલના જગવંતે, દોષ અનંતા દાખ્યા ॥ ૬૦ ॥ ૧૦ ॥ યતઃ અનુષ્ટુબ્વૃત્તમ્ ॥ સંવહરેણયત્પા
 પં, કૈવર્ત્તસ્યેહ જાયતે ॥ એકાહનિતદાપ્નોતિ, અપુતજલસંગ્રહી ॥ ૧ ॥ જ્ઞાવાર્થઃ—આ લોકને
 વિષે ત્રિદ્વ માણસને જેટલું પાપ એક વર્ષમાં લાગે છે, તેટલું પાપ અપવિત્ર (અણગલ) પા-
 ણીના સંગ્રહ કરનારને માત્ર એક દિવસમાં લાગે છે. ॥ ૧ ॥ પંચ આવરની પગ પગ હિંસા,
 કરતાં મહેર ન આણી ॥ ત્રસને પણ હણતાં કોઈ વેલા, અનુકંપા ચિત નાણી ॥ ૬૦ ॥ ૧૧ ॥
 ક્રોધ લોજ જય હાંસીને વજા, કૂઠાં આલ જે દીધાં ॥ ફલ તેહનાં જોગવવાં નિશ્ચે, ઘનવતિ
 ની પરે સીધાં ॥ ૬૦ ॥ ૧૨ ॥ ચોરી કીધી પરઘન લેવા, ચોરને સંબલ દીધો ॥ જેલ સંજેલ

૧ પાલર એટલે આકાશથી પમેલું પાણી અને વાકલ એટલે જામિથી નીકલેલું પાણી; આ વસ્તુ જાત
 ના પાણીના પૂરાને એક બીજામાં જેલસેલ કરે, અર્થાત્ પાલરના પાણીના પૂરાને વાકલના પાણીમાં નાંચે
 અને વાકલના પાણીના પૂરાને પાલરના પાણીમાં નાંચે; આ રીતે કરવાથી ઘણુંજ પાપ લાગે છે.

करीने आप्यां, विसवासी धन लीधो ॥ दे० ॥ १३ ॥ रूपवंत परनारी देखी, लीधी मदधी
नलाली ॥ कामिनी कंत विठोहो कीधो, हृदय न जोयो ज्ञाली ॥ दे० ॥ १४ ॥ नंदराय परे
परिग्रह सबला, लेई कीधा जेला ॥ ममताने वश कांइ न जाण्यो, जे ठांरवा मरणनी वे-
ला ॥ दे० ॥ १५ ॥ निश्चिज्जो जन जिज्ञाने स्वादे, जांति जांति निपजाव्यां ॥ तेहना दोष
प्रगट शिवशास्त्रे, जिनमतमें पिण आव्या ॥ दे० ॥ १६ ॥ यतः ॥ चत्वारि नरकद्वारा, प्रथमं
रात्रिज्जो जनं ॥ परस्त्रीगमनं चैत्र, संधानानंतकायके ॥ २ ॥ ज्ञावार्थः—रात्रिज्जो जन, परस्त्री
गमन, बोलअथाणुं अने अनंतकायनुं ज्ञक्षण; ए चार नरकनां वारणां ठे ॥ २ ॥ इत्यादि
क जे पाप करमने, कीधां हशे कोई वेला ॥ तेहनां फल नदये इहां आव्यां, जोगविये सह
जेलां ॥ दे० ॥ १७ ॥ कहो किहां जइए किणि विधि करीए, केहने शरणे रहीए ॥ कोइ न नाथ
अमारे इहां कणे, जेहने सुख दुःख कहीए ॥ दे० ॥ १८ ॥ इम विलवंते रात्रि विहाणी, ते
त्रिण्येनी तिवारे ॥ त्रीजे नडहासे ढाल ए वारमी, कहि जिन श्रुत अनुसारे ॥ दे० ॥ १९ ॥

॥ दोहा ॥ अथ प्रांते ते कामिनी, त्रिण्ये मिली तेवार ॥ कोशंबीये ततक्षण, पदो
ती नृप दरवार ॥ १ ॥ पोकारी परगट पणे, जांखे नृपने ज्ञाम ॥ दैवयोग दुःखीयां अमे,
करिये परनां काम ॥ २ ॥ सर खणतां धनातणो, करतां दुप्ररी पूर ॥ चूक्यो धनो चित्त अ-

की, देखी देराणी नूर ॥ ३ ॥ लालच दीधी लंपटे, सुसराने धरी स्नेह ॥ मूकजो तक्रादिक
 नणी, लघु वधुने धरी नेह ॥ ४ ॥ इम ललचावी प्रति दिने, ललनां लीधी आज ॥ वारस
 पिण पकड्या वही, अम विणसाड्यो काज ॥ ५ ॥ सुसरा सासूने बहु, त्रिणये नसंदना वीर
 ॥ धन्ने सरवे संग्रह्यां, धरिये किण विधि धीर ॥ ६ ॥ तुमे न्यायी नरपाल ठो, पृथ्वीना प-
 ति शाह ॥ वहार करो वेगे हवे, करी कृपा सोहाह ॥ ७ ॥ एक देराणी कारणे, पंचने द्ये
 पंचत्व ॥ एह अधम तुम राज्यमें, ते किम करे निसत्व ॥ ८ ॥ ते मदांध शामज थयो, करे
 अत्युग्र उत्पात ॥ तुमे ठो केसरी तस शिरे, अहो नृपति अम तात ॥ ९ ॥ यतः ॥ उपजा-
 तिवृत्तम् ॥ दुष्टस्यदंरुःस्वजनस्यपूजा, न्यायेनकोशस्य च संप्रवृद्धिः ॥ अपरूपातोनिजरा
 श्रुचिंता, पंचापिधर्माःनृपपुंगवानां ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—दुष्ट माणसनो दंरु करवो, स्वजननो
 सत्कार करवो, नायवमे धन (तिजोरी) नी वृद्धि करवी, अपरूपातपणुं राखवुं अने पोता-
 ना देशनी चिंता राखवी; ए पांचे धर्म उत्तम राजानना ठे ॥ १ ॥

॥ ढाल १३ मी. ॥ (राग बंगालो. राजा नहि नमे.—ए देशी.)

निसुणी अबला वयण विचार, राय चिंते चित्तमें तिणिवार ॥ राजा कोपथी ॥ अम
 नामात ए निपुण सुजाण, किम एहवो करे कार्य अजाण ॥ राजा कोपथी ॥ १ ॥ ए आं-

धन्ना०
७५

कणी ॥ विकसित वदन ए बुद्धि निधान, एह तो निर्मल गंग समान ॥ रा० ॥ न्यायमार्गे
ए वर्त्ते धीर, सहु एहनी जरे रूमी जरीर ॥ रा० ॥ १ ॥ परनारीथी एहने त्याग, एता दिन
हुतो सवल सोजांग ॥ रा० ॥ किम कीधूं हशे एह अकाज, शूं खोशे ए मूलगी लाज ॥ रा०
॥ ३ ॥ चिंतीने सामंत तिवार, मूके नृप धन्ना आगार ॥ रा० ॥ ते आव्या धरी मनमें धीर,
प्रणमी वेठा धन्नाने तीर ॥ रा० ॥ ४ ॥ कहे सुणो शेठ सुगुण गुणवंत, तुमे गो चतुर वि-
चक्षण संत ॥ रा० ॥ आश्रित जन आघार अनूप, तुमे बुद्धे रंज्या सवि जूप ॥ रा० ॥ ५ ॥
कार्यवशे तुमे निज आवास, राख्या हुशे परदेशी दास ॥ रा० ॥ मूको एहने स्वामी सधीर,
तुमे गो परनारीना वीर ॥ रा० ॥ ६ ॥ ए अबला अकुलाये आम, पति विण एहने न सूजे
काम ॥ रा० ॥ उत्तम नर अबलानी सार, करतां कांइ न लावे वार ॥ रा० ॥ ७ ॥ तव बो
ले धन्नो थइ धीर, सांजलोने तुमे साहस धीर ॥ रा० ॥ अमे अन्याय न राखुं चित्त, चाळुं
न्याय अकी अमे नित ॥ रा० ॥ ८ ॥ अम माणस ठे अम आगार, नृपने एहनो शो ठे वि-
चार ॥ रा० ॥ राखे जो बल मनमें राय, नामे संतानिक नाम कहाय ॥ रा० ॥ ९ ॥ लक्षा-
निक जे ताहु समर्थ, ए शो धरे अजिमान निरर्थ ॥ रा० ॥ जो संग्राम करण धरे होंश,
जो नावे तो ठे तुज सोंस ॥ रा० ॥ १० ॥ सांजली धन्ना केरां वेण, नृप पासे पडोत्या ते

उ० ३

७५

सेंण ॥ रा० ॥ वात विचार सुणी ततकाल, नृप कोपे थयो काल कराल ॥ रा० ॥ ११ ॥ वज
 ऋवी रणनेर तिवार, निसुणी सज थया सुन्नट जूजार ॥ रा० ॥ हय गय रथ पायक न-
 हि पार, सैन्य थयो संग्राममें त्यार ॥ रा० ॥ १२ ॥ धन्ने पिण निज सैन्य उदाम, सज्ज की
 धो तिहां युद्धने काम ॥ रा० ॥ विरुद्ध ज्ञणे तिहां चारण जाट, चिहुं दिशि सैन्य तणो बन्यो
 घाट ॥ रा० ॥ १३ ॥ जय पामे सवि पौरक लोक, सैन्योपड्व थकी धरे शोक ॥ रा० ॥ आ
 अणजाण्यो किम थयो काज, १जामाताडूं युद्ध अकाज ॥ रा० ॥ १४ ॥ परदेशी माटे कु-
 ण आप, पेट चोलीने उपावे संताप ॥ रा० ॥ परिजन कहे इम जिन सुविलास, ढाल ए
 तेरमी त्रीजे उड्हास ॥ रा० ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ युद्ध मंराणो जोरथी, अन्योन्ये असमान ॥ ते देखी कायर नरे, राखे
 १प्रलयन ध्यान ॥ १ ॥ राय संतानिक सैन्यमें, सामंत सवि सौंरीर ॥ धन्नाशाहना कटक-
 में, एक एह वरुवीर ॥ २ ॥ धनपुर कोसंबी विचे, रणनो करे मंराण ॥ सयल लोक जोवा
 मिल्या, मूकी निज निज ठाण ॥ ३ ॥

१ जमाइथी.

२ नासी जवानुं.

॥ ढाल १४ मी. ॥ (देशी कमखानी.)

सबल दल प्रवल रण रंग वेगे चढ्यो, नृप सतानिक तणो मान धरतो ॥ गुहिर नि-
शाण सुप्रमाण रणतूर तिम, घन घटा सधन आवाज करतो ॥ स० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥
गज घणा मत्त उत्तमत्त बूटा चले, शीश सिंदूरथी करीय शोभा ॥ अमर गुंजारवे पूर्ण रो
शे ज्ञस्या, दंत मूसल करीय दूर्ग खोज्या ॥ स० ॥ २ ॥ कञ्ज कंबोज केकाण काश्मरना,
पाणिपंथा खुरासाणि कहीए ॥ नृप सतानिक तणा सैन्यमें हींसता, ते सवे जातिना तु-
रिय लहीए ॥ स० ॥ ३ ॥ घणण घंटावली वृषज कंठे वली, अति घणा तूर रथमांहे गाजे ॥
रथ घणा एहवा सज कस्या समरमें, शस्त्र ठत्रीशथी अधिक राजे ॥ स० ॥ ४ ॥ शिर धरी
टोप कोपे करी चालता, मालता समरमें अति उगांहे ॥ वीर रसथी चढ्या शीश ठोगा ध
स्या, सुजट एहवा सदा सैन्यमांहे ॥ स० ॥ ५ ॥ नृप सतानिक तणो लहिय आदेश वर,
ग्रहिय शिरपाव सामंत शूरा ॥ युद्ध करवा ज्ञणी आवीया ऊमही, जाणीए जलधि कद्धो
ल पूरा ॥ स० ॥ ६ ॥ ताम धनशेठनो सैन्य पिण सनमुखे, चालीयो देश निशाण रुंका ॥
अश्व रथ वीर गज घनघटा घणघणे, जाणीए राम चढ्यो लेण लंका ॥ स० ॥ ७ ॥ नाल
गोला घणा शब्द बहु तेह तणा, सांजली शेष पिण होज पावे ॥ तीर तरवार जालातणा

तेजयी, अंधरे ?तरणि ते सज्जय आवे ॥ स० ॥ ७ ॥ चिंतवे शेठ ए युद्ध करते अके, रखे
 इहां मादरो मान गाले ॥ सैन्य इल प्रवल ठे ए सतानिक तणो, ताम सुरमणि प्रते ते नि-
 हाळे ॥ स० ॥ ८ ॥ निरखतां वेंत सैन्या ववी शेठनी, जाणीए जलविनो पूर आयो ॥ सै-
 न्य राजातणो तयल नात्ती गयो, यज्ञ अयो शेठनो अति सवायो ॥ स० ॥ ९ ॥ नृपतणा
 सुजटने नासता देखिने, कामिनी तव कडे कां लजावो ॥ शूर तजी तूर इत्रियारने नांखि
 ने, वणिक आगे तुमे केस आवो ॥ स० ॥ १० ॥ मरणना ज्ञय अकी प्रागिया कां मुवा,
 मातने तात जाया लजावी ॥ पंचमे वेसि किम मूठ वल घालणो, एदवी कुडुडि तुज केस
 आवी ॥ स० ॥ ११ ॥ निसुणी नृप कोपियो सैन्य मुज लोपियो, नृपियो शव ए आव केरो
 ॥ युद्ध कीया विना माम खोई मुवा, ए सैन्यानी मुज अति अंधेरो ॥ स० ॥ १२ ॥ उम कही
 नृप चड्यो कवच तनुची जड्यो, शिर वख्यो मुगट अति तेज करतो ॥ अही करवाय विकराय
 निज जुजवळे, पुनरपि सैन्ययी वैर्य धरतो ॥ स० ॥ १३ ॥ आवियो जाम निज घामपर
 नरपति, ताम वनशेठ पिण शूर आवे ॥ आगमि मरण एक शरण अरिइंतनो, जूजवा काज
 तिहां शेठ जावे ॥ स० ॥ १४ ॥ चिंतवे ताम नृप सचिव सवि सामटा, एकठा एह सुतरो

१५

जमाई ॥ करिय संग्राम आराम को नवि लहे, एक घरमें किसी ए कमाई ॥ स० ॥ १६ ॥
वारिये तो जलुं प्राय मुख ऊजलुं, लाज रहे नृपतणी अति विलासे ॥ ढाल ए चौदमी जा
ति कमुखे कही, विबुध जिनविजय त्रीजे उडहासे ॥ स० ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ इम चिंतीने सचिव सवि, आव्या नृपने पास ॥ कर जोमी आगल रही,
एम करे अरदास ॥ १ ॥ स्वामीजी शो कोप ए, जामाताथी जोर ॥ करवो घटशे किलि-
परे, निज मन आणो गोर ॥ २ ॥ हास्याथी अपजश हुवे, जीत्या पण जंजाल ॥ स्वच्छ थ
ई जुन चित्तमें, ए सवि तुमचा बाल ॥ ३ ॥ ए बालक अई बूटशे, पिण तुमे वना नरिंद ॥
वावी हाथे वृकने, कुण ठेदे मतिमंद ॥ ४ ॥ ए धन्ने निज बुद्धिथी, राखा हुशे निस्संक ॥
ते अमे जइने पूढिये, ते माणसनो वंक ॥ ५ ॥ इम कही नृप समजाविने, तेभावी ते नार
॥ कहो वाई तुम कुल प्रमुख, मूल थकी अधिकार ॥ ६ ॥ तव ते लजाथी करी, साश्रुपात
वच ताम ॥ स्वामीजी अमचो हुतो, प्रतिष्ठानपुर गाम ॥ ७ ॥ व्यवहारी धनसार वर, शी
लवती घर नार ॥ पुत्र चार तस शोन्नता, धनदत्तादि उदार ॥ ८ ॥ इत्यादिक सघली क-
था, निरविशेष कही जाम ॥ निसुणी मंत्री चमकीया, ए धन्नो अन्निराम ॥ ९ ॥ मात
तातने उलखी, यतन कराव्यां खास ॥ वस्त्राचरण गोरस प्रमुख, दीधां मन उडहास ॥

१० ॥ आकर्षीं आवासमें, राखी स्त्री सुकुलीन ॥ मात तात त्राता प्रते, कीधा निज आ-
धीन ॥ ११ ॥ कहो वाइ ते घन प्रते, किम उलखशो ठीक ॥ शे कारणथी एहनो, निश्रय
हुशे नजीक ॥ १२ ॥

॥ ढाल १५ मी. ॥ (गढामें जूले सहियां हाथणी.-ए देशी.)

सचिव कह्या ते सांजली बोलना, कांश्क धैर्य धरी मनमांइ ॥ अमचे देवरियो सह्ये
तो कौतुक केलव्युं ॥ ए आंकणी ॥ कहे ईम मंत्रीने मनरंगशुं, निसुणोने अमचो वात उ-
गांइ ॥ अण ॥ १ ॥ करतल लक्षण वत्रीशे ज्ञलां, वली पगे पदम अठे सुविचित्र ॥ अण ॥
ते सहिनाण थकी अमे उलखुं, देवर अमचो पुण्य पवित्र ॥ अण ॥ २ ॥ ताम ते मंत्री त्रि
एये नारिने, तेनीने पहोल्या धनपति पास ॥ अ० ॥ करीय जूहारने बेठा यत्तथी, अन्योन्ये
विरचे वात विलास ॥ अण ॥ ३ ॥ ए त्रिण्ये ज्ञामिनी धनपति देखीने, उलखयो निश्रयथी
आकार ॥ अ० ॥ कहे धन देवर कां बोलो नही, अमचा तुमे जीवन प्राणाधार ॥ अ० ॥ ४ ॥
तव घत्रों बोलें कहो तुमे कोण ठो, जाइने साधो सरोवर काम ॥ अ० ॥ घत्राने नामे ठे
जगमें घणा, सघलाने गणशो देवर ठाम ॥ अ० ॥ ५ ॥ तव हसी नोजाइ कहे हेजशुं, तु-
मे अम देवर ठो निरधार ॥ अ० ॥ पण वली तुमचां चरण पखालशुं, प्रत्यय धरशुं पदम

दिदार ॥ अ० ॥ ६ ॥ धन्नो कहे परस्त्रीने फरसुं नही, तो किमधोवरोवीजे पाय ॥ अ० ॥
 अमे तो श्रावक व्रतधारी सदा, शीयल पातुं मन वच काय ॥ अ० ॥ ७ ॥ तव तेह सचीवे
 हठ कीधो घणो, शुं तुमे गुप्त करो निज जाति ॥ अ० ॥ जाण्यो में कुल वंशादिक तुम त
 णो, ए तुम जोजाई साक्षात ॥ अ० ॥ ८ ॥ तव हसी कहे धन्नो ज्ञात्री तुमे, खमज्यो स-
 वि अमचो अपराध ॥ अ० ॥ हुं तुम देवर तुम परसादथी, सुख ए पासु तुं निराबाध ॥ अ०
 ॥ ९ ॥ स्नान श्रुशुषा करवा कारणे, मूढ्यां माताजी पाले ताम ॥ अ० ॥ हली मली कु-
 टुंब सवि जेलो अयो, सहकोने उपन्यो तव आराम ॥ अ० ॥ १० ॥ वात जणावी सचीवे
 नृपज्ञणी, ए सवि धन्नानो परिवार ॥ अ० ॥ एहथी अणघटती वात न को हुवे, एहनो तो
 उत्तम ठे आचार ॥ अ० ॥ ११ ॥ राजा मन राजी थयो ते सांजली, धन्नो पिण आवे तेणी
 वार ॥ अ० ॥ अर्ध सिंहासन वेसण आपियो, ऊगीने कीधो राय जुहार ॥ अ० ॥ १२ ॥ पूढी
 सुखप्रभ करे इक वीनती, कहो तुम मात पितादिक सर्व ॥ अ० ॥ हलवे हलवे करिने मं-
 दिर मेलीया, जोजाइशुं एवमो शो तुम गर्व ॥ अ० ॥ १३ ॥ तव बोले धनपति नृप तुमे
 सांजलो, एहने हुतो कांइक मन अहंकार ॥ अ० ॥ स्त्रीथी अकार्य सदा बहु नीपजे, कलह
 नो मंदिर ए निरधार ॥ अ० ॥ १४ ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम्. ॥ सुवंशे योप्यकृत्यानि, कुरुते

प्रेरितःस्त्रिया ॥ स्नेहलं दधि मथ्नाति, पश्य मंथानको न किं ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—जून के, सा
 रा वांसमां रहेलो एवो जे मंथानक (रवैयो) ते पण स्त्रीनी पेरणाए करीने स्नेहवाला दधि
 ने शुं नथी वलोवी नांखतो? अपितु वलोवी नांखे ठे! तेम सारा वंशमां उत्पन्न थएलो ए
 वो जे पुरुष, ते पण स्त्रीनी प्रेरणाथी शुं अकृत्यो न करे? अपितु करेज! ॥ १ ॥ तेह जणी
 एटलो जेद देखामियो, जे जणी न धरे मनमें मान ॥ अ० ॥ लाखे वेचाणी तो पण मो-
 जनी, स्त्रीने ठे तेह तणो उपमान ॥ अ० ॥ १५ ॥ यतः ॥ माननितो मानज करे, जीत्यो
 कंत सुहाय ॥ जइ लाखीणी वाहिनी, तो पहिरीजे फाय ॥ १ ॥ बंधव स्नेह तिहां लगे जा
 णीए, जिहां लगे कामिनी वात न कान ॥ अ० ॥ कोणिक राये हृदय विहृदयशुं, कीधो सं-
 ग्राम ते स्त्री वच मान ॥ अ० ॥ १६ ॥ सुणी राजा धन्ना वयण सुहामणां, मनमांही हरखे
 अतिही विशाल ॥ अ० ॥ त्रीजे उल्हासे प्रेम प्रकाशनी, ज्ञांखी जिनविजये पन्नरमी ढाल
 ॥ अ० ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ नृप पहेत्यो निज मंदिरे, करि बहुलो सत्कार ॥ धन्नो पण आव्यो धरे,
 परिवृत बहु परिवार ॥ १ ॥ सहु को जन जयरव वदे, ठाम ठाम मिली अट्ट ॥ धन धन ध-
 न्नाशाहने, राख्यो वयण निपट्ट ॥ २ ॥ मात तातने मोदथी, सोंपे सवि गृह सार ॥ कांता

धन्ना०
७ए

ने कोमल पणो, संतोषे सुप्रकार ॥ ३ ॥ सन्मान्या बांधव प्रते, दीधां सदन विशाल ॥ अस
न वसन आचूषणो, सुपरे करे संजाल ॥ ४ ॥ पिण ते त्रिण्ये निर्गुणी, जीज न राखे गम
॥ एक दिवस तस वचनिका, निसुणी चिंते आम ॥ ५ ॥ मुज रहेतां एहने असुख, कारण
थाए अत्र ॥ तेह जणी दयिता सहित, हूं जानं अन्यत्र ॥ ६ ॥ इम चिंती ते ग्रामने, वहे-
ची दीधां ज्ञात ॥ हय गय पिण वहेची दीया, एह करी अखियात ॥ ७ ॥ मंदिर माल जं-
नार सवि, दीये तातने ताम ॥ राजगृहि जणी रंगशुं, मन राखे गुणधाम ॥ ८ ॥

॥ ढाल १६ मी. ॥ (महारे आंगणे हो राज, सेला मारु वावनी.—ए देशी.)

हवे धन्नो हो राज नृपति प्रते इम बीनवे जी, करी विनय विवेकथी सार ॥ सुणो रा
जा जी ॥ अम आशा हो राज विसराम तुमे अगो, घणी शी करीए मनुहार ॥ सु० ॥ अ
म दीजे हो राज, कृपा करी शीखनी जी ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ मुज तातज हो राज ज्ञा-
ता सह इहां अठे जी, तुम चरणे सुगुण निधान ॥ सु० ॥ एहनी स्वामी हो राज खवर घ
णी राखजो, घणुं शुं कहीए तुम निदान ॥ सु० ॥ अ० ॥ २ ॥ नृप श्रेणिक हो राज जावे
ठे वाटनी जी, वली प्रतिदिन प्रेषे ठे पत्र ॥ सु० ॥ तेहनी पण हो राज माया ठे अति घ-
णी जी, तिणे जावुं पढे ठे तत्र ॥ सु० ॥ अ० ॥ ३ ॥ शेठ शालिज्ज हो राज गौज्जो सुत.

उ० ३

७ए

अठे जी, वलि कुसुमपालादि अनेक ॥ सु० ॥ ते पिण प्रेमे हो राज लिखे ठे प्रतिदिने, ते-
 नावे ठे धरिय विवेक ॥ सु० ॥ अ० ॥ ४ ॥ तव नूपति हो राज आखे धन्नाशाह प्रते जी, शी
 वात कही तुमे एह ॥ गुणवंता जी ॥ अमे तुम शं हो राज करी खरी प्रीतनी जी, पिण
 तुम मनमें नही तेह ॥ गु० ॥ किम दीजे हो राज कृपा करी शीखनी जी ॥ ए आंकणी
 ॥ ५ ॥ इहां वेठा हो राज लोला सुख नोगवो जी, अमने ठे तुमचो आधार ॥ गु० ॥ तु-
 म सरिखा हो राज मिले किहांथी सगा जी, सवि सुविहित जन शिणगार ॥ गु० ॥ कि०
 ॥ ६ ॥ तव धनो हो राज नूधव प्रते इम जणे जो, तुम साहिव शं कहो एम ॥ सु० ॥ अम
 ने जाणजो हो राज सेवक करी हुकमा जी, तुमचो केम विसरे प्रेम ॥ सु० ॥ अ० ॥ ७ ॥
 धरणीधव हो राज धन्नाने तव दिये जी, अति सुंदर तरल तुखार ॥ गु० ॥ गज घोमा हो
 राज सुखासन रथ जला जी, वलि मणि माणिकमय हार ॥ गु० ॥ कि० ॥ ८ ॥ शीख लेई
 ने हो राज चाळ्या राजगृहि जणी जी, दयिता दोय लेई संग ॥ गु० ॥ शुन्न शुक्ने हो
 राज बहुल परिवारथी जी, मन धरता अति नठरंग ॥ सु० ॥ अ० ॥ ए ॥ दीन केते हो राज
 लक्ष्मीपुर आवीया जी, तिहां राय जितारी सुविशेष ॥ गु० ॥ खाग त्यागे हो राज सब
 ल सवि नृपथकी जी, अरि नासी गया परदेश ॥ गु० ॥ नवि सुणजो हो राज प्रवल फल

धना०
८०

पुण्यनो जी ॥ ए आंकणी ॥ १० ॥ तस कांता हो राज गुणावली गुणनीली जी, सती स
कल मांहे शिरदार ॥ गुण ॥ पुत्रि रूयनी हो राज कला गुण वेलनी जी, नाम गीतकला
तस सार ॥ गु० ॥ ११ ॥ कला चोशठ हो राज अंगे आवी वसी जी, वली नाम तिसो
परिणाम ॥ गु० ॥ एक दिवसे हो राज सखीथी परिवरी जी, कांइ पहेती नयान सुठाम
॥ गु० ॥ १२ ॥ स्नान कीधो हो राज पुष्करणीथी तिहां जी, देखे पुष्पादिक मनोहार
॥ गुण ॥ लेई वीणा हो राज गावे शुद्ध स्वरथकी जी, ग्राम रागमें विविध प्रकार ॥ गु० ॥
१३ ॥ स्वर लीना हो राज कुरंग आव्या वही जी, वलि नाग प्रमुख बहु जीव ॥
गु० ॥ स्वर रूफो हो राज अखुट ए निधि कह्यो जी, वली आणंद करण सदैव ॥ गु० ॥ १४ ॥
१४ ॥ यतः ॥ मालिनीवृत्तम् ॥ सुखिनिसुख निधानो दुःखितानां विनोदः, श्रवण हृदय-
हारी मन्मथस्याग्रदूतः ॥ अति चतुर सुगम्यो वल्लभः कामिनीनां, जयति जगति नादः पं-
चमश्रोपवेदः ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—सुखी पुरुषने सुखनो निधान, दुःखी पुरुषने विनोद कार-
क, कान तथा मनने हरण करनार, कामदेवनो अग्रदूत, चतुर पुरुषने सहेलाइथी समजाय
तेवो, स्त्रीने वल्लभ अने चार वेद उपर जाणे पांचमो उपवेदज होय नहि! एवो जे सुस्वर,
ते जगत्ने विषे जयवंतो वर्तो ॥ १ ॥ एक आवी हो राज भृगी स्वरथी तिहां जी, लयली-

उ० ३

८०

न अई रही ताम ॥ गुण ॥ तस कंठे हो राज ठवे निज कंठथी, नृप पुत्री हार उदाम ॥ गु०
 ॥ ज्ञ० ॥ १५ ॥ करी क्रीडा हो राज आवी निज मंदिरे, तेह गीतकला गुणधाम ॥ गु० ॥
 निज तातने हो राज नमीने वीनवे जी, सुणो तातजी निज हित काम ॥ गु० ॥ ज्ञ० ॥ १६
 ॥ स्वर नादे हो राज कुरंगी वश करी जी, कंठअकी लावे हार ॥ गु० ॥ आ ज्ञवमें हो रा-
 ज जे मिलशे एहवो, ते वरवो में ज्ञरतार ॥ गु० ॥ ज्ञ० ॥ १७ ॥ तेह वार्त्ता हो राज अई
 सवि ध्यानके जी, जिम जलमें तैल प्रचार ॥ गु० ॥ ढाल सोलमी हो राज त्रीजा उड्हास
 नी जी, कही जिनविजये सुविचार ॥ गु० ॥ ज्ञ० ॥ १८ ॥

॥ दोहा. ॥ ते वार्त्ता धने तुरत, सांजली सेवक पास ॥ सुजग वेश पहेरी चढयो,
 राजसजाये खास ॥ १ ॥ कहे धनो जूनाथ सुण, वनमें मृगनो मेल ॥ सुलज अठे स्वरवं-
 तने, पिण एक सांजल खेल ॥ २ ॥ वनमें श्री स्वरथी खरी, लावुं नगर मजार ॥ ते मृगिने
 कहे तो वली, आणुं सजामें सार ॥ ६ ॥ ताल कंसाल मृदंग ध्वनि, तेह श्री न लहे वीक ॥
 जय नवि पामे कोयथी, रहे मुज पास नजीक ॥ ४ ॥ सुणि नृपति हरखीत अई, दीधो तस
 आदेश ॥ तव धनो वीणा ग्रही, आव्यो ते वन देश ॥ ५ ॥ वाई वीणा वेगथी, स्वरथी गी-
 त सुग्यान ॥ सप्त स्वर त्रिण ग्रामथी, जंगणपचास ते तान ॥ ६ ॥ राग आलापे षट् रली,

रागिणी वलि ठत्रीश ॥ मिश्रित षट षट तेहनी, उष्णगिणी सुजेगीश ॥ ७ ॥ ते नादे ली-
ना तुरत, आवे मृगना वृंद ॥ व्याघ्र व्याल सवि वश अया, निसुणी गीत अमंद ॥ ८ ॥ हारा
लंकृत ते मृगी, आवी अति अन्निराम ॥ घोपवतीना स्वर अकी, लय पामी तिणे ठाम ॥ ९
॥ धन्नो वीण वजावतो, ते मृगी लेई संग ॥ चाळयो लक्ष्मीपुर जणी, करतो क्रीमा रंग ॥
१० ॥ नगर मांही ते संचस्थो, मृगीयुत नृप दरवार ॥ पहोत्यो ते देखी नृपति, कौतुक ल-
हे अपार ॥ ११ ॥ नगर लोक विस्मय लहे, देखी मृगिनो थट्ट ॥ ए शूं दीसे देवता, नर रूपे
परगट्ट ॥ १२ ॥

॥ ढाल १७ मी. ॥ (राजूल बेठी मालीए.-ए देशी.)

गीतकला गुण सांजली, मन हरखी हे अतिही आणंद के ॥ पूर्ण प्रतिज्ञा माहरी,
एणे कीधी हे ए पूरण चंद के ॥ पुण्य संयोगे साजन मीले ॥ १ ॥ ए आंकणो ॥ अलगां
टले हे वली कष्ट वियोग के ॥ मनवंठित सफलां फले, वली रूमा हे दिन पूरण जोग के
॥ पु० ॥१॥ राजा ऽमात्य सेनापति, शेठादिक हो सवि करे परसंस के ॥ धन धन गीतक
ला सती, पति पायो हे उत्तम अवतंस के ॥ पु० ॥३॥ हार लियो मृगी कंठथ्री, तव कन्या
हे वरमाल उदार के ॥ धन्नाने कंठे ठवे, सहु जांखे हे मुख जय जयकार के ॥ पु० ॥ ४ ॥

लग्न वेला साधी करी, परणावी हे नृपे कन्या तेह के ॥ दीधो बहुलो दायजो, वली दीधा
 हे अति सुंदर गेह के ॥ पु० ॥ ५ ॥ नृप आग्रहे धन्नशाह जी, रहे रंगे हे स्त्री त्रिणये साथ के
 ॥ विलसे जोग जली परें, नृप पूरे हे तस बहुली आय के ॥ पु० ॥ ६ ॥ अथ नृप मंत्री सु
 गुप्तनी, पुत्री रूमी हे सरस्वति अग्निधान के ॥ विद्यागुणग्री सरस्वती, कला कोविद हे
 वली रूप निधान के ॥ पु० ॥ ७ ॥ बुद्धि परीक्षण कारणे, गूढार्था हे प्रहेलिका कहे एक
 के ॥ एहनो अर्थ कहे जिके, ते वरवो हे वर मननी टेक के ॥ पु० ॥ ८ ॥ प्रहेलिका यथा
 ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ गंगायं दीयते दानं, एकचित्तेन ज्ञाविना ॥ दातारो नरकं यांति, प्रति
 ग्राही न जीवति ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—एक चित्ते अग्ने गंगानदी उपर दान अपाय ठे, परंतु ते
 दान आपनारो मरीने नरकमां जाय ठे अने दान लेनारो मरण पामे ठे! एवुं गुं हगे ? ॥
 १ ॥ जण जण अर्थ करे जूआ, नवि वेसे हे कोई अर्थ विशुद्ध के ॥ धन्ने पिण सुणी अन्य
 दा, तस अर्थनो हे लिखे श्लोक सुशुद्ध के ॥ पु० ॥ ९ ॥ श्लोक यथा ॥ मीनोग्राही पलं दे-
 यं, कन्ये दातात्र धीवरः ॥ फलं यज्जायते तत्र, स्तयोःतद्विदितं जिनैः ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—
 धन्नकुमरे पाठला श्लोकना उत्तरमां कह्युं के, हे कन्या! इहां दान लेनार माठलां, आपवा
 योग्य दान ते गल (पल) अने दान आपनारो पारधी जाणवो, तेसां दान लेनारने अने

धन्ना०
८५

आपनारने जे फल थाय ठे, ते फल जिनेश्वरे जाण्युं ठे. अर्थात् दान आपनारो पारधी नरके जाय ठे अने दान लेनारां माठलां मरण पामे ठे ! ॥ १ ॥ श्लोक लिखी एक पत्रमें, पाठल लिखे हे गुप्तार्थिक पद्य के ॥ अर्थ विचारी एहनो, तुमे लिखजो हे ज्ञामिनी मुज सद्य के ॥ पु० ॥ १० ॥ न लगेन्नाग नारिंगे, निंबे तुंबे पुनर्ल्लगेत् ॥ काकेत्युक्ते लगेन्नैवं, मा मेत्युक्ते पुनर्ल्लगेत् ॥ ३ ॥ ज्ञावार्थः—नाग अने नारंगीमां जेगा न थाय, पण निंब अने तुंबमां जेगा थाय ! तेमज वली काक बोले ठते जेगा न थाय, परंतु मामा एम बोले ठते जेगा थाय ! हे कन्या ! एवं शुं हशे ? ॥ ३ ॥ न तस्यादौ न तस्यांते, मध्येयश्च व्यवस्थितः ॥ तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति, यदि जानासि तद्दः ॥ ४ ॥ ज्ञावार्थः—जे चीज आदिमां नथी रहेती, तेम अंतमां पण नथी रहेती; परंतु वचमांज रहे ठे. वली ते चीज तारे पण ठे अने मारे पण ठे ! तो, हे कन्या ते शी चीज ? ते तुं जाणती होय तो कहे ! ॥ ४ ॥ कन्या वांची पत्रमें, निज मननो हे ते पामी अर्थ के ॥ पिण धन्नोक्त सुश्लोकना, ज्ञाव न लहे हे उद्यम थयो व्यर्थ के ॥ पु० ॥ ११ ॥ तव बेसीने सुखासने, सखी साथे हे गई धन्ना गेह के ॥ लाज थकी कहे श्लोकना, नवि पामी हे हुं अर्थ ठे जेह के ॥ पु० ॥ १२ ॥ तव धन्नो कहे 'उष्ट

१ दोठ.

नु० ३

८५

ए, शब्द शास्त्रे हे अठे एह विचार के ॥ अष्ट स्थानक ठे वर्णना, सोधी लेजो हे हवे अर्थ
 उदार के ॥ पु० ॥ १३ ॥ यतः ॥ अष्टौ स्थानानि वर्णाना—?मुरः शकंठः शिरस्तथा ॥
 धजिह्वामूलं च पदंताश्च, दनासिउकोष्ठौ च एतालु च ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—ठाती, कंठ, माथुं,
 जिह्वामूल, दांत, नासिका, होठ अने तालवुं. ए आठ वर्ण एटले अक्षरोनां स्थानक ठे. अ-
 र्थात् ए आठ स्थानको वने अक्षरोना उच्चार आय ठे. ॥ १ ॥ बीजे पद्ये नेत्र ठे, तव सर-
 स्वती हे सुणी अर्थ सुजाण के ॥ एहना पद्यना अर्थने, नवि पामी हे तिणे नियति प्रमाण
 के ॥ पु० ॥ १४ ॥ तव मंत्री पुत्री प्रते, कहे ताहरी हे थई पूर्ण प्रतिज्ञ के ॥ वर वरो ए
 मन होंशथी, बुद्धिवंतो हे सुंदर अति सुझ के ॥ पु० ॥ १५ ॥ चित्त हरखे ते सरस्वती, नि
 ज तातनुं हे करे वचन प्रमाण के ॥ शुभ्र दिवसे मंत्री तदा, परणावे हे ते अवसर जाण
 के ॥ पु० ॥ १६ ॥ विज्ञव दिये बहु ज्ञांतथी, सुख विलसे हे चारे स्त्री संग के ॥ त्रीजे उब्हा
 से शोभती, ढाल सत्तरमी हे कही जिन मन रंग के ॥ पु० ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ राजा माने अतिघणुं, देखी बुद्धि प्रकार ॥ मंत्री पिण कार्यादिके, पूठे
 वात विचार ॥ १ ॥ बुद्धिवंत देखी बहुल, पूठे नव नव जेद ॥ धनोशाह उत्तर तुरत, आपे
 धरी उमेद ॥ २ ॥ चारे बुद्धिधी चतुर, चेतन लहे सुख सार ॥ तिम चारे नारी थकी, सुख

विलसे श्रीकार ॥ ३ ॥

॥ ढाल १८ मी. ॥ (वीरे वखाणी राणी चेलणा जी.-ए देशी.)

एहवे ते लक्ष्मीपुरे जी, पत्रामल नामे नदार ॥ कोनि वत्रीश सोवन तणो जी, अधिपति ठे शाहुकार ॥ देखो देखो बुद्धिवल मोटको जी ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ गोटको नहो लवलेश ॥ सुख दिये जेह आपद पमे जी, यश करे देश परदेश ॥ देखो० ॥१॥ सुंदरी नामे तस गेहिनी जी, पुत्र शुभ लक्षणा चार ॥ राम ने काम गुणधाम ठे जी, श्याम चौथो सुखकार ॥ देखो० ॥३॥ अद्रूत रूपथी नपती जी, शोभती लक्ष्मी प्रतिरूप ॥ लक्ष्मी नामा तस ऊपरे जी, पुत्री नपनिषद स्वरूप ॥ देखो० ॥४॥ दान यात्रादि शुभ स्थानके जी, धन व्यय करे पत्रामल ॥ तप जप देवपूजा सदा जी, आचरे तेह अवल ॥ देखो० ॥ ५ ॥ अंत वय आवी तव लपन्यो जी, रोग ते विविध प्रकार ॥ मरण जाणी तव आपणो जी, तेढ्या तिहां पुत्र ते चार ॥ देखो० ॥६॥ सांजलो पुत्र सुपुत्र ठो जी, माहरा जीवनप्राण ॥ मानजो शीख एक अमतणी जी, तुमे ठो अति चतुर सुजाण ॥ देखो० ॥ ७ ॥ बांधव कोइ कारण थकी जी, छेप मत धारजो धीर ॥ बांधव सम कोइ ठे नही जी, प्रेमनो पात्र लधीर ॥ देखो० ॥ ८ ॥ कंचन कामिनी सुलज ठे जी, सुलज ठे मंदिर वात ॥ सुलज पुत्रादि सवि

पामवा जी, डुवन्न ठे मातनो जात ॥ देखो० ॥ ए ॥ यतः ॥ कडुन्न होए लींबमो, पिण त
 स ताढी ठांइ ॥ वंघव होए अबोलणा, तोहि पोतानी वांइ ॥ १ ॥ धनतणो ध्यान नवि धा
 रिये जी, धन सदा अनरथ मूल ॥ अंगनो मेल ए जाणवो जी, धनथकी सयण प्रतिकूल ॥
 देखो० ॥ १० ॥ सातखेत्रे धन वावख्यो जी, ते थयो आपणो सार ॥ शेष धन पाप कारण
 सही जी, जाणजो चित्त मजार ॥ देखो० ॥ ११ ॥ पिण एह समय धनवंतने जी, मान आ
 पे सहु लोक ॥ धनथकी लाज जगमें रहे जी, धन विण माणस फोक ॥ देखो० ॥ १२ ॥
 धनथकी धर्म साधन हुवे जी, धनथकी दान देवाय ॥ धनथकी जीवरक्षा हुवे जी, धनथकी
 सुजस सवाय ॥ देखो० ॥ १३ ॥ निर्धन आदर नवि लहे जी, निर्धन शव सम होय ॥ धन
 विण कोय धीर नही जी, प्रत्यय न धरे तस कोय ॥ देखो० ॥ १४ ॥ तेह जणी धन तुमे
 राखजो जी, पिण मत करजो क्लेश ॥ क्लेशथी दुःख लहेशो घणो जी, इह परजव सुविशे
 प ॥ देखो० ॥ १५ ॥ यतः ॥ अनुष्टुबृत्तम् ॥ प्रतापो गौरवं पूजा, श्रीयशः सुखसंपदा ॥
 कुलेतावत्प्रवर्द्धते, यावन्नोपद्यते कलि ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—प्रताप, महोटाइ, पूजा, लक्ष्मी,
 जश अने सुखसंपदा; ए सर्वे ज्यां सूधी कुलने विपे क्लेश न उत्पन्न थाय, त्यां सूधी वधे ॥
 १ ॥ कुटुंबमें क्लेश करते थके जी, लाज मर्याद सवि जाय ॥ लघुता लहिये निज नातिमां

घना०
८४

जी, चिंतित कार्य नवि आय ॥ देखो० ॥ १६ ॥ बांधव क्लेश बहु दुःख दीये जी, जरंत बाहू
बली जेम ॥ कोणिके हृदय विहृदयशुं जी, न गणयो एणे बांधव प्रेम ॥ देखो० ॥ १७ ॥ पां-
रुव कौरव जूजतां जी, कुल क्य थयो सवि ताम ॥ ते ज्ञणी बांधवशुं तुमे जी, राखजो
स्नेह सुप्रकास ॥ देखो० ॥ १८ ॥ बांधव स्नेहथी तुम प्रते जी, को न गंजे इणे ठाम ॥ कं
टक वामना बलथकी जी, जुन अगंजी हुए गाम ॥ देखो० ॥ १९ ॥ निर्धन बांधवे परिव-
स्यो जी, हुए बलवंत सदैव ॥ तंतुयोगे पट नीपन्यो जी, बल खमे अधिक तथैव ॥ देखो०
॥ २० ॥ शीख अमची अठे ए घणी जी, कलह मत करजो तुमे पूत्र ॥ ढाल अठारमी जि
ने कही जी, राखजो अम घरसूत्र ॥ देखो० ॥ २१ ॥

॥ दोहा. ॥ जेला रहेजो ज्ञावशुं, चारे तुमे सुपात्र ॥ प्रीति ज्ञली परे पालजो, अ-
न्योन्ये शुचि गात्र ॥ १ ॥ अनुक्रमे पौत्रादिक वधे, न रहेवाये एकत्र ॥ तो तुमे थाजो ज-
जूआ, द्वेष न धरशो तत्र ॥ २ ॥ तुम चारे नामे करी, कलश चार धन पूर्ण ॥ चारे दिशि
थाप्या अठे, में समकाले तूर्ण ॥ ३ ॥ ते लेजो तुमे उलखी, धनथी सरिखा चार ॥ खाजो
पीजो खरचजो, बलि करजो व्यापार ॥ ४ ॥ शीख देई इम पुत्रने, पचखे चारे आहार ॥
चार शरण शुभ ज्ञावथी, धारे चित्त मजार ॥ ५ ॥ चोराशी लख जोनिने, खमे खमावे

उ० ३

८४

आप ॥ अणसण आराधन करी, ठांमे पापनो व्याप ॥ ६ ॥ नवपद ध्यान संज्ञारते, पहो-
त्यो ते परलोक ॥ प्रेतकार्य करी अनुक्रमे, पुत्रे ठांज्यो शोक ॥ ७ ॥

॥ ढाल १ए मी ॥ (केसर वरणो हो, काठ कसुंबो महारा लाल.—ए देशी.)

तेहवे त्राता हो सुगुण विख्याता मारा लाल, उत्तम दाता हो कुलना त्राता मारा
लाल ॥ अनुक्रमे तेहने हो संतति आवे मा०, बहुलपणाथी हो कलह जगावे मा० ॥ १ ॥
तव ते चित्त हो तातनी वाणी मा, कलहथी दुःखिया हो आवे प्राणी मा० ॥ ते ज्ञानी ज्ञो-
जन हो जूजूआं कीजे मा०, निज नामांकित हो कलश ग्रहीजे मा० ॥ २ ॥ चित्तमें चित्ते
हो ते समकाले मा०, जूमिथी काढी हो कुंज निहाले मा० ॥ प्रथम कलशमें हो लेखण
खमियो मा०, वलि वलि मोटो हो कागल दमियो मा० ॥ ३ ॥ बीजे कलशे हो दृषदने
माटी मा०, ते पिण देखी हो रह्या जेराटी मा० ॥ त्रीजे कलशे हो हारु ते दीसे मा०, अ
श्वादिकनां हो देखी खीसे मा० ॥ ४ ॥ लघु बंधवने हो कलश सोहावे मा०, आठ सोनानी
हो कोमी कमावे मा० ॥ ते तो राजी हो अयो निज मनमें मा०, ताते दीठो हो गुण मुज
तनमें मा० ॥ ५ ॥ ताम ते त्रिणये हो धनने देखी मा०, बोले बरुवरु हो लाज उवेखी मा०
॥ कलश धरंतां हो तात वरांसो मा०, कुटिलपणाथी हो कीधो हासो मा० ॥ ६ ॥ ए धन

सघलो हो फिरी वहेँचीजे मा० ॥ एहनी वाते हो विलंब न कीजे मा० ॥ तातनो पैशो हो
 सहने सरिखो मा०, पुत्रमें अधिको हो कोय न परख्यो मा० ॥ ७ ॥ तव लघु बोले हो तां
 ते मुजने मा०, ए निधि आपी हो शुं ठे तुजने मा० ॥ तुमचे ज्ञागे हो लेखण पाटी मा०,
 वलि अस्थ्यादिक हो उपलने माटी मा० ॥ ८ ॥ कलह ते जाण्यो हो धनश्री घरमें मा०,
 वात ते चाली हो वधती पुरमें मा० ॥ नाति जातिथी हो समजण नावे मा०, तव ते वढता
 हो नूपपेँ जावे मा० ॥ ९ ॥ नृपति सुणीने हो चित्त विचारे मा०, तात तनुजने हो किम इम
 धारे मा०, मंत्रिने तेनी हो मसलत कीधी मा०, पिण ते वार्त्ता हो कांइ न सीधी मा० ॥
 १० ॥ तेहवे धनपति हो मुजरे आवे मा०, आदर देइने हो नृपति बोलावे मा० ॥ दाखे स-
 घली हो वात ते वीती मा०, न्याय करंतां हो अम मंति ठीती मा० ॥ ११ ॥ तव कहे धनो
 हो चित्त विचारी मा०, तात ते एहनो हो हुशे अधिकारी मा० ॥ स्वामी एहने हो इहां क
 णे तेमो मा०, तुम देखंतां हो करीश निवेमो मा० ॥ १२ ॥ सुणी नृप हरख्यो हो तेह वो-
 लाया मा०, बंधव चारे हो ततक्षण आया मा० ॥ कहे तव धनो हो तुमने जाणी मा०, ता
 ते दीधी हो सदृश कमाणी मा० ॥ १३ ॥ जेहने दीगो हो नामे पोढो मा०, देवे लेवे हो स
 हुथी दोढो मा० ॥ तेहने दीधो हो लेहणो लेखो मा०, वांची वहिमें हो हृदयमें देखो मा०

॥ १४ ॥ व्यापारीने हो मनमें जाणी मा०, गृह क्षेत्रादिक हो जूमि कमाणी माण ॥ धान्य
 प्रमुख पिण हो तेहने दीधो मा०, मृत्पाषाणे हो निश्रय कीधो मा० ॥ १५ ॥ पशु व्यापारी
 हो जाण्यो जेहने माण, गज अश्वादिक हो दीधा तेहने मा० ॥ वडी गो गोकुल हो ते पिण
 कहिये माण, अस्थी देखी हो ते सद्वहिये माण ॥ १६ ॥ लघु सुत जाणी हो तात प्रमाणी
 माण, मन हित आणी हो सकल कमाणी मा० ॥ मंद अज्यासी हो ए न कमासी मा०,
 ते जणी दीधो हो धन सुविलासी माण ॥ १७ ॥ एकेकाने हो धन सुविशेषे मा०, अरु अरु
 माने हो कोनि ते लेखे मा० ॥ जोशो लेखो हो करिने जेहमें मा०, नुंगो अधिको हो कांइ
 न एहमें मा० ॥ १८ ॥ तत्र ते वेठा हो करवा लेखो मा०, दफतर काढी हो सघलो पेख्यो
 माण ॥ व्याजने मेले हो धन सरवालो मा०, आठ कोनीनो हो अयो हवालो मा० ॥ १९ ॥
 घर आपणने हो क्षेत्रने वानी माण, धान्यना कोठा हो वहेलने गानी माण ॥ लेखो तेहनो
 हो कीधो जाणी मा, अठ कोनी धननी हो वहिये लिखाणी माण ॥ २० ॥ एक शत हाथी
 हो अयुत ठे घोडा मा०, एक शत गोकुल हो सबल सजोडा माण ॥ नष्टादिक तिमज हो
 मेल ते कीधो मा०, अरु कोनी धन हो ते अयो सीधो मा० ॥ २१ ॥ हरख्या तत्र चारे हो
 वंधव मनमें मा, नूख्यो सोजन हो जिम लहे वनमें मा० ॥ नृपने प्रणमी हो मंझिर जावे

मा, धनाना गुण हो मनमें ध्यावे मा० ॥ ११ ॥ गुणना रांगी हो सहु को जगमें मा०,
रूना गुणिने हो ग्रहिये वगमें मा० ॥ त्रीजे नडहासें हो ढाल रसीली मा०, ए नगणीशमी
हो जिनने रंगीली मा० ॥ १३ ॥

॥ दोहा. ॥ चारे बांधव चिंतवे, एहनो गुण असमान ॥ ऊरण अइए किये विधे,
एह ठे ज्ञाग्य निधान ॥ १ ॥ लक्ष्मी सम लक्ष्मी अठे, बहिन आपणे एक ॥ दीजे एहने
दिल धरी, ए आपणो विवेक ॥ २ ॥ चिंतीने धनशाहने, शुभ वेला शुभ योग ॥ परणावे
जगिनी प्रते, जाणी सदृश संयोग ॥ ३ ॥ तेहशुं विविध संसार सुख, जोगवे धरि बहु प्रेम
॥ पांचेथी लीनो रहे, पंच सुमति मुनि जेम ॥ ४ ॥

॥ ढाल १० मी. ॥ (प्रणमुं गिरजानंदना.—ए देशी.)

एहवे ते लक्ष्मीपुरे, कृपिक तणो ठे शेट ॥ धनपालाजिध नामथी, धननी करे नित
वेठ ॥ १ ॥ खावे न पीवे नवि देवे, लेवणनी करे वात ॥ सुंबमांही शिरदार ते, अहनिशि
करे पर तात ॥ २ ॥ एहवे एक कोइ याचक, याचवा आव्यो तास ॥ मीठे वचने बोलावि
ने, वेसाख्यो लेइ पास ॥ ३ ॥ कहे याचक सुणो शेटजी, कीजे न दान विलंब ॥ आयुतणी
गति अधिरं ठे, तेह जणी अविलंब ॥ ४ ॥ तव बोड्यो याचक प्रते, देशुं प्रजाते दान ॥ जो

जन व्यंजन ज्ञावतां, तांबूलादि प्रधान ॥ ५ ॥ ऊठी गयो तव याचक, आव्यो प्रज्ञाते गेह
 ॥ कवित गूढार्थ गाहा तस, गुण वर्णन करे तेह ॥ ६ ॥ कहे तव सुं व शिरोमणी, तूं आवे
 परज्ञात ॥ देशुं ज्ञोजन ज्ञावतां, तांबूल युत विख्यात ॥ ७ ॥ तिम त्रीजे दिन आविन, वो
 ले याचक एम ॥ शूं रे कृपण नथी आपतो, ज्ञोजन व्यंजन तेम ॥ ८ ॥ जगमें यश रहेशे
 पिण, नहि रहे तन घन मान ॥ रावण सरिखा राजवी, ते पिण चाळ्या निदान ॥ ९ ॥
 नंदराय धन मेलिने, ज्ञेळ्यो समुद्र मजार ॥ मम्मणशेठने सागर, प्होल्या नरकागार ॥
 १० ॥ दीधुं रहे अविचल थइ, खाधुं खूटी जाय ॥ सापुरिसानुं जीवित, दानथी सफल ग-
 णाय ॥ ११ ॥ देतां देतां पात्रने, धननी थाये वृद्धि ॥ मूलदेव परे ततकृणे, पामे सकल स-
 मृद्धि ॥ १२ ॥ यतः शार्दूलविक्रीणितवृत्तम् ॥ श्री नाज्ञेयजिनेश्वरो धनज्ञवे श्रेयःश्रयामा
 श्रयः, श्रेयांसश्च स मूलदेवनृपतिः सा चंदनानंदना ॥ धन्योसौकृत पुण्यकोगतज्ञवः श्री
 शालिज्ज्ञानिधः, सर्वेप्युत्तमदानमानविधिना जाताजगद्विश्रुताः ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—प्रथम
 तीर्थंकर श्री रूपज्ञदेवस्वामी, ते धनसार्थवाहना ज्ञवमां (घृतनुं दान देवाथी) कल्याण
 रूप लक्ष्मीना घर इता ते, श्रेयांसकुमर, मूलदेव राजा, चंदनवाला, तथा पूर्वज्ञवने विषे
 करयुं वे पुण्य जेमणे एवा आ धनकुंभर अने शालिज्ज्ञकुमर; ते सर्वे पण उत्तम दान अ

ने सन्माने करी जगत्ने विषे विख्यात थया ठे ॥ १ ॥ तव बोल्यो अदातृको, धीरो आ तूं
 धीर ॥ आज रसोई न नीपनी, कार्य विशेषथी वीर ॥ १३ ॥ इम करंते करते तसु, मास
 थयो इक जाम ॥ ताम ते याचक चिंतवे, सुंबनी पारुं माम ॥ १४ ॥ इम चिंतीने जैरवी,
 देहरे वेगो तेह ॥ धूर्त विद्यानो साधन, साधे शुचि करी देह ॥ १५ ॥ कुंरु करी षट कोण-
 नो, हवन करे तिहां खास ॥ जप जपतां इकवीश ते, तास थया उपवास ॥ १६ ॥ चंक्रिका
 ताम प्रगट अई, कहे तुं वृष्ट वर माग ॥ हूं तूठी तुज ध्यानथी, ताहरो महोटो जाग्य ॥
 १७ ॥ तव बोल्यो ते याचक, पय प्रणमी सुविचार ॥ रूप परावर्त्तक मुज, ये विद्या सुख-
 कार ॥ १८ ॥ देवीये कीधी ततकृणे, विद्या तेह प्रधान ॥ ते लेईने याचक, उठ्यो अई साव
 धान ॥ १९ ॥ एहवे ते धनकामिक, ग्रामांतर गयो ठीक ॥ जाणीने धनपालनो, रूप कस्यो
 निरञ्जीक ॥ २० ॥ आव्यो कृपणतणे घरे, ते याचक धरी रूप ॥ पूठे पाठा किम वड्या,
 तुरत तुमे धरि चूप ॥ २१ ॥ तव कहे शुकन थया अति, मुज मध्यम जिलि वार ॥ तिले
 तिहांथी पाठो वड्यो, विचमें मिळ्या अणगार ॥ २२ ॥ देशना वेता देखिने, हूं वेगो मुनि
 पास ॥ अमृत वाणी अति जली, सांजली थयो जडहास ॥ २३ ॥ आयु अशिर अंजली ज
 ल, ऊपम एहने थाय ॥ धन पिण नदीय प्रवाह ठे, कोथथी राख्यो न जाय ॥ २४ ॥ थोव

न संध्या रंग ठे, सुपन सदृश संयोग ॥ रमणी रंग पतंग ते, विष सम विषय संज्ञोग ॥
 २५ ॥ रोगे करिने पूरित, काया अशुचि जंकार ॥ तेहमें दानादिक करे, तेहनो धन्य अव-
 तार ॥ २६ ॥ यतः ॥ शार्दूलविक्रीकृतवृत्तम् ॥ आयुर्वारितरंग जंगुरतरं श्रीस्तूलतुल्य-
 स्थिति, स्तारुण्यं करिकर्ण चंचलतरं स्वप्नोपमाः संगमाः ॥ यद्यन्यद्मणीमणी प्रज्ञृतिकं
 वस्तुंचतञ्चास्थिरं, विज्ञायेति विधीयतामसुमता धर्मस्तदा शाश्वतः ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—आ-
 नखुं पाणीना तरंगनी पेठे अतिशे नाशवंत; लक्ष्मी वणकरना कांठलानी पेठे चपल स्थि-
 तिवादी; तरुणपणुं हाथीना काननी पेठे अतिशे चंचल; कुटुंबीजनो मिलाप स्वप्न तुल्य;
 तेमज स्त्री, मणि अने माणोक विगेरे जे कांई पदार्थ, ते सर्वे पण अस्थिर ठे, एम जाणीने
 प्राणीए शाश्वत एवो धर्म करवो जोइए, ॥ १ ॥ सांजलिने सुज चित्तमें, उपन्यो सबल सं-
 वेग ॥ कृपणपणो हवे गंभवो, मांभवो दानशुं नेग ॥ २७ ॥ ते ज्ञानी आज्ञी कोयने, म-
 त कहेजो नाकार ॥ जे मागे ते तेहने, देजो दान उदार ॥ २८ ॥ तुमे ठो सुपुत्र सोहाम-
 णा, तात वचन प्रतिपाल ॥ देतां धन खूटे नही, जाणजो चित्त विचाल ॥ २९ ॥ आठ को-
 नि धन आपणे, ठे नूमिगत जेह ॥ ते पिण काढी दीजीए, लीजीए लाज अठेह ॥ ३० ॥
 यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ मा मंस्था क्षीयते वित्तं, दीयमानं कदाचनः ॥ कूपाराम गवादी-

धना०
८८

नां, ददतामेव संपदः ॥ ३ ॥ ज्ञावार्थः—हे पुत्र! अपातुं धन कदि पण कीण आय ठे एम तुं
न मान. कारण के कूवामांथी जेम जेम पाणी काठीए ठीए, तेम तेम पाणी वृद्धि पामे ठे,
वगीचामांथी जेम जेम फूलो लेइए ठीए, तेम तेम नवां फूलो आवे ठे अने गायने जेम जेम
दोहिये ठीए, तेम तेम नवुं दूध उत्पन्न आय ठे; ते कारण माटे जेम जेम दान आपीए, तेम
तेम धननी वृद्धि आय ठे. ए तात्पर्यः ॥३॥ तव ते कपट अजाणता, वचन करे सुप्रमाण ॥
दान दिये अह निशि सुदा, राखता चित्त शुद्ध ध्यान ॥ ३१ ॥ असन वसन आज्ञाषण, आ-
पे विविध प्रकार ॥ नाकारो जूली गया, मांड्यो ये ये कार ॥ ३२ ॥ केलेवे कपट जे जा-
णने, ते ठले सुर नर धीर ॥ पिए कोई तेहने नवि लहे, जिम जेढ्यो जल खीर ॥ ३३ ॥
कपट न कीजे कोयथी, इम कहे जिन सुविलास ॥ ढाल थइ ए वीशमी, शुद्ध त्रीजे उ-
लहास ॥ ३४ ॥

॥ दोहा ॥ इम दिन आठ लगे तिले, दीधो अह निशि दान ॥ नाति जाति पोखी
जली, लीधो यज्ञ असमान ॥ १ ॥ ते वार्ता वधती थई, नगर देश पुर गाम ॥ सुंवे ते पि-
ण सांजली, थयो विचम तिले गाम ॥ २ ॥ आव्यो अति ऊतावलो, निज गृहांगण जाम ॥
दीगो प्रतिरूपी तिहां, बेठो ये बहु दाम ॥ ३ ॥ वोढ्यो सुंव रोशे करी, तुं कुण ठे चंमाल

८८

एन सधलो तें माहरो, विणसाड्यो

॥ मुज मंदिरनो पति अइ, वेगो इहां चोसाल ॥ ४ ॥ धन सघलो तें माहरो, विणसाज्यो शे माट ॥ ऊठ ऊठ जा इहां थकी, पकनी कोइक वाट ॥ ५ ॥

॥ ढाल ११ मी. ॥ (धन धन जननी बे लाल.-ए देशी.)

तव ते बोले बे लाल, धूर्त कला करी ॥ माहरे जुवने बे लाल, हुं रहुं दिल धरी ॥ १ ॥ तुटकण दिल धरी हुं रहुं दान देतो, नथी लेतो केहनूं ॥ धन माल मिलकत माहरी जे, जोगवुं सुख तेहनूं ॥ तूं कवण कपटी इहां आयो, घायो स्वानपरे अई ॥ कुल जाति हीणो अठे दीणो, अकल बुद्धि दीसे गई ॥ २ ॥ चाल-सुंवने कपटी बे लाल, बिहुं जेला लमे ॥ पुत्रादिकने बे लाल, शुद्धि न को पमे ॥ ३ ॥ तुण न पमे शुद्धि ते सयण सहुने, तव ते विहुंने काढिया ॥ ते कलह करता मान धरता, वचन बोले गांढिया ॥ तिहां पांच जेला मिल्या समेला, पिण ठराव न को पमे ॥ बहु ग्राम लोको परिवस्था ते, राज दरवारै चमे ॥ ४ ॥ चाल-राजा देखी बे लाल, मूजाई रह्यो ॥ सचिवने एहनो बे लाल, न्याय करवो कह्यो ॥ ५ ॥ तुं कह्यो एहनो न्याय करिये, तो तुम बुद्धि सोहामणी ॥ तव सचिव कहे प्रजु कपटनी मुज, खबर न पमे अति घणी ॥ महादेवने बलिराय सरिखा, राम पिण ठलमें पड्या ॥ जून कपट करीने इंड ते पिण, अहिल्यागं आश्रज्या ॥ ६ ॥ चाल-एहवे धत्रो बे

धना०
७ए

लाल, परिजने परिवस्यो ॥ नृपने देखी बे लाल, आंदर अति कस्यो ॥ ७ ॥ तु० अति क-
 स्यो आदर लही बेगो, सजामें सुर सारिखो ॥ ऊघमंता देखी ते बिहुंने, कियो ततकण पा
 रिखो ॥ तव राय बोले अति अमूलिक, कन्या ठे धनपालनी ॥ जे न्याय करिने सत्य दाखे,
 ते वरे गुणमालिनी ॥ ८ ॥ चाल-तव कहे धनो वे लाल, एहमां शुं अठे ॥ एहने निवेकी
 वे लाल, जिमशुं जइ पठे ॥ ए ॥ तु० पठे जिमशुं ए निवेकी, कही कमल अणावीयो ॥
 ते सुरजिगंधे अतिही सुंदर, देखी सहु मन जावियो ॥ ए कमल मुखथी पेसिने जे, नीस
 रे नाले अई ॥ धनपाल ते सही जाणजो इम, वात धने मुख कही ॥ १० ॥ चाल-तव ते
 कपटी वे लाल, विद्या बल अकी ॥ पेसी मुखथी वे लाल, नीसस्यो ठल अकी ॥ ११ ॥ तु०
 ठलअकी नीसरतो ग्रहो तस, बांधीयो बंधन करी ॥ कहे कपट एतो केम कीधो, विद्या ता
 हरी ठे खरी ॥ तव कहे याचक सुंब मुजने, कदे जोजन नापतो ॥ परजाते जोजन आप
 शुं मुज, उत्तर एहवो आपतो ॥ १२ ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ प्रगेदास्ये प्रगेदास्ये, जोज
 ने जोजस्तवेत्यहं ॥ मासं प्रतारितोऽनेन, कृपणेन महीपते ॥ १ ॥ जावार्थः-हे राजन्! का
 ल सवारे जोजन आपीश, काल सवारे जोजन आपीश, एम कही कही एक महिना स-
 धी धक्का खवरावी ए कृपणे मने ठगयो, तेथी मारे आवुं करवुं परवुं ॥ १ ॥ चाल-तव

७ए

विद्या अजिनवी ॥ १३ ॥ तु०
काज सीधो

में कोपे वे लाल, साधी जैरवी ॥ तिणे मुज दीधी वे लाल, विद्या अजिनवी ॥ १३ ॥ तु०
 अजिनवी विद्या ताम साधी, रूप कीधी एहनो ॥ में दान दीधी लाज लीधी, काज सीधी
 देहनो ॥ सुणी लोक सघलो कहे सारो, काम कीधी इह जवे ॥ सावाश तुजने अहो वांध
 व, सुख लहीश वली परजवे ॥ १४ ॥ चाल-निसुणी धन्ने वे लाल, वंधन ठोफियो ॥ कहे
 नृप तेहने वे लाल, काम जलो कीयो ॥ १५ ॥ तुण कियो जलो तें काम जाई, इम कही
 सनमानीयो ॥ नमि जूपने धन्ना प्रते तव, प्रयाणो तेषो कीयो ॥ धनपाल तव संतोष पा-
 म्यो, वान्यो दुःख दिलयो सवे ॥ घर रुद्रि सारी सबली वधारीश, जीवतो तुं जो हवे ॥
 १६ ॥ चाल-परिजन साथे वे लाल, परिवृत आवियो ॥ स्त्री सुत सहने वे लाल, मनमें
 जावियो ॥ १७ ॥ तु० जावीयो ते कहे सुणो सजनो, धन्ने उपकृति मुज करी ॥ माहरी
 ए सयल लीला, एदृशी में अनुसरी ॥ ते जणी एहने दिवें पुत्री, राये पिण जांखयो अगे ॥
 नवि दीजीये तो वल करीने, राय देवरावे पठे ॥ १८ ॥ चाल-इम चिंती वे लाल, धन्नाने
 तदा ॥ दीधी कन्या वे लाल, धरी मनमें सुदा ॥ १९ ॥ तु० धरी मनमां हर्ष अधिके, पर-
 णावी गुणमालिका ॥ लक्षणे रूमी नही कूमी, सासती कुलवालिका ॥ उच्चाह रूमा ते स
 जोमा, हुआ अधिका हेजथी ॥ शामा सुरंगी दृगकुरंगी, शोन्नती पियु तेजथी ॥ २० ॥ चा

ल-पूरव पुण्ये वे लाल, धन्नो सुख वरे ॥ राजा मंत्री वे लाल, हित अधिको धरे ॥११॥ तु
हित धरे अधिको स्नेह साचो, काचो नही कोइ वातथी ॥ एक कनकने वलि सुरज्जिवासे,
ते लहे यश जातिथी ॥ तिम बुद्धि पाइ वली जमाई, गुणे गौरवता लहे ॥ त्रीजे नल्हासे
वीशने इक, ढाल ते जिन इम कहे ॥ ११ ॥

॥ दोहा. ॥ हवे धन्नो सुख जोगवे, पट कामिनीथी खांति ॥ धरएँडादिकने जिशी,
षट इंजाणी पांति ॥ १ ॥ चिंते चित्तमें तव चतुर, जइए मगध मजार ॥ मिलिये श्रेणिक
रायने, रहिये निज आगार ॥ २ ॥ ग्राम सकल संज्ञालिये, गज अश्वादिक तेम ॥ सरवे
सीदाता हुशे, कंत विना स्त्री जेम ॥ ३ ॥ कुसुमपालादि सयण सवि, जोता हुशे बहु वाट
॥ दयिता वे दिलगीर ते, करती हुशे उचाट ॥ ४ ॥ इम चिंतीने नृपतणी, मागे धन्नो शी
ख ॥ नृप सचिवादिक ताम ते, बोले सवि सरीख ॥ ५ ॥

॥ ढाल ११ मी. ॥ (जरत नृप जावशुं ए.-ए देशी.

करजोमी धनपति प्रते ए, राजादिक कहे एम ॥ सुणो तुमे शुज्ज मतिथे ॥ अमने अ-
वहेली करी ए, प्रीत नतारो गो केम ॥ सु० ॥१॥ ए आंकणी. ॥ प्रीति वंधाणी तुम अकी ए,
जेहवी जलने मीन ॥ सु० ॥ तुम गुण अम मनमे वश्या ए, पंकज जिम जल लीन ॥ सु०

॥१॥ अम ज्ञान्य आवी मिट्या ए, तुम बुद्धिपात्र सुजाण ॥ सु० ॥ शीख अमे किम आपीए
 ए, तुम अम जीवन प्राण ॥ सु० ॥ ३ ॥ धनो कहे स्वामी सुणो ए, अमे व्यापारी लोक ॥
 सु० ॥ काम घणो अम मंदिरे ए, लेहणां देहणां रोक ॥ सु० ॥ ४ ॥ ते कीघा विए किम
 चले ए, जोवो हृदय विचार ॥ सु० ॥ वलि मिलवाने आवशुं ए, जो ठे तुमचो प्यार ॥ सु०
 ॥ ५ ॥ लव नृप प्रमुख धनाप्रते ए, आपे बहुली आथ ॥ सु० ॥ वहेल सुखासन पालखी
 ए, गज रथ घोमा साथ ॥ सु० ॥ ६ ॥ चाल्या धनोशाहजी ए, सहशुं करीने शीख ॥ सु०
 ॥ बोलावी साजन वड्या ए, साश्रुत लोचन सरीख ॥ सु० ॥ ७ ॥ सवल सेनाशुं परवश्यो
 ए, कामिनी पट संयुत्त ॥ सु० ॥ अनुक्रमे राजगृही प्रते ए, सुख विलसंतां पदुत्त ॥ सु० ॥ ८ ॥
 राजा श्रेणिक हरखिया ए, करे नञ्जव अति चंग ॥ सु० ॥ सेना शिणगारी करी ए, नेजा
 नव नव रंग ॥ सु० ॥ ९ ॥ आरुंवरथी आणीया ए, धनाने आवास ॥ सु० ॥ सुसरा सासु
 सवि मित्या ए, सहनी पूगी आश ॥ सु० ॥ १० ॥ सोमश्री नृप पुत्रिका ए, कुसुमश्री तेणी
 वार ॥ सु० ॥ प्राणेश्वर प्रीतम प्रते ए, आवी करे मनोहार ॥ सु० ॥ ११ ॥ सुकुलीणी सोहाम
 णी ए, सतीयोमें शिरदार ॥ सु० ॥ आपद आवे सासरो ए, गंड्यो नहीय लिगारा ॥ सु० ॥ १२ ॥
 पारखे पद्दोती पदमिणी ए, ते गुण चित्तमें धारि ॥ सु० ॥ आठेमां अधिकारिणीए, आपी
 सुन्नज्ञ नारि ॥ सु० ॥ १३ ॥ आठे कामिनी नृपति ए, कमला सम गुणखाण ॥ सु० ॥ को

मल सुखी कोमल वदे ए, पामी पुण्य प्रमाण ॥ सु० ॥ १४ ॥ जित कासी धनो थयो ए,
 बुद्धिगो जंमार ॥ सु० ॥ देव तणां सुख जोगवे ए, मानवने अवतार ॥ सु० ॥ १५ ॥ दान
 दिये दोलत करी ए, परिघल परमानंद ॥ सु० ॥ शील यथाशक्तें करी ए, पाळे ते सुखकंद
 ॥ सु० ॥ १६ ॥ देवार्चन करे दिल धरी ए, राखे रूयमो जाव ॥ सु० ॥ श्रेय न राखे कोय
 श्री ए, सहुश्री सरल स्वजाव ॥ सु० ॥ १७ ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम् ॥ जिनपूजनं विवेकः, सत्यं
 शौचं सुपात्रदानं च ॥ महिमाक्रीडागारं, शृंगारः श्रावकत्वस्यः ॥ १ ॥ जावार्थः—जिनपू-
 जन, विवेक, सत्य, पवित्राऽपणुं, सुपात्रने दान आपवुं अने महिमा एटले प्रतिष्ठा एज जेने
 क्रिमानुं घर ठे, तेज श्रावकपणानो शरणार ठे ॥ १ ॥ दान कळपद्रुम रासनो ए, ए त्रीजो
 उडहास ॥ सु० ॥ बावीशे ढाले करी ए, विरच्यो ए सुप्रकास ॥ सु० ॥ १८ ॥ श्री विजय-
 सिंहसूरीशना ए, सकल विबुध शिरदार ॥ सु० ॥ गजविजयान्निध गुण निलो ए, आगम
 अर्थ जंमार ॥ सु० ॥ १९ ॥ तस सेवक पंमित जला ए, तार्किकशास्त्र प्रवीण ॥ सु० ॥ हि
 तविजय गुरु गुण वस्था ए, समता रत्न लयलीन ॥ सु० ॥ २० ॥ तास चरण प्रसादश्री ए, ए
 कीधो अज्यास ॥ सु० ॥ जिनविजय कहे युगतिशुं ए, पुण्ये लील विलास ॥ सु० ॥ २१ ॥
 इति श्रीधनशालिचरित्रेपाकृतप्रबंधेदानकळपद्रुमाख्येतृतीयशाखारूपधनशाहसकलार्थ
 सिद्धिसाधनवर्णनोनामतृतीयोल्हासः समाप्तम् ॥ अस्मिनोल्हासे ढाल ॥ २१ ॥

१४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥
 कामित सवि आवी मि-
 तनी वां

॥ उल्लास ४ थो ॥

॥ दोहा. ॥ श्री संखेश्वर समरते, लहिये लखमी ज्योय ॥ कामित सवि आवी मि-
ले, सयल सिद्धि संयोग ॥ १ ॥ शारद श्री गुरु संघने, प्रेमे करुं प्रणाम ॥ वचनाश्रुतनी वां
वना, पूरो मुज हित काम ॥ २ ॥ चोथो चतुरपणे करी, रचुं उल्लास रसाल ॥ एक चित्त
अइ सांजलो, श्रोता सवि नजमाल ॥ ३ ॥ धनोशाह राजगृहे, रहे ते आणंद पूर ॥ हवे ते
अन्नयकुमारनो, कहुं संवंध सनूर ॥ ४ ॥ वेइया कपट प्रयोगथी, चंरुप्रद्योतन पास ॥ रहे
अन्नय निर्जय थकी, मासीने आवास ॥ ५ ॥

॥ ढाल १ ली. ॥ (देशी रसियानी.)

चंरुप्रद्योतन मालव महिपती, रुद्धि समृद्धे रे पूर्ण ॥ विराजे ॥ खागे त्यागे जोगे आ
गलो, दीसे दूजो रे कर्ण ॥ दिवाजे ॥ सुणजो साजन, कौतुकनी कथा ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥
सांजलतां सुख थाय ॥ सवाई ॥ समकित पिण निर्मल वधतो हुवे, डुरित तिमिर भिट जा
य ॥ जलाई ॥ सु० ॥ २ ॥ चार रतन तेहने स्वाधीन ठे, पुण्यवले परधान ॥ सदाई ॥ रा
णी शिवादेवी चेटक पुत्रिका, शियलनी परम निधान ॥ सखाई ॥ सु० ॥ ३ ॥ लोहजंघा नामे
तस इक प्रेष्य ठे, गमन करे शत कोप ॥ मही तेण ॥ अग्निजिरू रथ अग्निये नवि वले, चाले ते

निर्दोषासही तेण॥सु०॥४॥ अनलगिरी नामा गज उपतो, ए चारे तस रत्न ॥सनूरां॥ राज्य
 मंमाण ए चारे जाणीने, करे तस सुपरें रे यत्न ॥ ते पूरां ॥सु०॥५॥ एक दिन लोहजंघो दू
 ताग्रणी, पहेत्यो जरुअच ठाम ॥ सवाई ॥ तव तिहांना नूपादिक चिंतवे, एह विगामे ठे
 काम ॥सदाई॥सु०॥६॥ एहने विष देईने मारीए, तो हुवे शांति संयोग ते ॥ अमने ॥ इम
 चिंती विषमिश्रित लाडूआ, चार दिया करी योग ते ॥ तेहनो ॥ सु० ॥ ७ ॥ लेख लेई लोह
 जंघो चालीयो, प्रहरमें कोष पचास ॥ प्रयाणे ॥ खावा बेठो लाडू जेहवे, शुकन करे तस
 रीस ॥ ते जाणे ॥ सु० ॥ ७ ॥ विण खावे वलि कोष पचास ते, चालीने कोइ ठाम ॥ तिवारे
 ॥ खावे लाडू तव शुकने वली, वज्यो चाल्यो ते ताम ॥ विचार ॥सु०॥८॥ इम चारे लाडू
 खाते अके, शुकन थया नही तास ॥ किवारे ॥ संध्या समये उज्जयिनी प्रते, पहेत्यो तेह
 आवास ॥ तिवारे ॥ सु० ॥ १० ॥ प्रत्यूषे नूपतिने जेटीने, जांष्यां कार्य अशेष ॥ ते पूरां ॥
 मोदक देखाड्या मन मोदगुं, अनि सुंदर सुविशष ॥ सनूरां ॥ सु० ॥ ११ ॥ स्वामी मुजने
 मोदक जकते, शुकन थया अति हीन ॥ तिवारे ॥ तेहनो कारण शो हुशे ते कहे, बुद्धि
 वले सुप्रवीन ॥ इवारे ॥ सु० ॥ १२ ॥ चंरुप्रद्योत ते मोदक लेयने, पूठ्यो अन्नयकुमार ॥
 सोडाहे ॥ निरखी अन्नय कहे एहमें थयो, दृगविष सर्प प्रचार ॥ ए मांहे ॥सु०॥१३॥तेह परी

ए२

जे वेशे ॥ आतप योगे रे नाग प्रगट हुशे, दृष्टे द-
 ते मद्धि तिम थयो, हरख्यो चंरुप्र-
 ॥ इवारे ॥ सु०

का करवा कारणे, मूको वनमें रे एह ॥ ते लैई ॥ आतप योगे रे नाग प्रगट हुशे, दृष्टे द-
 हशे रे तेह ॥ सचेई ॥ सु० ॥ १४ ॥ जिम कह्यो तिमं १ करते सहि तिम अयो, हरखयो चंरुप्र-
 द्योत ॥ तिवारे ॥ कहे तूं श्मोचन विण श्वर जे रुचे, माग तूं मनमें उद्योत ॥ इवारे ॥ सु०
 ॥ १५ ॥ अज्ञय कहे वर ए जंनारमें, राखो धसंप्रति काल ॥ राजेसर ॥ ढाल ए पहिली
 चोप्रा उट्हासनी, कही जिनविजये रसाल ॥ वालेसर ॥ सु० ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ ह्वे ते चंरुप्रद्योतनी, कुमरी रूप निधान ॥ वासवदत्ता नामथी, नृपति
 तणो बहु मान ॥ १ ॥ कलाच्यास कीधो घणो, अध्यापकने पास ॥ गीत नृत्य शीखाववा,
 अवरनी करे तलास ॥ २ ॥ पूठ्यां मंत्रीने तदा, कोइ न ज्ञांखे जाम ॥ अज्ञयकुमर कहे रा
 यने, जो तुम विद्या काम ॥ ३ ॥ उदयन कुमर कला निलो, राय सतानिक नंद ॥ गीत
 नृत्य वाजिंत्रमें, कोविद जिभ नज्ज चंद ॥ ४ ॥ ५धोषवतीना ६धोषथी, वश कीधा वन ना
 ग ॥ ते आवे जो इहां कणे, तो सही पाठक लाग ॥ ५ ॥ सांजली चंरुप्रद्योत तव, लोहजं-
 घने हेव ॥ लेख लिखीने पाठवे, कोशंवी ततखेव ॥ ६ ॥ उदयनने कागल दियो, वांची प्र-

१ वनमां जई मोदक उपर पाणी रेम्युं एटले थोमी वारमां समूहिन नाग प्रगट थयो. २ मूक्या
 विना. ३ वचन. ४ हालमां. ५ वांसलीना. ६ स्वरथी.

ह्यो उदंत ॥ पुत्रीने पाठण ज्ञणी, तेन्नावे मुज तंत ॥ ७ ॥ सचिव कहे स्वामी सुणो, तुम
ने जावो तत्र ॥ न घटे ते ज्ञणि कन्यका, तेन्नावो तुमे अत्र ॥ ८ ॥ जूधवने पर मंदिरे, रहे
तां लघुता होय ॥ तेज हीन जिम शशि हुवे, रवि मंजुलमें जोय ॥ ९ ॥ यतः ॥ मालिनी
वृत्तम्. ॥ उडुगण परिवारो नायकोप्योषधीनां, अमृतमय शरीरः काति नाढ्योपिचंड ॥ ज
वति विकलमूर्तिर्ममलं प्राप्यज्ञानोः, परसदन निविष्टः को न धत्ते लघुत्वं ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—
ताराजुनो समूह ठे परिवार जेनो; औषधियोनो नायक; अमृतमय ठे शरीर जेनुं अने कां-
तिवने जरेलो एवो य चंड पण, सूर्य मंजुलने पामीने विकलमूर्ति एटले तेजहीन थाय ठे.
ते कारण माटे, हे कुमर! पर घरने विषे रहेला कोण कोण लघुताने नथी पामता? अर्था
त् सर्वे पामे ठे. ॥ १ ॥

॥ ढाल २ जी. ॥ (देशी मोतीमानी.)

उदयन कहे ते हुत्तने बाणी, चंरुप्रद्योतनी वात में जाणी ॥ सांजलो गुण रागी हमा
रा, सोहना सुखसंगी ॥ ए आंकणी ॥ वासवदत्ता पुत्री तमारी, ज्ञणवा मूकजो अम घर
सारी ॥ सां० ॥ १ ॥ नीशाले ज्ञणवा सह आवे, पिण पाठक पर घर नवि जावे ॥ सां० ॥
चाढ्यो ते दूत ततकाल, पहोत्यो तुरत उज्जयिनी विचाल ॥सां०॥१॥ चंरुप्रद्योतन आगल

ज्ञासे, उदयन कुमरनी वात प्रकासे ॥ सां० ॥ निसुणी खीज्यो मालव राय, अज्ञयकुमरने
 पूठे उपाय ॥ सां० ॥ ३ ॥ उदयन क्लिण रीते इहां आवे, अज्ञयकुमार उपाय बतावे ॥ सां० ॥
 वस्त्रतणो इक हाथी कीजे, पट्टादिक तस बांधी लीजे ॥ सां० ॥ ४ ॥ अज्ञयंतर तस पुरुष
 रखावो, वात सकल तेदने समजावो ॥ सां० ॥ वनमांहे गज रूपे फिरशे, तव ते गज ग्रंही
 वा चित्त धरशे ॥ सां० ॥ ५ ॥ वीण वजारतो आवे जिवारे, आणजो ग्रहीने तेह तिवारे ॥
 सां० ॥ सांजली चंरुप्रद्योतन हरखयो, अज्ञयकुमरने कोविद परखयो ॥ सां० ॥ ६ ॥ विषद
 पुरुषने काज ज्ञायायो, जिम कस्यो तिम गज रूप वनायो ॥ सां० ॥ वनमांही फिरे क्रीडा
 करतो, देखी वनचर मन सुख धरतो ॥ सां० ॥ ७ ॥ उदयनने गज वात जणावे, ते पण प्र-
 ह्निवा वनमां आवे ॥ सां० ॥ वाई वीण विशेष करीने, तव गज चाले कपट धरीने ॥ सां० ॥
 ८ ॥ एकलो उदयन वांसे आवे, गजरूपथी १जट नीसरी धावे ॥ सां० ॥ ग्रही उदयनने अ-
 वंती आय्यो, चंरुप्रद्योते अज्ञय वखाण्यो ॥ सां० ॥ ९ ॥ तेही उदयनने कहे राय, में तु-
 जने ग्रह्यो करिय उपाय ॥ सां० ॥ माहरे वैर विरोध न तुजशुं, छेष म धारे मनथी मुजशुं
 ॥ सां० ॥ १० ॥ माहरे तो तूं पुत्रने तोले, मृगावतीए सोप्यो ठे खोले ॥ सां० ॥ पिण तूं तेमा-

व्यो नवि आव्यो, तव में एहवो दाव उपायो ॥सां० ॥ ११ ॥ वासवदत्ता ठे मुज बेटी, सक
ल कला ते गुणनी पेटी ॥ सां० ॥ तेहने गीत कला देखावो, सुपरे घोषवती शीखावो ॥
सां० ॥ १२ ॥ मासी तुमारी शिवादेवी राणी, रहेजो तिहां निर्जय सुख जाणी ॥ सां० ॥
इम आलिंगन देई ज्ञांखे, नदयनशुं हित नृप बहु राखे ॥ सां० ॥ १३ ॥ ठल मांही कहे उ-
दयन सुणजे, एक वचन मुज साचो गणजे ॥ सां० ॥ कन्या काणी ठे ते माटे, वदन वि-
लोकन करतां न खाटे ॥सां० ॥ १४ ॥ परिचय अंतर राखी ज्ञणावो, वीणा नाद सुपरें ज-
णावो ॥ सां० ॥ बेटीने कहे पाठक कोठी, तूं ज्ञणजे सुखे अंवर न्ठी ॥ सां० ॥ १५ ॥ जो
तेहनूं मुख देखीश बाई, तो तुजने रोग विलगशे धाई ॥ सां० ॥ इम अन्योन्ये शीखवे जू-
प, बंधावे परियच धरी चूप ॥ सां० ॥ १६ ॥ नदयन उद्यमथी शीखावे, वीणा प्रमुख कला
वरदावे ॥सां०॥ बीजी ढाल ए चोथे नडहासैं, कहे जिन दान कल्पद्रुम रासे ॥सां०॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ वासवदत्ता विनयथी, पठन करे नितमेव ॥ शीखे वीणानी कला, होंश
धरीने हेव ॥ १ ॥ एक दिवस पठते थके, चूकी वार बे चार ॥ तव रोपे नदयन कहे, काणी
फिरी संझाल ॥ २ ॥ सांजलिने मन चिंतवे, काणी मुज कहे केम ॥ फिरी जब काणी ते
कहे, तव बोली सा एम ॥ ३ ॥ रे रे कुष्टी मुज ज्ञणी, कूनो आल म ज्ञांख ॥ हूं वुं नयन

सुलोचना, कठिन वचन मत दाख ॥ ४ ॥ उदयन कहे तें शा वती, कुष्टी जांखयो मूज ॥
पिण एतो ताहरे पिता, कपट देखाड्यो गूज ॥ ५ ॥

॥ ढाल ३ जी. ॥ (पीठोलांरी पाल, आंवा दोइ राजला मारा लाल.—ए देशी.)

वासवदत्ता वस्त्र करे तव वेगलो मारा लाल, दीगो रूप अनूप कुमरनो अति जलो ॥
मारा लाल ॥ अन्योन्ये अइ प्रीति नयनथी निरखतां माण, जाणीए दंपति दोय सदा आंगें
हतां मा० ॥ १ ॥ यतः ॥ नयन पदारथ नयन रस, नयने नयन मिलंत ॥ अणजाण्या शुं
प्रीतनी, पहिली नयन करंत ॥ १ ॥ आपणने अन्योन्य रखे अंतर पणे मा०, करीये गुप्त वि
चार रखे कोइ मुख चणे मा० ॥ वासवदत्ता वेगे कहे तव कुमरने माण, माहरे तूं जरतार
वरुं नही अवरने मा० ॥ २ ॥ चार कलश धरी चंग वस्थां ते दपती माण, ते वे सुखमय
काल गमावे शुभ मती मा० ॥ गुप्तपणे सुख जोग संयोग सेवे रली मा०, पूरव पुण्य सं-
योग वंठित आशा फली माण ॥ ३ ॥ एहवे अनलगिरी तोनी आलान मदे करी मा०, विफ
स्यो करे विनाश हणे नरने तुरी मा० ॥ सागरमें जिम पोत जमे पवने चड्यो माण, तिम
ठोनी निज ठाम जई वनमें पड्यो मा० ॥ ४ ॥ चंद्रप्रद्योतन वात वेगे जव सांजली मा०,
वूड्यो अनलगिरी आज ग्रहे कडो कुण वली माण ॥ माहारा राज्यनो सार जीवन सम ए

धना०
ए५

अठे मा०, गज अश्वादि अनेक सवे इणथी पठे मा० ॥ ५ ॥ पूठे अन्नयने ताम प्रद्योत पा-
लव धरी मा०, कहो कोइ अवल उपाय ज्युं वश आवे ?करी मा० ॥ अन्नय कहे श्ववरा-
ज वीणाना नादथी मा०, वासवदत्ता संग धरी शुद्ध सादथी मा० ॥ ६ ॥ ए वश्य आणशे
शनाग ते ठागपरे ग्रही मा०, दीधो नृप आदेश कुमरने तव वही मा० ॥ ४ अन्नइवंतीए वेग
चढ्यां दोय दीपतां मा०, तटनी तीरे ताम गयां ते जीपतां मा० ॥ ७ ॥ वाई वीण विशेष
अशेष कला करी मा०, गावे सरले साद आलापे फिरी फिरी मा० ॥ नादे मोह्या कुरंग सु
रंग सांजले मा०, जोगी पिण स्वर विद्ध अनेक आवी मिले मा० ॥ ८ ॥ तेह अनल गजरा
ज सुणी स्वर वीणनो मा०, मृगपरे आव्यो तत्र सुणे थइ इक मनो मा० ॥ वश्य करी वड्ड
राज ग्रह्यो मृगनी परे मा०, ५ वेगवतीने केम फिरावे त्युं फिरे मा० ॥ ९ ॥ गातो गीत सुरंग
वजामतो वीणने मा०, लेइ आव्यो गजराज ते प्रद्योतन कने मा० ॥ वांध्यो आलानअंज
अचंज ते ऊपन्यो मा०, अन्नय अकी गुण राग वध्यो तव जूपनो मा० ॥ १० ॥ मूक्या वि
ण वर माग मालवपति कहे हसी मा०, देखी बुद्धि अनूप अयो हुं अति खुशी मा० ॥ अ-

१ हाथी. २ वड्डदेशना राजा संतानिकनो पुत्र उदयन कुमर. ३ हाथी. ४ हाथणी ऊपर,
५ वेगवती हाथणीनी पुंठे.

ज्ञय कहे जंमार ए वर बीजो अयो मा०, उदयन पिण प्रस्ताव लही स्त्री लेइ गयो मा० ॥
 ११ ॥ एहवे अवंतोमांही अनलज्ञय ऊपन्यो मा०, प्रतिदिन बाले गेह ए अनरथ नीपन्यो
 मा० ॥ पूठयो अज्ञयकुमार उपाय कहे वही मा०, अग्निनो औषध अग्नि कह्यो ठे ते सही
 मा० ॥ १२ ॥ साहमी करवी अग्निसे अग्नि हुवे यदा मा०, अज्ञयनो वचन प्रमाण करी
 १कीधी तदा मा० ॥ जुलाणी ते आग लागी नही तेहथी मा०, बुद्धि वखाणी राय दियो व
 र नेहथी मा० ॥ १३ ॥ मूक्या विण ते जाणी जंमार ते तव धर्यो मा०, त्रीजो वर तिणे
 गाय अज्ञयकुमरे वर्यो मा० ॥ दैवप्रकोपे रोग अवंतीमें थयो मा०, पूठयो अज्ञयकुमार
 तिवारे उत्तर लह्यो मा० ॥ १४ ॥ जे स्त्रीथी तुम नेत्र गले अवलोकतां मा०, तेहने हाथे पिंरु
 देवारो बलि ठतां मा० ॥ राजाये स्त्री सातसैं सवि जेली करी मा०, मांसी जोवे दृष्टि सह
 थी फिरी फिरी मा० ॥ १५ ॥ अनमिष नयनं विकार रह्यो नही केहनो मा०, चेमा पुत्री
 ताम शिवा नाम जेहनो मा० ॥ सतीयोमें शिरदार वीरे जे मुखे कही मा०, अनमिष न
 यनथी तेह आगल ऊज्जी रही मा० ॥ १६ ॥ राजानी गली दृष्टि ते रामा आगले मा०, तव
 कहे ए बलिपिंरु दियो जइ जागले मा० ॥ दीधो बलि ततकाल उपड्व सवि गयो मा०,

१ चक्रमकनी अग्नि करी ते शुद्ध तंत्रना योगथी अएली अग्नि शांति पामी.

सतीयना शीयल प्रजावश्री सहने सुख अयो मा० ॥ १७ ॥ माग माग वर मुज मूक्या वि-
ण तूं हवे मा०, तव ते अन्नयकुमार विचार ते संजवे मा० ॥ त्रीजी ढाल रसाल ए चोआ
नलहासनी मा०, कही जिनविजये जोय कल्पद्रुम रासनी मा० ॥ १८ ॥

॥ दोहा. ॥ कहे अन्नय बुद्धि केलवी, मेलवी चित्त विचाल ॥ चारे वरनुं सार ए,
कहुं ते सुणो ज्ञूपाल ॥ १ ॥ चय खरुकावो चोकमें, अग्निजीरू रथ ज्ञांजि ॥ अनल गजेंडे
हुं चहुं, शिवा उहंगे आज ॥ २ ॥ तं बेसे वांसे अइ, अम नपर धरि ठत्र ॥ चयमें जइने
लीजीए, अग्निदाघ एकत्र ॥ ३ ॥ ज्ञूधव शिर धूणी रह्यो, वयण न वाढ्यो जाय ॥ करजो
नी कुमर प्रते, हास्यो हूं कहे राय ॥ ४ ॥ तव बोढ्यो धीरज धरी, अन्नय कहे सुण ज्ञूप ॥
धर्म ठगाई तें करी, पकड्यो मुज धरी चूप ॥ ५ ॥ जिनशासन मेलो कस्यो, लोपीने कुल
लाज ॥ आज पठी हवे एहवो, करवो नही अकाज ॥ ६ ॥ पिण मुज देख पटंतरो, त्रस
व्यो ठे शक वार ॥ पिण वली जोजे पारखुं, पकडूं बीजी वार ॥ ७ ॥ बांधी मुसके तुज
प्रते, देतो दंरु प्रहार ॥ लेई जाऊं सह देवतां, तो हूं अन्नयकुमार ॥ ८ ॥ शीख करी मा-
सी प्रते, नृपशुं करी जुहार ॥ शुज वेला साधी करी, चाढ्यो निज आगार ॥ ९ ॥

॥ ढाल ४ थी. ॥ (ठेनो नांजी.—ए देशी.)

अन्नयकुमर परिवारे परिवृत, मगधदेशमें आवे ॥ पुत्रागमन सुणीने श्रेणिक, हरखे
 साहमो जावे ॥ अचरिज देखो देखो, देखो रे अचरिज देखो ॥ एहने पुण्यतणो नही ले
 खो, अचरिज देखो रे ॥ लह्यो जश जगमें सुविशेषो ॥ अ० ॥ तुमे ज्ञान नयनथी पेखो ॥
 अ० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ अन्नयकुमर निज तात लहीने, हर्षोल्लसित तव आवे ॥ प्रणमी
 प्रेमे तात चरणने, विनय बचन संजलावे ॥ अ० ॥ २ ॥ ताते हृदय संग्राथे ज्ञानी, उहंगे
 बेसाख्यो ॥ एता दिननो विरह तणो दुःख, कृण एक मांही विसाख्यो ॥ अ० ॥ ३ ॥ आरुं
 वरश्री अन्नयकुमरने, नगर प्रवेश करावे ॥ श्रेणिक राजा अति मन हरखे, नंदा तिमं सुख
 पावे ॥ अ० ॥ ४ ॥ नंदिषेण मेघादिक बांधव, आवी मिलिया वेगे ॥ शेर सेनापति सचिव
 सकल पिण, मिलवा आवे नेगे ॥ अ० ॥ ५ ॥ दिन केताइक विचमें गाली, पूरव वात सं-
 जाले ॥ अन्नयकुमर वणजारा वेषे, पोठ लेहने चाले ॥ अ० ॥ ६ ॥ पांच सात घोडा अति
 ताता, उंट बे चार अटालो ॥ १ विमल नाम वणजारो अइने, आव्यो अति उजमालो ॥
 अ० ॥ ७ ॥ आहे आहे करतो पोठे, गुण संजाली लेवे ॥ उज्जयिनीने चोके आवी, मेरा तंबु
 देवे ॥ अ० ॥ ८ ॥ नृपने जेट देईने मिलीयो, विनय अकी मन व्यापे ॥ राय प्रसन्न अइ

१ बालावबोधवाला महोटा चरित्रमां आ ठेकाणे अन्नयचंद्र वणजारो नाम ठे.

निज मंदिर, पासो स्थानक आपे ॥ अ० ॥ ए ॥ मेरा तंबू तिहां आरोप्या, मालना गंज ते
कीधा ॥ व्यापारीने देई क्रियाणां, दाम रोक तस लीधा ॥ अ० ॥ १० ॥ विकलैडिय एक
नर निपजाव्यो, पाठ जणावी ठामे ॥ ते कहे हूं मालवनो महिपति, चंरुप्रद्योतन नामे ॥
अ० ॥ ११ ॥ ए सधला ठे अमचा सेवक, राणी सर्व अमारी ॥ हय गय रथ पायक सवि
अमचा, प्रजा प्रमुख निधि सारी ॥ अ० ॥ १२ ॥ तव ते बांधी मारे तेहने, रे मूरख शूं वो
ले ॥ ते राजा मालवनो महिपति, तूं गहिलो तृण तोले ॥ अ० ॥ १३ ॥ इम प्रतिदिन करतो
ते नगरे, सधले ग्रथिल ते जाण्यो ॥ एक दिवस संध्या समये तव, जेद करण चित्त आ-
ण्यो ॥ अ० ॥ १४ ॥ गणिका बेने गुप्त जे आणी, इंझाणी सम पोते ॥ ते पासे तव नृत्य
करावे, चंरुप्रद्योतन जोते ॥ अ० ॥ १५ ॥ देखो रूप ते गणिका केरो, चंरुप्रद्योतन चूक्यो ॥
दूती मेली वात करावी, लाहो ल्यो आजूको ॥ अ० ॥ १६ ॥ तव ते बोली अमे तो नावूं,
खप होय तो इहां आवे ॥ पिण अम स्वामी कार्य विशेषे, जव ते बाहिर जावे ॥ अ०
॥ १७ ॥ दूतीए जइ वात जणावी, चंरुप्रद्योतन हरख्यो ॥ समय जोइने मेरे पेठो, अन्न-
यकुमारे निरख्यो ॥ अ० ॥ १८ ॥ रात्रि प्रहर जाते तस बांधी, ऊपर मार ते देते ॥ रथमें
घाली खेरो चाड्या, मुखप्री शब्द कहे ते ॥ अ० ॥ १९ ॥ चंरुप्रद्योत कहे हूं राजा, सुजने

ए लेइ जावे ॥ शेठ सामंत सवि सज्ज अइने, मूकावो वरुदावे ॥ अ० ॥ १० ॥ सहु को सांज-
 ली चिंते मनमें, एह तो गहिलो बोले ॥ कपट तणो तो कोय न जाणे, कपटे सघला जूले
 ॥ अ० ॥ ११ ॥ ग्राम ग्रामथी अश्व पालटी, आव्या तुरत निज देशे ॥ श्रेणिकने वधामणी
 पहोती, आव्या अजय सुवेषे ॥ अ० ॥ १२ ॥ अजयकुमर प्रद्योतनने तव, तातने पाय ल-
 गामे ॥ वचन कह्या माटे में तुजने, आयो इणे आ खामे ॥ अ० ॥ १३ ॥ आज पठी को
 इ राजा साधे, वैर म करशो जाई ॥ इम कही मालवपतिने वेगे, पहोचायो चित लाई ॥
 अ० ॥ १४ ॥ वैर विरोध सहूथी जांज्या, अजये बुद्धि प्रकारे ॥ चोथी ढाल चोथे उल्हासे,
 कही जिन मति अनुसारे ॥ अ० ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ अजयकुमर वंठित फलयो, बुद्धिकी सुप्रमाण ॥ श्रेणिकनी चिंता
 टली, दिन दिन कोमी कडयाण ॥ १ ॥ कहे नृप सांजल अजय तुं, तुज विण सहु मूजाय
 ॥ न्याय नीति करवी पमे, पिण ते क्णिणही न आय ॥ २ ॥ सेचन गज बूढ्यो इतो, पाड्यां
 घरने हाट ॥ वाट बिगामी नगरनी, अमने थयो उचाट ॥ ३ ॥ पिण धनोशाह तेहवे, आ
 व्या आपणे काम ॥ हाथी पकमी बांधियो, मोटी राखी माम ॥ ४ ॥ काणाथी ऊघनो प
 ड्यो, गौजइशेठने हेव ॥ न्याय कियो नरपति परे, ठग चाढयो ततखेव ॥ ५ ॥ बीजां प-

ए बुद्धे करो, काम समाख्यां क्रोम ॥ अवर कोइ आवे नही, जोतां एहनी जोम ॥ ६ ॥
साहसिक सुकुलीन ए, जाग्यवंत जरपूर ॥ जुजावले सुख जोगवे, दिन दिन चरते नूर ॥
४ ॥ तात वयण सुणी अजय तव, प्रीति धरे प्रति पूर्ण ॥ एक रंग तांबूलमें, जिम काथा
दिक चूर्ण ॥ ८ ॥ अह निशि तव रहे एकठा, धनने अजयकुमार ॥ प्रीति वधो प्रेमे करी,
सुख विलसे श्रीकार ॥ ए ॥

॥ ढाल ५ मी. ॥ (शीतल जिन सुरंगा.—ए देशी.)

एहवे धनाना जाई, करे ग्रामतणी ठकुराई रे ॥ सुगुणा ॥ न्याय धरम चित्त धारो
॥ जिम जंगमें सुजश वधारो रे ॥ सुगुणा ॥ न्याय धरम चित्त धारो ॥ लोक जणी संता
पे, लोने करी अकरने आपे रे ॥ सु० ॥ न्या० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ जिम शनिनी दृष्टे वर्षा,
नवि थाये अति उत्कर्षा रे ॥ सु० ॥ तिम ते ग्रामाधिप थाते, दुर्जक अयो सवि वाते रे ॥
सु० ॥ २ ॥ लोक गया सवि जांजी, हाथे न रही कांइ वाजी रे ॥ सु० ॥ तृण धान्यादिकने
अजावे, गज अश्वादिक मरो जावे रे ॥ सु० ॥ ३ ॥ एहवे अग्नि प्रयोग ते दीगो, अयो ते
हने अतिहि अनीगो रे ॥ सु० ॥ नृपे पिण दंभी लीधा, अन्याय जिवारे कीधां रे ॥ सु० ॥
४ ॥ चोरे पिण तिम संताप्या, दुःख पास्या दैव सराप्या रे ॥ सु० ॥ ताततणो धन लेवे,

पिण पाठो कदिय न देवे रे ॥ सु० ॥ ५ ॥ इम करते तेह घाठा, वञ्चदेश थकी तव नाठा रे
 ॥ सु० ॥ त्रिणये मालवमें आवे, कृषिकर्म करे वरुदावे रे ॥ सु० ॥ ६ ॥ बीज ज्ञात बलद हल
 लेवे, अनुचरने पिण धन देवे रे ॥ सु० ॥ कर्मवशे तस आवे, वृषजादिक पशु मरी जावे रे
 सु० ॥ ७ ॥ तीरु गयां कण खाई, न थई तस पेट जराई रे ॥ सु० ॥ तव ते पोठी वाहे,
 जई मगधे चित्त नमाहे रे ॥ सु० ॥ ८ ॥ अन्य दिवस घनं लीधा, जरी पोठ्यो चाळ्या धरी
 सीधा रे ॥ सु० ॥ राजगृहीमें आवे, पोठ्यो सवि चहुटे ठावे रे ॥ सु० ॥ ९ ॥ १ पादु जिवारे
 जोवे, तव मूलगी शनीमी खोवे रे ॥ सु० ॥ जाग्य ते आगल चाले, तेहनो दुःख कहो कु
 ण टाले रे ॥ सु० ॥ १० ॥ यतः ॥ पन्निवन्नो गिरवातणो, पालीजे निरवाण ॥ तुमे देशांतर
 चालिया, अस्मे आगेवान ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—जेम महोटा माणसने हाथ जे चढे, तेने ते
 नक्की पालेज. तेम इहां जाग्य कहे ठे के, (अमने तमे मल्या ठो, तो अमे पण तमने
 ठोमीशुं नही.) जो तमे देशांतर जशो, तो त्यां पण अमे आगेवान अइ साथे आवीशुं.
 ॥ १ ॥ सीत तापादिक सेवे, जलंजा देवने देवे रे ॥ सु० ॥ धान्यना ढगला कीधा, ते त्रि

१ जाव. २ अर्धी मूमी अर्थात् राजगृहीमां आवीने जूए तो घडनो जाव अर्धी दीठो; एटले अर्धी
 मूमी तो जावमांज जती रही !

घना०
एए

एये तिहां रह्या सीधा रे ॥ सु० ॥ ११ ॥ एहवे धनोशाह, मन धरतो अतिहि उमाह रे ॥ सु० ॥
 ॥ राजसजाथी ऊठे, घणो परिकर चाले पूंठे रे ॥ सु० ॥ १२ ॥ १३ ट तिहां आगल चाले,
 शकंवाथी लोकने पाले रे ॥ सु० ॥ धनदत्तादिक जेह, चहुटा विचे वेठा तेह रे ॥ सु० ॥
 १३ ॥ कंवा देइ तस ऊठामे, पग पाटुए करीने पामे रे ॥ सु० ॥ गुणयो पिण वली उपमा
 व, राजमार्ग विधे समरावे रे ॥ सु० ॥ १४ ॥ आयास करंता दीठा, धने निज बांधव धी
 ठा रे ॥ सु० ॥ चिंते इहां ए किम आव्या, वणजारा नाम धराव्या रे ॥ सु० ॥ १५ ॥ गाम
 ने हय गय दीधा, ते किण नृपे पामी लीधा रे ॥ सु० ॥ देखो ए किम दुःख पावे, मुज वां
 धव निगुण स्वजावे रे ॥ सु० ॥ १६ ॥ इम चिंतीने तेमाव्या, तव ते पिण दोमी आव्या रे
 ॥ सु० ॥ निज मंदिर तेमी जावे, वस्त्रादिक शुन्न पहिरावे रे ॥ सु० ॥ १७ ॥ स्वस्थ करीने
 पूठे, निर्धननुं कारण शुं ठे रे ॥ सु० ॥ तव तेणे हृदय विमासी, तस सघली वात प्रकासी
 रे ॥ सु० ॥ १८ ॥ तुमे दीधो अम धन जेह, पिण पासे न रह्यो तेह रे ॥ सु० ॥ दरिद्रपणो
 रह्यो साथे, अमे आदस्यो हाथो हाथे रे ॥ सु० ॥ १९ ॥ कोई तुमने दोष न देवो, पोतानो
 लेहणो लेवो रे ॥ सु० ॥ मात पिताने दारा, कोशंवी मांहे उदारा रे ॥ सु० ॥ २० ॥ अमे

१. सुन्नट, ३ उडीयमे लोकोने खशेमे.

इहां पोठ्यो खेडुं, हाथे सवि काज निवेडुं रे ॥ सु० ॥ इह चोथे उडहासे दाखी, ढाल पांच
मी जिन इम जाखी रे ॥ सु० ॥ ११ ॥

॥ दोहा. तव धन्ने कहे आतने, रहो ते माहरे पास ॥ खावो पीवो खांतिशुं, विल
सो लील विलास ॥ १ ॥ ते कहे तुम हेठे अमे, रहेतां लहीये लाज ॥ सूर्य शुक्र गृहमां ग
ये, नीच कहे कविराज ॥ २ ॥ तव धन्ने बांधव प्रते, चौद चौद धन कोनि ॥ दीधी मन दो
लत करी, कुण करे एहनी तोनि ॥ ३ ॥ देखो तस दुर्जनपणो, धन्नानो तिम नेह ॥ अण
तोळ्यां आवी मिळ्यां, सहज सुजावे एह ॥ ४ ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम्. ॥ सज्जनाः सज्जना
एव, दुर्जना एव दुर्जनाः ॥ नोश्नाः सुधांशुचिकिर्णा, न शीतास्तिग्मरोषि च ॥ १ ॥ जावा
र्थः—सज्जन ते सज्जनज रहे अने दुर्जन ते दुर्जनज रहे. जेम चंडमानां किरणो कदि पण
गरम अतां नथी, तेम सूर्यनां किरणो शीतल अतां नथी. ॥ १ ॥ चाळ्या कोशंबी जणी,
धन लेईने जाम ॥ धनरक्कक तव देवता, मारे मुजर ताम ॥ ५ ॥ बोले प्रगट अई मुखे, ह
जीय न लागी लाज ॥ जन्मअकी जोवो नही, करतां काज अकाज ॥ ६ ॥ धन-सवि धन्ना
जाग्यथी, आवी मिळयो ठे अत्र ॥ तटनी नीर सवे सदा, जलनिधिमें एकत्र ॥ ७ ॥

॥ ढाल ६ ढी. ॥ (जटीयाणीना गीतनी देशी.)

नव ते वचन सुणीने हो धनदत्तादिकं त्रिण्ये तिहां, आलोचे मनमांहि ॥ आपणने
 वली जाग्ये हो धन अर्जन इहां आवो नश्री, खोटी होंश शी त्यांहि ॥ तव० ॥ १ ॥ ए आं
 कणी ॥ एटला दिन आयासें हो सुप्रकासे धन आगमं नही, न रह्यो मूलगो गेह ॥ बांध
 वश्री पिण पाय्यो हो धन वाय्यो एह विलोकतां, पुण्यं विना नर देह ॥ तव० ॥ २ ॥ इम
 चिंती मन खंते हो निःचंते पोठी वालीया, धनश्री ज्ञस्या हुता जेह ॥ धनाने सवि सोंपे
 हो नवि कोपे मन वच कायश्री, वात कहे सवि तेह ॥ तव० ॥ ३ ॥ एटला दिन हठ राख्यो
 हो नवि जांख्यो गुण कोइ ताहरो, ते अमचो अपराध ॥ तूं अम सहुश्री श्लहुनो हो गुण
 दोढो दीगो हेजश्री, गुण निधि जलधी अगाध ॥ तव० ॥ ४ ॥ अम कुल अंवर दीवो हो
 चिरंजीवो तेज प्रतापश्री, अमे तुं खजूआ सरूप ॥ तूं अम प्रीते पालक हो दुःखटालक
 सकल कुटुंबनो, अमे तो श्द्रुमक सरूप ॥ तव० ॥ ५ ॥ घणुं घणुं शूं कहिये हो निरवहिये
 अमने आजश्री, जाणी बांधव प्रेम ॥ ए धन जे तुमे दीघो हो नवि लीघो जाए अम अ
 की, जिम कायश्री नेम ॥ तव० ॥ ६ ॥ एहना जे अधिष्ठाता हो मद माता ते ताहरे वशे,
 अम वश कहो किम थाय ॥ जिम निज हाथे परणी हो वर तरुणी ठांणी कंतने, अन्य

गृहे नवि जाय ॥ तव० ॥ ७ ॥ तव धन्ने सनमानी हो बहुमाने बांधव राखीया, आप समा
 करी त्यांहि ॥ मात पिता जोजाई हो तेनाच्यां अति आदर करी, मूकी सेवक त्यांहि ॥ त-
 व० ॥ ८ ॥ यतः ॥ अनुष्ठुबृत्तम् ॥ माता तीर्थं पिता तीर्थं, तीर्थं च ज्येष्ठबांधवाः ॥ वाक्ये
 वाक्ये गुरुस्तिर्थं, सर्व तीर्थं जनार्दनः ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—माता पिता अने महोटो जाई, ए
 सर्वे तीर्थरूप ठे, तेमज हरेकं वचन बोलवामां गुरु तीर्थ ठे अने परमेश्वर ए सर्व तीर्थ ठे ॥
 १ ॥ सुंदर मंदिर आप्यां हो दुःख काप्यां मात पितातणां, जाईनी करी जीर ॥ खावे पी
 वे खेले हो अति गेले नव नव नेहशी, जिम सहकारे शकीर ॥ तव० ॥ ए ॥ प्रहसमे नित
 प्रणामे हो घणुं विनये मात पिता प्रते, युगते जिनवर सेव ॥ पात्र संयोगे रंगे हो प्रतिलाजे
 ज्ञाव धरी घणो, धर्म करणनी टेव ॥ तव० ॥ १० ॥ एहवे तिहां कणे आव्या हो मन ज्ञा-
 व्या चौविह संघने, विचरंता ज्ञूपीठ ॥ धर्मघोष इशे नामे हो पुण्यकामे सुरतरु सारिखा,
 सयल गुणे सुविसिठ ॥ एहवे० ॥ ११ ॥ ए आंकणी ॥ वंदणने तिहां धाया हो मिलि आया
 ज्ञवियण ज्ञावशुं, वेठा जोई ठाम ॥ धनसारे पिण जाणी हो गुरु वाणी सांजलवा प्रते,
 धरे नद्यम हित काम ॥ एहवे० ॥ १२ ॥ चारे पुत्र संघाते हो ज्ञली ज्ञाते दयिताने तिहां,

बहुअर सघली साथ ॥ आरुंवरणी आवे हो जले जावे गुरु चरणांबुजे, वंदे जोमी हाथ ॥
 एहवेण ॥ १३ ॥ अर चित सहुनो जाणी हो गुणखाणी, गुरु दिये देशना, कहे तजो पंच
 प्रमाद ॥ ठकायने चित धारो हो तुमे वारो हिंसा तेहनी, ठंठो जीज सवाद ॥ एहवेण ॥
 १४ ॥ चार कषायने जीपो हो जिम दीपो श्री जिनधर्ममें, पालो प्रवचन सात ॥ पंचाश्रव
 तुमे वारो हो बलि धारो दशविध धर्मने, तिम टालो जय सात ॥ एहवे० ॥ १५ ॥ वलीया
 जो अति आल हो तो धाल शिवमंदिर जणी, पंच महाव्रत लेय ॥ तप जप संयम करणी
 हो अति सुखनी वरणी एह ठे, त्रिकरण शुद्ध करेय ॥ एहवे० ॥ १६ ॥ श्रावक धर्म संजा-
 लो हो अजुआलो द्वादश जेदणी, आणी मन नजमाल ॥ चोथे नुडहासे गावे हो मन जा-
 वे ठठी ढालमें, जिन इम वचन रसाल ॥ एहवेण ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ देशना सांजली दिल ठखो, धन धन कहे धनसार ॥ मानव जवनो आ
 ज में, लाज कह्यो सुप्रकार ॥ १ ॥ प्रसुदित थई पूठे तदा, विहुं करजोमी शेठ ॥ कृपा क-
 री प्रजुजी कहो, पूर्व जवांतर ठेठ ॥ २ ॥ धने शी करणी करी, जिणे करी पाम्यो रुदि ॥
 दुःख नवि दीगो देहथी, पद पद सकल समृदि ॥ ३ ॥ त्रिण्यं मोटा सुत साहसी, धनदत्ता
 दिक जेह ॥ पामी पामी हारवे, शे करमे दुःख तेह ॥ ४ ॥ शालिज्जड जगिनी जली, स-

ती सुजडा सार ॥ शे करमे माटी वही, दुःख सहां विविध प्रकार ॥ ५ ॥ एह संदेह तणो
इहां, ज्ञानतणे आधार ॥ विवरीने कहो वेगथी, सयल संबंध विचार ॥ ६ ॥

॥ ढाल ७ मी. ॥ (शांति जिणेसर केसर अर्चित जगधणी रे.—ए देशी.)

कहे सुनिवर सुणो शेठ पूरव जव वारता रे पूरवण, पुरपड ल सुठाण जिहां वासे
हता रे जि० ॥ तिणे नगरे एक नारी शक्यायन दुर्बली रे काण, कर पर धरनां काज पी-
सण खंरुण वली रे पी० ॥ १ ॥ दत्तनामे तस पुत्र सुपुत्र वखाणीयो रे सु०, तात विना जे
जात दुःखी महा जाणीयो रे दुण ॥ चारे गायना वच्च जेला करी चोकमां रे जे० ॥ पेट
जरार्ई मात्र हुवे ते लोकमां रे हु० ॥ २ ॥ एक दिन परव विशेष अशेषथी देखीयो रे अ०,
घर घर खीरने खांरु घृतादिक पेखीयो रे घृ० ॥ आवी ततक्षण गेह माता पालव ग्रह रे
मा०, ये सुज परिघल खीर इशुं मुखथी कहे रे इ० ॥ ३ ॥ मात कहे जरपूर न कृकस सं
पजे रे नण, तो ते खीरने खांरु कहो केम नीपजे रे क० ॥ हठ नवि ठंमे बाल रमे तव मा
वनी रे रण, देवे अवस्था एम दीधी किम आवनी रे दीण ॥ ४ ॥ यतः ॥ अनुष्टुब्वृत्तम्. ॥
बालको १ दुर्जन २ श्वोरो ३, वैद्यो ४ विप्राश्च ५ पुत्रिकाः ६ ॥ अर्थी ७ नृपो ८ इतिथी ए

१ वृद्ध मोशी.

वेश्या १०, न विदुःसदृशां दशां ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—बालक, दुर्जन, चोर, वैद्य, ब्राह्मण, पुत्री,
 अर्थी, राजा, अतिथि (प्राहुणां) अने वेश्या, ए सर्वे सरस्वी हालतने समजता नथी. अर्थात्
 ए सर्वे पोताना दुःखनी पेठे पारका दुःखने जाणता नथी. ॥ १ ॥ माता पुत्रने साथ देखी
 रोती अकी रे दे०, चार पानोशण ताम आवी कहे इम वकी रे आ० ॥ तूं रोवे शा माटे
 रोवे किम दीकरो रे रो०, दुःखनी जे होय वात ते अम आगल करो रे ते० ॥ ५ ॥ तव ति
 णे पुत्रनी वात सवी मांनी कही रे स० ॥ सांजली कहे परमान्न मांहे शूं ठे सही रे
 मां० ॥ चार पानोशण तत्र सामग्री ततरूणे रे सा०, आणी आपी तास घरीं ऊलट घणे
 रे ध० ॥ ६ ॥ माताये तव खीर नीपाई वेगथी रे नी०, वेसानी नीज पुत्र पिरसे अति वेग
 थी रे पि० ॥ कोईक कार्य विशेष माता घरमें गई रे मा०, पुण्योदयथी दान तणी मति
 तस थई रे त० ॥ ७ ॥ एहवे तपसी एक सुपरे संजालतो रे सु०, फिरतो आहारने काज
 जमर परे मालतो रे ज० ॥ मासखमणने पारणे वारणे आवीयो रे वा०, देखीने तव दत्त
 तणे मन ज्ञावीयो रे त० ॥ ८ ॥ थाल जरी हती खीर सवे आपे मुदा रे स०, साधुना वंदी
 पाय वेगो स्थानक तदा रे वे० ॥ आवी देखे मात ते थाली चाटतो रे ते०, पिरसे सघली
 खीर चिंते रखे फाटतो रे चिं० ॥ ९ ॥ वचन ठलेथी तास उदर रोग ऊपन्यो रे न०, मर-

ए ज्ञाव ए घनो सुख लहे रे
 कीरात्र तणो

ए समय मध्यरात्रि सुध्याने नीपन्यो रे सु० ॥ ते चवि दान प्रज्ञाव ए धन्नो सुख लहे रे
 ए०, तुज कुलनो शिणगार सकलने निरवहे रे स० ॥ १० ॥ चारे कीधो योग हीरान्न तणो
 तदा रे ही०, चारे वली परसंश करी तेहनी मुदा रे क० ॥ इम ते आठे नारि दीठो मुनि
 वहोरतो रे दी०, चिते धन धन एह दिये मुनिने ठतो रे दि० ॥ ११ ॥ साधु प्रसंशा योगे न
 त्तम कुल ऊपनी रे न०, ते ए आठे नारि धन्नानी नीपनी रे ध० ॥ जेह सुजडा दुःख लही ते
 सांजलो रे ल०, सरल करो निज चित्त तजो मन आमलो रे त० ॥ १२ ॥ पूर्व जवे इणे रो
 ष वशे सखीने कह्यो रे व०, वहे माटी रे दास पोते धनमद व्ह्यो रे पो० ॥ ते कर्म इणे
 शीश थकी माटी वही रे थ०, हसतां बांधे कर्म रोतां बूटे नही रे रो० ॥ १३ ॥ यतः ॥
 १जाति श्लाघ्न ३कुलैधश्वर्यं, एवलं दरूपं उत्तपः पश्रुति ॥ कुर्वन्नष्टौ मदान्पुसां, हीनानि
 लज्जते जनः ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—जाति, लाज कुल, ठकुराई, वल, रूप, तप अने विद्या, ए
 आठनो मद करनारो माणस; ए आठ हीणां पामे ठे. ॥ १ ॥ ए संसारमें जीव मिथ्यात्व
 गुणे करी रे मि०, जन्म जराने मृत्यु लहे ते फिरी फिरी रे ल० ॥ पामी सदगुरु योग दा
 नादिक आचरे रे दा०, धन्नानी परे तेह वंठित लीला वरे रे वं० ॥ १४ ॥ परसंशा पिण पु-
 ण्य पदारथ कही खरी रे प०, देखो ते परतक आठे एह सुंदरी रे आ० ॥ चोथे नवहासे

ढाल कही ए सातमी रे क०, जिनविजये मन रंग श्रोता मनमें गमी रे श्रो० ॥ १५ ॥
 ॥ दोहा ॥ हवे धनदत्तादिक तणो, पूरव जव अधिकार ॥ सदगुरु कहे शुज चित्त

श्री, सांजल रे धनसार ॥ १ ॥
 ॥ ढाल ७ मो. ॥

(नमो नमो मनक महामुनि.-ए देशी.)
 मुनिपति कहे तुमे सांजलो, पूरव जव विरतंतो रे ॥ ग्राम सुग्राम नामे जलो, रु
 द्वि समृद्धि श्री कंतो रे ॥ मुनिपति ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ तिहां कठियारा त्रिण्य रहे, धन
 हीणा अति धीग रे ॥ १सदने आसन ठे तेहनां, मित्राइ गुणे ते मीग रे ॥ मु० ॥ १ ॥
 एक दिन काष्ट लेवा प्रते, ग्रहीने शंवल साथे रे ॥ पोहत्या वनमें परवरा, लेश कुगर ते
 हाथे रे ॥ मु० ॥ ३ ॥ सध्याने जोजन समे, वेग जोजन कामे रे ॥ मासखमण पारण य
 ति, कमासागर शो नामे रे ॥ मु० ॥ ४ ॥ दीग दूरथी आवता, सन्मुख जइने वंदे रे ॥
 संवल सघलो शुज मन, आपे मन आणंदे रे ॥ मु० ॥ ५ ॥ सुलजवोधी श्रावक कुले, ऊ-
 पजवो तिहां बांध्यो रे ॥ काष्ट ग्रही संध्या समे, आठ्या असन न लाध्यो रे ॥ मु० ॥ ६ ॥
 मदले रोपे इम कहे, दानतणां फल दीठां रे ॥ चूखे दुःख पाण्या इहां, आगल शां इशे मी

मां रे ॥ मु० ॥ ७ ॥ एम निंदा ते दाननी, चार वेला तिणे कीधी रे ॥ पश्चात्ताप संयोगश्री,
 स्वल्पपणे अइ सीधी रे ॥ मु० ॥ ८ ॥ ते चवि अनुक्रमे ताहरा, पुत्र अया त्रिणय एहो रे ॥
 चार वेला दुःख अनुज्जव्यो, पूरवकुत गुण तेहो रे ॥ मु० ॥ ९ ॥ सांजली धनदत्त प्रमुख-
 ना, पूरव ज्व अधिक्कारो रे ॥ वैरागे मन बाधीयो, बूज्यो तव धनसारो रे ॥ मु० ॥ १० ॥
 चिंते एह संसारमां, धरमने कोय न तोले रे ॥ संसारिक सुख कारमां, विष सम केवली
 बोले रे ॥ मु० ॥ ११ ॥ संयम लेवो माहरे, इम मनमां आलोचे रे ॥ आयु अधिर ए आप-
 णो, जाणी पढे कुण खोचे रे ॥ मु० ॥ १२ ॥ मुनि वांदी मंदिर गयो, परिकर युत धनसा
 र रे ॥ दीक्षा लेवाने तदा, पूढ्यो सवि परिवार रे ॥ मु० ॥ १३ ॥ शीलवती पिण सज्ज अई,
 धन्नदत्तादिक तेम रे ॥ त्रिणये पुत्र संयम ज्ञणी, धरता धर्मशुं प्रेम रे ॥ मु० ॥ १४ ॥ उह-
 व करी धने तदा, संयम सुपरे देवाड्यो रे ॥ सहु कहे धन्य धनसारने, सुपरे आतम तास्यो
 रे ॥ मु० ॥ १५ ॥ धने आवक व्रत धर्यां, आव प्रिया युत प्रीते रे ॥ विरम्यो विषय विशेष
 श्री, रूमी आतम रीते रे ॥ मु० ॥ १६ ॥ धनोशाह घेर आवीया, परिवृत सवि परिवारो रे ॥
 सुख विलसे संसारनां, अजिनव सुर अवतारो रे ॥ मु० ॥ १७ ॥ दीक्षा देई तेहने, शीखवे
 साधु आचारो रे ॥ धनसारादिक साध लेइ, मुनिवर करे विहारो रे ॥ मु० ॥ १८ ॥ चारि-

त्र पाली शुभ्र मने, त्रिण्ये सुत युत तेहो रे ॥ देवलोके जइ ऊपन्या, देवपणे गुण गेहो रे
॥ मु० ॥ १ए ॥ एक जेवे शिव सुख सवे, लहेशे ते निरधारो रे ॥ चौथे उल्हासे आठमी,
ढाल कही जिन सारो रे ॥ मु० ॥ १० ॥

॥ दोहा ॥ अथ श्रोता जन सांजलो, शालिजइ सुचरित्र ॥ देवलोक सुख नरजवे,
जोगवे पुण्य पवित्र ॥ १ ॥ इणे अवसर नेपालथी, सोदागर सुविवेक ॥ रत्नकंबल लेई क
री, आव्या मगध सुठेक ॥ २ ॥ ग्रामागर फिरतां अकां, राजगृहीमें रंग ॥ देखामे चहुटे
डरस, रत्नकंबलनां नंग ॥ ३ ॥ जोवे सहु को यतनशुं, रत्नकंबलनां रूप ॥ पूठे मूल तस प
रगमो, चित्तमें राखी चूप ॥ ४ ॥ व्यापारी कहे वयणथी, सवालाख सुवर्ण ॥ एकतणो ए
मूल ठे, सांजलजो धरि कर्ण ॥ ६ ॥ मूल सुणीने शेठिया, सहुको स्थानक जाय ॥ व्यापा
री कंवर ग्रही, जेव्या श्रेणिक राय ॥ ५ ॥

॥ ढाल ए मी ॥ (आरा महोलां ऊपर मेह, ऊरुखे वीजली हो लाल.-ए देशी.)
तव श्रेणिक नर राय बोलावे तेहने हो लाल बौ०, किहांथी आव्या शेठ ठे सुख
तुम देहने हो लाल ठे ॥ तव बोल्या ते शाह अमे नेपालथी हो लाल अ०, आव्या इहां
व्यापार कारण नूपालथी हो लाल क० ॥ १ ॥ लाव्या कंबल सोल अमूल्य संजालता हो

लाल अ०, आव्या तुम परसाद भगधमें मालता हो लाल म० ॥ देखो स्वामी वस्तु सुव
 स्तु सुजावधी हो लाल सु०, अगनिमें नांखे भेल तजे एह दावधी हो लाल त० ॥ १ ॥
 मूल सवालख दास एकेका वस्त्रना हो लाल ए०, नृप कहे अमे आसक्त अमूलिक शस्त्र
 ना हो लाल अ० ॥ गज अश्वादिक काज अमे धन वावरुं हो लाल अ०, लाख गमे धन
 देय कंबलने शुं करुं हो लाल कं० ॥ ३ ॥ तव ते मूकी निसास ऊठीने चालीया हो लाल
 ऊ०, शालिकुअर आवास समीपे मालीया हो लाल स० ॥ कहे अन्योन्ये एम आपण
 सवि पांतस्था हो लाल आ०, देई दास केइ लह कंबल पासै धर्यां हो लाल क० ॥ ४ ॥
 राजगृहीमें एक खप्यो नही कंबलो हो लाल ख०, कहो कुण नगरने गाम होशे एहधी
 जलो हो लाल हो० ॥ ज्ञाये ते वात गवाहे सांजली हो लाल ग०, बोलाव्या ते ताम
 व्यापारी कहे वली हो लाल व्या० ॥ ५ ॥ नृप सरिखे कस्यो लोअ ओजाणो देखिने हो
 लाल ओ०, तुमे पिण विफल प्रयास करावशो पेखिने हो लाल क० ॥ ज्ञा कहे अहो
 आत! कंबल ठे केटलां हो लाल कं०, ते कहे सोल प्रमाण अमे लाव्या जलां हो लाल
 अ० ॥ ६ ॥ माहरे वहु बत्रीश सवे गुण शोअती हो लाल स०, आपुं केहने वस्त्र टालुं
 केहने बती हो लाल टा० ॥ लावो जो बत्रीश तो सघलां राखीए हो लाल स०, लाज

सहित तस मूढ्य विचारी ज्ञांखीए हो लाल वि० ॥ ७ ॥ तव वोढया कहे मात कंवल अ-
धिको नथी हो लाल कं०, जिम जाणो तिम कार्य करो एह मांहथी हो लाल क० ॥ वीश
लाख धन पूर्ण देवारो अम प्रते हो लाल दे०, सोलतणां वत्रीश करी द्यो वधु प्रते हो लाल
क० ॥ ८ ॥ सुणि ज्ञाये वेग जंमारी वोलाविया हो लाल जं०, ते पिण धनद सरूप ज्ञा
पें आवीया हो लाल ज० ॥ कहे वीशलाख दीनार दीयो धन एहने हो लाल दी०, तव ते
लही आदेश गया लेइ तेहने हो लाल ग० ॥ ९ ॥ नयामे जंमार देखे तव वाणिया हो ला-
ल दे०, रूप्य सुवर्णना पाट दृषद परे जाणीया हो लाल दृ० ॥ मोतीना केइ भाट लसणि
या कुण लिये हो लाल ल०, पानानो नहि पार हीरा न गुणे हीये हो लाल ही० ॥ १० ॥
मणि माणोकनो मेल कस्यो न हुवे कदा हो लाल क०, विद्रुम विविध प्रकार अपार देखे त
दा हो लाल अ० ॥ अंजाणा तव तेह विचारे चित्तमें हो लाल वि०, ए प्रत्यक् देवेंइ धनद
सम वित्तमां हो लाल ध० ॥ ११ ॥ गणि आपे धन सर्व लेखो करिने मुदा हो लाल ले०,
व्यापारी लेइ दाम आव्या धानके तदा हो लाल आ० ॥ करे अन्योन्ये वात विजय देखो
ठता हो लाल वि०, नृपने इन्धमें रुद्धि अंतर घणो पेखतां हो लाल अं ॥ १२ ॥ अंवरथी
धनराशि ऊतरती जेहने हो लाल ऊ०, मणि मुक्ताफल एम न दीठां तेहने हो लाल न० ॥

चोथे नुदहासे ढाल नौमी मन जावती हो लाल नौ०, जिनविजये कही एह आणंद उपाव
ती हो लाल आ० ॥ १३ ॥

॥ दोहा. ॥ एहवे राणी चेलणा, सुणि कंबल विरतंत ॥ होंश थकी बेठी हठे, आ-
णी द्यो मुज कंत ॥ १ ॥ राजा कहे राणी सुणो, कंबलनो शो काज ॥ धनथी सेना बल
करी, राखीजे निज राज ॥ २ ॥ राजाने वल्लभ तुरी, के गज के बलि शस्त्र ॥ कंबलथी सं
बल नही, निष्कारण ए वल्ल ॥ ३ ॥ कहे राणी कंबल विना, न लिबं अन्नने पान ॥ होंश
न पहेंचे एटली, तो शो तुमचो मान ॥ ४ ॥ तव राजाये तेमिया, ते व्यापारी ताम ॥ आ
दरथी ते आविया, बेठा करी प्रणाम ॥ ५ ॥ कंबल द्यो राजा कहे, एक प्रियाने काज ॥ स
वालाख धन सामटो, देवरावीशुं आज ॥ ६ ॥ बोड्या वे करजोकिने, सुणो नृप सुगुण स
मृद ॥ सोले कंबल सामटां, जडा जामिनी लोध ॥ ७ ॥ वीशलाख धन विविध परे, एक
मूठ गणि दीध ॥ अंगज इंड समो अठे, शालिजइ सुप्रसिद्ध ॥ ८ ॥ सोले कंबलनो बली,
खप ठे अहो महाराज ॥ ते कारण अमे चालशुं, नेपालय जणी आज ॥ ९ ॥

॥ ढाल १० मी. ॥ (ए ठींकी किहां राखी.—ए देशी.)

सांजली श्रेणिक जूपति चिंते, मुज सम अवर न कोई ॥ माहरी उत्र गायये

मानव, सुखीया ठे सहु कोई रे ॥ जविका, पुण्यतणां फल पेखो ॥ पुण्ये वंठित सफल फ
ले सवि, हृदय विमासी देखो रे ॥ ज० ॥ १ ॥ ए आंकणी. ॥ सामंतने मूक्यो जडा घर,
रत्नकंबल इक आपो ॥ सवालाख धन तेहनो पूर्वे, लेई घरमें आपो रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ सामंते
सवि वात प्रकाशी, तव कहे जडा एम ॥ कंबलनो व्यापार करेवा, अमने तो ठे नेम रे ॥
ज० ॥ ३ ॥ रत्नकंबलमें अचरिज शो ठे, अमने नृपथी आम ॥ नृपने नाम नवारी नांखुं,
ए धनने ए धाम रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ पिण एक माहरी वीनति नृपने, वीनवजो करजोरी ॥
रत्नकंबल में सोलना कीधा, खंरु बत्री सवि जोरी रे ॥ ज० ॥ ५ ॥ बहु बत्रीशने वहेंची
दीधा, पिण तेहने मन नाव्या ॥ शूं कंबल करीए ए पहेरी, इम कही जूमि विठाय्या रे ॥
ज० ॥ ६ ॥ स्नान करी तेणे पग लूही, नांख्या जलने खाले ॥ जो मुज वयणनो प्रत्यय
नावे, तो जोवो परनाले रे ॥ ज० ॥ ७ ॥ अवर काज फरमावशो जे कोइ, ते करशुं शिर
नापी ॥ वस्त्राजरण अकी संतोषी, मूक्यो देइ सलामी रे ॥ ज० ॥ ८ ॥ वात सर्व नृपने
तेणे आवी, विगतेशुं समजावे ॥ सांजली नृप मन विश्मय पाभ्यो, अजय प्रते तेभावे रे ॥
ज० ॥ ९ ॥ जडाने मंदिरे तुमे जइने, शालिकुमर बोलावो ॥ गौजडशेठ तणो ए अंगज,
अम लगे तेनी आवो रे ॥ ज० ॥ १० ॥ अजयकुमर ततक्षण जडा घरे, तात वयणथी आ

वे ॥ देखी ज्ञज्ञ हर्ष धरीने, मोतीय आल वधावे रे ॥ ज्ञ० ॥ ११ ॥ धन्य वेला धन्य दिवस
 अमारे, आंगणने तुमे आया ॥ कार्योदेश हुवे ते दाखो, स्वामी करी सुपसाया रे ॥ ज्ञ० ॥
 १२ ॥ तानजी शालिकुमरने मिलवा, अज्ञय कहे तिहां तेने ॥ ते ज्ञणी शालिकुमरने सां-
 प्रति, मूको माहरी केने रे ॥ ज्ञ० ॥ १३ ॥ तव ज्ञज्ञ बहु जेटणो लेई, अज्ञयकुमरनी साथे
 ॥ आवी नृपने नमीने इणपरे, अरज करे विहुं हाथे रे ॥ ज्ञ० ॥ १४ ॥ चंड सूर्य जग्यो न
 वि जाणे, नवि जाणे दिन रात ॥ गमनागमन व्यापारादिक तिम, नवि जाणे मुज जात रे
 ॥ ज्ञ० ॥ १५ ॥ बालपणाथी लारुकवायो, निश्चित सघली वाते ॥ पूर्व स्नेहथी देव अईने,
 सुखीयो कीधो ताते रे ॥ ज्ञ० ॥ १६ ॥ ते माटे करुणा करी साहिब, मंदिर आवो आज ॥
 शालिकुमर तुम चरणे नमशे, अमची वधारो लाज रे ॥ ज्ञ० ॥ १७ ॥ राजा सांजली म-
 नमें हरखयो, ज्ञज्ञ वचनथी ताम ॥ शालिज्ञज्ञने मिलवा तत्पर, उच्चक थयो गुणधाम रे ॥
 ज्ञ० ॥ १८ ॥ नृप आदेश लेईने ज्ञज्ञ, निज मंदिर तव आवे ॥ चोथे नळहासे ढाल ए दश
 मी, जिन मन रंगे गावे रे ॥ ज्ञ० ॥ १९ ॥

॥ दोहा. ॥ आगम जाणी नृपतणो, गौज्ज शेटनो जीव ॥ देव पुत्र नेहे करी, रच-
 ना करे अतीव ॥ १ ॥ शालिज्ञज्ञना घर थकी, नृप मंदिर लगें खास ॥ मणि माणिक मंर

प रच्या, चिंहं दिशि तोरण तास ॥ १ ॥ मणिमय माला जालियां, मुक्ताफलनां कीध ॥
अमरज्जुवन अरुनी तले, देव शक्तिथी सिद्ध ॥ ३ ॥ धरणी तल वांथ्यो धवल, स्फटिक रत्न
सुविचित्र ॥ क्षीरसमुद्र परे सुजग, विच विच कमल पवित्र ॥ ४ ॥ आवासे आज्ञा अधि
क, सूर्यपरे सुप्रकास ॥ पंचवर्ण मणि तेजथी, सुंदर शोभे खास ॥ ५ ॥

॥ ढाल ११ मी. ॥ (लंकानो राजा.—ए देशी.)

इधे श्रेणिक राजा तिहां रे, जेरी सुदर्शना नाम ॥ वज्रभावे मन रंगशुं, जस नाम
अकी आराम रे ॥ श्रेणिक महाराजा ॥ अति रूपनो रे, करे अधिक दिवाजा ॥ न्याय धर
मी रे, जूपति अति धरणी ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ अलवेला तव आविया रे ॥ कोणिक प्रसु
ख कुमार ॥ निज निज परिवारे करी, परिवृत एक शत उदार रे ॥ श्रे० ॥ २ ॥ पंच शत
सचिव सोहायणा रे, श्रेष्ठ सामंत अनेक ॥ गणक चिकित्ठक सामटा, पंढित वली धरता
टेकर रे ॥ श्रेण ॥ ३ ॥ चतुरंगी सेना सजी रे, सुपरे करीने सार ॥ सेचनक गयवर ऊवरे,
नृप श्रेणिक अयो असवार रे ॥ श्रे० ॥ ४ ॥ अजयकुमार आगे चले रे, कदमी पुरुष प्रधा
न ॥ सकल कलाये आगलो, चारे बुद्धितणो निधान रे ॥ श्रेण ॥ ५ ॥ एहवे आरुंवर अकी
रे, आवे शालि आगार ॥ मंरुप तोरण देखिने, अचरिच लहे सह परिवार रे ॥ श्रेण ॥ ६ ॥

राजगृही रलियामणी रे, किम ज्ञाणगारी एण ॥ एता दिन लगें एहवी, नवि दीठी हुती
 नेण रे ॥ श्रेण ॥ ७ ॥ ज्ञज्ञा तव ज्ञूपति प्रते रे, वधावी कहे वेष ॥ राज पधारो ऊपरे, जुळ
 मंदिर अमचो सेण रे ॥ श्रे० ॥ ८ ॥ प्रथम जूमि जोते अके रे, विस्मय मनमें होय ॥ सुह
 णो के साचो अठे, ब्रम न टले चित्तप्रो कोय रे ॥ श्रे० ॥ ९ ॥ तिम वली बीजी जूमिका
 रे, निरखी हरखित आय ॥ ज्ञज्ञा कहे ऊपर तुमे, पाळ धारोने महाराज रे ॥ श्रे० ॥ १० ॥
 त्रीजी जूमि जोते अयो रे, राजा विब्रम चित्त ॥ शुं देवलोके आवियो, कोई देव अकी घ
 री प्रीत रे ॥ श्रे० ॥ ११ ॥ तव ज्ञज्ञा कहे इहां रहे रे, अमचा दासी दास ॥ स्वामी पधारो
 ऊपरे, जिहां शालिकुमर आवास रे ॥ श्रे० ॥ १२ ॥ चोथी जूमिना चोकमां रे, आवे जू
 धव जाम ॥ नजरे जल सम निरखीयो रे, मर पामी ऊजो रह्यो ताम रे ॥ श्रेण ॥ १३ ॥
 अजये ततक्षण सुडिका रे, नांखी प्रत्यय काज ॥ राज्य पधारो रंगमें, मणिपीठ अठे महा
 राज रे ॥ श्रे० ॥ १४ ॥ राजा कहे अमथी हवे रे, आगें तो न अवाय ॥ शालिकुमरने अम
 कने, तेनी लावोने इणे गाय रे ॥ श्रे० ॥ १५ ॥ सिंहासन तिहां मांरियो रे, बेठा श्रेणि
 क राय ॥ तव ज्ञज्ञा नृकअकी, शालिकुमरने तेरुण जाय रे ॥ श्रेण ॥ १६ ॥ जइने कहे
 ऊठो नानमा रे, सुपरे करी व्यवहार ॥ श्रेणिक अंगण आविया रे, इहां करवो कवण वि

चार रे ॥ श्रे० ॥ १७ ॥ पूर्वे कदिय न साज्जल्यो रे, कार्यतणो लवलेश ॥ ते निसुणी चित
चिंतवे रे, ए शूं कहे मात विशेष रे ॥ श्रेण॥ १७ ॥ रे माता ! तुमे शूं कहुं रे, में नवि लाध्यो
जेद ॥ चोथे नवहासे इग्यारमी ढाल, जिन कहे धरी नमेद रे ॥ श्रे० ॥ १८ ॥

॥ दोहा. ॥ शूं पूठो गो मातजी, व्यवसायादि विचार ॥ श्रेणिक लेई सामटो, जरो
मंजूष मजार ॥ १ ॥ जज्ञा कहे रे पुत्र सुण, नहि किरियाणो एह ॥ त्रिचुवन मांहे अमू-
ल्य ठे, रूप कला गुण गेह ॥ २ ॥ तव त्रटकी कहे मातजी, एवमो शो आलोच ॥ मुह
माग्यो धन देयने, राखो आनक टोच ॥ ३ ॥ जज्ञा कहे रे जूल मां, वचन विचारी बोल ॥
देश मगधनो ठे धणी, इंड समान अतोळ ॥ ४ ॥ हय गय रथ पायक तणो, कोय न लाजे
पार ॥ आपण सरिखा एहने, व्यापारी लख सार ॥ ५ ॥ आपण ऊपर एहनो, हित ठे ति
हां लगें सर्व ॥ आपणने आधीन ठे, ठंमो ते जली गर्व ॥ ६ ॥ यतः ॥ सासा? पासा? अ
गनि? जल? उग? ठाकुर? सोनार? ॥ एता न हुए आपणा, मंकरुण वडुअण विलारु? ७
॥ १० ॥ ज्ञावार्थः—श्वासोश्वास, पासा, अग्नि, पाणी, उग, राजा, सोनी, मांकरु, वडुअण अ
ने विलानी, ए सर्वे आपणा न होय. ॥ १ ॥ आवी प्रणामो एहने, मनथ्री मूकी मान ॥ १३ ॥

१ राजा कानना सूना होय ठे, माटे तेमनो विनय अवश्य करवो जोइए.

ल कन्ना राजवी, एहथी विनय निदान ॥ ७ ॥

॥ ढाल १२ ॥ मी. ॥ (सरसति माता रे, दियो मति निरमली.-ए देशी.)

वरण सुणी विष सरिखां मातनां, चिंते शालिकुमार ॥ मुज ऊपर वलि स्वामी
पणो अठे, धिग धिग ए अवतार ॥ शालिकुमार आलोचे चित्तमें ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ में
नवि कीधो रे धर्म ॥ धर्म विना परवश बंधन हुवे, करे तव मागां रे कर्म ॥ शा० ॥ १ ॥ जे
परवश ते रे सुख शो जोगवे, परवश दुःखनो रे मूल ॥ स्ववशपणानां रे सुख जोते अके,
परवश सुख अक तूढ्य ॥ शा० ॥ ३ ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृतम्. ॥ सर्व परवशं दुःखं, सर्व
मात्मवशं सुखं ॥ एतदुक्तं समासेन, लक्षणं सुख दुःखयो ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः-परवशपणे
बधुं दुःख ठे अने पोताने वश पणे बधुं सुख ठे. टूंकामां जे कह्युं, ते सुख दुःखनुं लक्षण
ठे ॥ १ ॥ एटला दिन लगे स्वामी सेवक तणी, में नवि जाणी रे वात ॥ आज सुणाव्यो रे
माताये ईहां, एह कटुक अवदात ॥ शा० ॥ ४ ॥ तो हवे माता रे वयण न लोपवुं, नवमो
वसुधा रे नाथ ॥ तेह पठी करशुं सवि जोयने, साधशुं अविचल साथ ॥ शा० ॥ ५ ॥ इम
निश्रय करी शय्याथी तदा, पात्र धरे जूपीठ ॥ सातमी जूमिथी जतरवो पड्यो, ते थयो
अतिही अनीठ ॥ शा० ॥ ६ ॥ अनुक्रमे श्रेणिकने आवी नम्यो, विनय अकी सुप्रकार ॥ दे

वना०
१०ए

खी श्रेणिक रूप कला नीलो, अमर सदृश अनुकार ॥ शा० ॥ ७ ॥ हर्ष धरी उडंगे आपणे,
वेसाख्यो ततकाल ॥ आतपथी जिम माखण परघले, तिम प्रश्वेद विशाल ॥ शा० ॥ ८ ॥
देखी माता रे झूप प्रते जणे, ए पीतलियो रे देव ॥ पर कर फरस न ए साहसी शके, शू
जाणे एह सेव ॥ शा० ॥ ९ ॥ शीखं द्यो एहने रे राज्य मया करी, एह ठे तुमचो रे वाल ॥
तुमची कृपाथी रे ए लीला करे, तुमे एहना प्रतिपाल ॥ शा० ॥ १० ॥ मधुर वचनथी रे बो-
लावी सुदा, दीधी शीख तिवार ॥ विपधर कंचुकी ठंढे तिणि परे, ठोमि चलयो सुविचार ॥
शा० ॥ ११ ॥ बेगो जइने रे निज वातायने, सोचे चित्त मजार ॥ पंच विषय सुख विष स
रिखां थयां, न गमे वात विचार ॥ शा० ॥ १२ ॥ आलोचे मन अति उदवेगथी, दुःखगर्नि
त वइराग ॥ एहवी करणी रे आजथी आदरूं, जिणे करी लहु जव ताग ॥ शा० ॥ १३ ॥
नाथ न राखूं रे माथे आजथी, रंही गृहवासे रे रंग ॥ नाथ करूं एक त्रिजुवननो धणी, जे
हनो स्नेह अजंग ॥ शा० ॥ १४ ॥ जिम योगीश्वर ध्यान धरी रहे, तिम रहे शालिकुमार ॥
चोथे उडहासे रे ढाल ए वारमी, जिन कहे वचन उदार ॥ शा० ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ हवे जज्ञ नृप आगले, आवो करे अरदास ॥ जोजन अवधारी जलां, पठे
पहोचो आवास ॥ १ ॥ जज्ञनो मन राखवा, रह्या तिहां मन रंग ॥ लक्षपाक तैलादि तव,

न० ४

१०ए

जज्ञ लावे चंग ॥ १ ॥ मर्दनिया मर्दन करे, नुटवणे धनसार ॥ स्नान करण आवे तुरत,
 स्नानतणे आगार ॥ ३ ॥ जलक्रीडा करते थके, पत्नी मुड्नी तत्र ॥ जोवे पिण लाधे नही,
 श्रेणिक लहे ते चित्र ॥ ४ ॥ मुख विलखो करी चिंतके, माहरा घरनो सार ॥ एहवी मुड्
 नी माहरे, अवर नहि इण वार ॥ ५ ॥ नीचे आनन निरखते, देखे कूपक एक ॥ मणि
 आजूपणथी जस्यो, चिंते तव सुविवेक ॥ ६ ॥ पूढे दासीने प्रगट, एह कीशो एकत्र ॥ ते
 कहे शालिकुमारनां, ज्ञूक्ताजरण ते तत्र ॥ ७ ॥ नृप चिंते नवि सांजल्यो, जे आजरण
 उज्जिष्ट ॥ ते में नजरे निरखियो; अहो अहो पुण्य प्रकृष्ट ॥ ८ ॥ एहवे जज्ञ नृप तणी, अ-
 मवी अंगुली देख ॥ तुरत कढावे मुड्नी, कल करिने सुविशेष ॥ ९ ॥

॥ ढाल १३ मी. ॥ (देशी मधुकरनी.)

जज्ञ मुडी अवरथी, जरीने थाल सुचंग हे ॥ साहिव ॥ मध्ये नृप मुडी धरी, आ
 गल करे उच्चरंग हे ॥ सा० ॥ देखी नृप मन चिंतवे ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ जुल जुल
 पुण्य प्रमाण हे ॥ सा० ॥ एहनी मुडी आगले, मुज मुडी शे मान हे ॥ सा० ॥ देखी०
 ॥ २ ॥ हीणी देखी उलखी, ते लेवं ततखेव हे ॥ सा० ॥ जज्ञ कहे जोजन जणी, बेसो

१ जोगवीने काढी नांखेलां घराणां.

घना०
११०

स्वामी हेव हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ ३ ॥ आसन बेसण अति जलां, सहुकोने सुप्रकार हे ॥
सा० ॥ नृपने मणिरयणे जड्यो, जडासन सुखकार हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ ४ ॥ थाल कचोलां
रयणनां, केइ कंचनमय कांत हे ॥ सा० ॥ जारी प्रमुख विविध सवे, उचित दिये ति-
णि पांति हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ ५ ॥ ततक्षण देव प्रयोगेशी, जोजन विविध प्रकार हे ॥ सा०
॥ पटरस सरस सवादथी, निपन्या ते मनुहार हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ ६ ॥ पक्वान्नादिक अति
जला, उत्रीश जांतिनां शाक हे ॥ सा० ॥ मेवा मीगाई घणी, नव नव जांतिना पाक हे ॥
सा० ॥ दे० ॥ ७ ॥ नंदन वननां नृप प्रते, कल्पद्रुम फल खास हे ॥ सा० ॥ पिरसे जडा
प्रेमशुं, अति सुस्वाद सुवास हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ ८ ॥ पिरसणिया पिरसे तिहां, देव सरूपी
सुरंग हे ॥ सा० ॥ देखी नृप विस्मय लहे, जोजन स्वाद सुचंग हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ ९ ॥
शालि अन्नोपम नृपती, विविध प्रकारनी दाल हे ॥ सा० ॥ घृत गोरसथी शोचती, जमते
हर्ष विशाल हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ १० ॥ सैन्य सकल सुपरे तिहां, जोजन करे जली जांत हे
॥ सा० ॥ जिम ऊजे पर सैन्यथी, तिम ऊजे धरी खांत हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ ११ ॥ अथ
जोजनवर्णनम् ॥ सवैया एकत्रीशा. ॥ मोतीचूर चूर कर जलेवी खाजेप कर दोट दिये दो
ठे पर लाडुशुं लरीजीए, घेवरको घेर कर पैमासेंती पेट जर पतासेको पास धर लापसीकुं

नु० ४

११०

लीजीए ॥ आंवा केलां केरी शाख राइतेकी तीखी डाख वाटकुं वनाइ देय पायसान्न पी-
 जीए, कूरसेंती दालि मेलि घमकेशुं घृत जेलि शाककी सरायशूं लराइ एसी कीजीए ॥ १
 ॥ ऊपर गंगाजल दीया, वासित सुरजि सुवास हे ॥ सा० ॥ तांबूलादिक तुरतमें, देवे ज-
 डा तास हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ १२ ॥ यथायोग्य पहिरामणी, लेई नृप आवास हे ॥ सा० ॥
 आव्या अति आणंदशुं, पहोती सवि मन आश हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ १३ ॥ पुण्य प्रतंशा प-
 रगनी, जांखे प्रेमे नूप हे ॥ सा० ॥ चोथे उल्हासे तेरमी, कही जिनविजये अनूप हे
 ॥ सा० ॥ दे० ॥ १४ ॥

॥ दोहा. ॥ एहवे वत्रीशे मिली, कामिनी करे विचार ॥ कंत कहो शे कारणे, नवि
 बोले इणिवार ॥ १ ॥ आपणे तो नथी दूहव्या, नवि लोपी कुलवट्ट ॥ रीश चढावीने रह्या,
 आज तो एह निपट्ट ॥ २ ॥ बोलावीजे बहु परे, नेह धरीने नाह ॥ प्रेम धरीने पूठीए, जे
 अमचो अपराह ॥ ३ ॥ दयिता ईम दीलमें धरी, आवी प्रीतम पास ॥ विविध विनय वच-
 ने करी, अधिक करे अरदास ॥ ४ ॥ पिण नवि बोले तेदथी, शालिकुमर लवलेश ॥ तव
 ते सासूने कहे, विनय अकी सुविशेष ॥ ५ ॥

॥ ढाल १४ मी. ॥ (आरे माथे पंचरंगी पाघ सोवनरो ठोगलो मारूजी.—ए देशी.)

धना०
१११

सुणो वाईजी अरदास अनोपम अमतणी सासू जी, कहुं वीनति गोद बिठाय लली
लली तुम जणी सासू जी ॥ तुम नंदन सुगुण निधान सोजागी सेहरो सा०, एह इंइ स
रिस अवतार सुसार ते देहरो साण ॥ १ ॥ करतो क्रीडा मन कोर सुजोमथी सर्वदा
सा०, धरतो मनमें विसवास आवात्त मांही तदा सा० ॥ इंझणीने अनुकार सुदार ते जा
णतो सा०, नित पंच विषयसुख जोग अमर परे माणतो सा० ॥ २ ॥ नृप आव्याथी मन
मांही विपाद को ऊपन्यो सा०, नवि जाणीजे अम कोय जे श्याथी नीपन्यो सा० ॥ न
सुणे गुण गीत विनोद सुबुद्धिथी भेलवी सा०, हवे न करे वात विचार कामिनीशूं केलवी
सा० ॥ ३ ॥ अमे सुकुलीणी मिली सर्व कहुं घणी वीनती साण, तो पिण बोले नही एह
जिशो हुए मुनिपती सा० ॥ नवि पूठे जोजन वात न ताति वसन तणी सा०, आजूपणशूं
अनुराग सुराग न धन जणी सा० ॥ ४ ॥ अमे देखी पति दिवगीर ऊहूँ सविं जामिनी
साण, न कहुं सुपरें शिणगार न सूवुं यामिनी सा० ॥ अमचो ए प्राण आधार विचार धरे
किशो साण, जो लहिये तेहनो जेद उद्यम करिये तिसो सा० ॥ ५ ॥ अमे दाऊयां पियु
डुःख देखी विशेष लहूँ नही सा०, जिम कूपककेरी ठांय समावे तिहां सही सा० ॥ अ
मचो कोइ होये दोष तो दाखो तेहने सा०, अमे तुम विष ए पोकार कहीजे केहने सा०

३०६

१११

॥ ६ ॥ इहने कोई आरतध्यान के ग्यान हीये वशो सा०, तिणे करी अम उपर राग हतो
 ते सवि खशो सा० ॥ जाणावंगं मन परिणाम बुदासी एहनो साण, इणे ठंरुचा जोग सं-
 योग मगन नही केहनो सा० ॥ ७ ॥ एहनो अम ऊपर स्नेह कहो किम आवशो साण,
 ए आखर ठंरी धाम आराम वसावशो सा० ॥ अमने मनमें उदवेग अजाएयो ए ऊपन्यो
 साण, कोइ पूरव कर्म विशेष अकी इहां नीपन्यो साण ॥ ८ ॥ ते माटे करी ए आयास
 पूगे तुमे जातने सा०, ते पिण मन केरी वात कहेशे मातने सा० ॥ पढे जोई कारण
 कार्य विचारी चित्तथी साण, कहेवो घटे तेहने नलंज देज्यो शुज रीतथी सा० ॥ ९ ॥
 तव जज्ञ बहुअर वात सुणी विज्रम थई कुमरजी, जिहां बेगे शालिकुमार तिहां तत
 कण गई ॥ कु० ॥ देखे मुख नूर ते सूर जिशो वादल अकी कु०, वली अंगीतने आकार
 विलोकीने ठकी कु० ॥ १० ॥ बोलावी धरी बहु नेह सुस्नेह वाक्ये करी कु०, कहो पुत्र
 जी प्राणाधार ए शी चिंता धरी कु० ॥ व्यापार वणिज घर हाट नचाट न ताहरे कु०,
 लेहणा देहणानी वात ते सघली माहरे कु० ॥ ११ ॥ तुज देखी अगम आलोच ते सोच
 प्रिया धरे कु०, तुज मुख देखी दिलगीर जोजन पिण नवि करे कु० ॥ न करे वली सकल
 शृंगार हारादिक नवि गमे कु०, करे रुदन धरी मन दुःख दिवस इम निर्गमे कु० ॥ १२ ॥

घना०
११२

शा माटे एवमो दुःख आपे ठे एहने कु०, कोई दीगो होय अपराध कहीजे तेहने कु० ॥
पिण सघलीने समकाल कहो किम खीजीए कु०, खीर नीर परे एक तार प्रियाशुं कीजी
ए कु० ॥ १३ ॥ ए प्रचुतावंत महेच्यतणी ठे वालिका कु०, सुकुलीणीमां शिरदार वचन
प्रतिपालिका ॥ कु० ॥ परणी जे पंचनी साख ते पालवथी जमी कु०, तेहने विण अवगुण
देखी खीजीजे किम चमी कु० ॥ १४ ॥ सुणी मातनां वयण विशेष न रेष बोल्यो फरी
कु०, योगेंड परे धरी ध्यान वेगो मन दृढ करी कु० ॥ कही चौदमी ढाल रसाल ए चोश्रा
उल्हासनी कु०, इम जिनविजये मन रंग कटपद्रुम रासनी कु० ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ एहवे ते राजगृहे, धर्मघोष मुनिराज ॥ समवसख्या सुपरे तिहां, १पण
सय साधु समाज ॥ १ ॥ वनपालक आपे तिहां, श्वर्क्षपनिका वेग ॥ शालिकुमर ते सांज
ली, अधिक लहे संवेग ॥ २ ॥ जिम रसवति सवि नीपने, घृत मिले रस होय जेम ॥ ति
म शालिज्जड वैराग्यमें, साधु संयोगशुं प्रेम ॥ ३ ॥ देई ताल वधामणी, हय रथ बेसी हेव ॥
परिवृत बहु परिवारथी, गुरु वंदन ततखेव ॥ ४ ॥ पांचे अजिगम साचवी, वंदे समतानीप
॥ देशना अमृतथी अधिक, निसुणे सुगुरु समीप ॥ ५ ॥

१ पांचशे. - ३ वधामणी.

नु० ४

११२

॥ ढाल १५ मी. ॥ (हस्तिनागपुर वर जलुं-ए देशी.)

मानव जव अति दोहिलो, जव जमतां सयल संसार रे ॥ आर्यक्षेत्र ऊतम कुले,
पंचेंद्रिय पूर्ण नुदार रे ॥ न०-पंचेंद्रिय पूर्ण नुदार, सुणो जवि प्राणिया ससनेह रे ॥ सस
नेह सुगुण सुविलास, कहे मन रंगशुं मुनि एह रे ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ धर्म श्रवण अति
दोहिलो, दोहिलो सहहवो चित्त रे ॥ सूक्ष्म विचार सुणी करी, हठ जे करे ते विपरीत रे
॥ ह० ॥ सु० ॥ २ ॥ वचन विरोध करे जिके, जिन प्रवचनना जे गूढ रे ॥ बहुल संसारी ते
हुवे, जव भ्रमण करे मतिमूढ रे ॥ ज० ॥ सु० ॥ ३ ॥ सावद्याचार्य तणी परे, वली जिम ज
माली निर्गंध रे ॥ एकेक वचन नुहापते, पाम्या संसारनो पंथ रे ॥ पा० ॥ सु० ॥ ४ ॥ सह
हीने धर्म आदरे, ते विरला इणे जग जीव रे ॥ आदरी पिण अवलूं करे, ते दुःख लहे प्रा-
णी सदैव रे ॥ ते० ॥ सु० ॥ ५ ॥ आदरवां व्रत दोहिलां, सुनिवरनां पंच प्रमाण रे ॥ धैर्य
धरी जे आदरे, ते पामे पद निरवाण रे ॥ ते० ॥ सु० ॥ ६ ॥ जन्म जरा जय रहित ते, स्था
नकं शिवमंदिर रूप रे ॥ केवलज्ञानमयी सदा, तिहां अजर अमर विद्रुपरे ॥ ति० ॥ सु०
॥ ७ ॥ कर्म विटंबन भोमने, हुए नाथ त्रिजगनो ताम रे ॥ फिरी संसारमें आववा, न रह्यो
तेहने कांइ काम रे ॥ न० ॥ सु० ॥ ८ ॥ पंच महाव्रतनो हवे, सुणो लेशप्रकी सुविचार रे ॥

जीवदया जिनधर्मनो, कही मूल सयल संसार र ॥ क० ॥ सु० ॥ ए ॥ त्रस आवर सवि जी
वनी, रक्षा करवी ते नित्य रे ॥ मन वच कायाथी करी, दया वीश विश्वाथी पवित्र रे ॥
द० ॥ सु० ॥ १० ॥ हिंसा करे ते दुःख लहे, न लहे सुख कदिय लिगार रे ॥ सुन्नूम ब्रह्मदत्त
सारिखा, हिंसाथी नरक मजार रे ॥ हिं० ॥ सु० ॥ ११ ॥ ए पहिलो व्रत साधुनो, बीजे मृषा
वादनो त्याग रे ॥ क्रोध लोभ जय हास्यथी, जूठो न कहे महाजाग रे ॥ जू० ॥ सु० ॥ १२ ॥
जूठे वसुराजा जून, नरके गयो देव प्रकोप रे ॥ ते जणी सत्यज बोलवो, जिम थाए डुरि
तनो लोप रे ॥ जि० ॥ सु० ॥ १३ ॥ अणदीघां लेवो नही, तृणमात्र ते साधुने कोय रे ॥
चोरीथी दुःख नीपजे, हुंरुक परे शास्त्रमें जोय रे ॥ हुं० ॥ सु० ॥ १४ ॥ चोथुं व्रत चोस्के चि
ते, पालवुं मननी शुद्धिरे ॥ नारी रूप न देखवुं, लेखवुं उपलनी बुद्धि रे ॥ ले० ॥ सु०
॥ १५ ॥ कुंरुिक नंदिपेण जे, अर्हन्नक आर्ङ्कुमार रे ॥ विजयमुनीश्वर तिम वली, रहने-
मि प्रमुख अणगार रे ॥ र० ॥ सु० ॥ १६ ॥ नारी देखीने चल्या, पाठा वल्या पुण्य प्रयोग रे
॥ ते जणी नववाके करी, व्रत पालवो धरी उपयोग रे ॥ व्र० ॥ सु० ॥ १७ ॥ तृण तूसमात्र न
राखवो, परिग्रह ममताथी धीठ रे ॥ परिग्रहथी नरके गया, नवनंदन सागरशेठ रे ॥ न०
॥ सु० ॥ १८ ॥ रात्रिज्जोजन ठांरवो, त्रिविधे त्रिविधे अइ धीर रे ॥ ए सुनि व्रत विवरी कहां,

आदरो ज्ञावे षड् वीर रे ॥ आ० ॥ सु० ॥ १ए ॥ साधुतणी सुणी देशना, समज्यो चित्त
 शालि मंहंत रे ॥ अलिक पदारथ ए सहू, कहे साधु ते सघलो तंत रे ॥ क० ॥ सु० ॥ १० ॥
 गुरु वांदी घरे आविया, रथे बेसी शालिकुमार रे ॥ चोथे उल्हासे जिन कहे, पन्नरमी ढाल
 नदार रे ॥ प० ॥ सु० ॥ ११ ॥

॥ दोहा. ॥ ज्ञाने प्रणमी कहे, सांजल मोरी मात ॥ साधु वचन सुणते लही, वी
 ती सघली वात ॥ १ ॥ स्वारथियो संसार सवि, परस्वार्थि नहि कोय ॥ विविध विटंबन
 वेदना, जीव सयलने जाय ॥ २ ॥ यतः ॥ शार्दूलविक्रीणितवृत्तम् ॥ वृहंकीणफलं त्यजंति
 विहगा शुष्कं तरः सारसाः, निर्गंधकुसुमं त्यजंति मधुपा दग्धं वनांतं मृगाः ॥ निर्द्व्यंपुरु
 षं त्यजंति गणिका ब्रह्मं नृपं सेवकाः, सर्वः स्वार्थवशाज्जनोन्निरमते नो कस्य को वल्लजः
 ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—पकीण फल विनना वृहन्नो, सारस पक्षी सूकाइ गएला सरोवरनो, ज
 मरान्न निर्गंध फूलनो, मृगो बलता वननो, गणिका निर्धन पुरुषनो अने सेवको राज्य
 ब्रह्म राजानो त्याग करे ठे. ए प्रकारे सर्वे स्वार्थने वश्य ठे. जो के, तेन एकेकनी उपर हेत
 राखे ठे, तथापि वास्तविक रीते जोतां कोइ कोइनुं वहालुं नथी. ॥१॥ ते माटे अनुमति दि
 यो, मया करीने आप ॥ संयम लेई सिंह परे, टालूं जव संताप ॥ ३ ॥ सुणी वयण संश

य पत्नी, नडा करे विचार ॥ व्रतनी वात किशी करे, बालक शालिकुमार ॥ ४ ॥

॥ ढाल १६ मी. ॥ (निड्नी वेरण हुइ रही.-ए देशी.)

नडा कहे नदी जांतिशुं, शीख सांजल हो तुं सुगुण सुपुत्र के ॥ आलालंबन सम सही, तुजथी ठे हो मुज घरनो सूत्र के ॥ न० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ वय लघु ताहरी विचार तुं, तुज दयिता हो ते पिण सवि बाल के ॥ संतानादिक पिण नही, ते माटे हो जून हृदय निहाल के ॥ न० ॥ २ ॥ नीतिमें पिण इम सांजल्यो, वय पहिलीये हो विद्या अज्यास के ॥ बीजी वय सुख विलसवां, त्रीजी वय हो व्रत ग्रहण आयास के ॥ न० ॥ ३ ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम्. ॥ प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वीतिये नार्जितं धनं ॥ तृतीये नार्जितो धर्मः, चतुर्थे किं करिष्यसि ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः-जो तें पहिली वयमां विद्या संपादन न करी, बीजी वयमां धन संपादन न करयुं अने त्रीजी वयमां धर्मसाधन न कस्यो; तो चोथी वयमां तुं शुं करीश? अर्थात् धर्मसाधन करवानो अवसर तो त्रीजी वयमां ठे. तो ते नीति वचन नल्लंघीने हाल करवा केम तैयार थयो तुं? ॥ १ ॥ ते नणी धरुपणमें तुमे, श्रावकव्रत हो धरज्यो थई धीर के ॥ निरतिचारे पालतां, सुख लहीए हो अति दिव्य शरीर के ॥ न० ॥ ४ ॥ बालपणे व्रत ते ग्रहे, जस होवे हो दुःख सबल संसार के ॥ खावा पीवा पिण

नही, वली न हुवे हो कोइनो आधार के ॥ ज्ञ० ॥ ५ ॥ यौवनमें जेहने नही, कांतादिक
 हो ते लिये वली दीख के ॥ मान तजी मधुकर परें, मध्याने हो ज्ञमे लेवा ज्ञीख के ॥
 ज्ञ० ॥ ६ ॥ तूं तो सुखमें ऋगस्थो, नवि जाणे हो सेवकने स्वाम के ॥ वंछित सघलो ताह
 रे, पूरे देवता हो सुत स्नेह सुकाम के ॥ ज्ञ० ॥ ७ ॥ संयम लेइने शूं तुमे, पुत्र साधशो
 हो मुजने कहो अत्र के ॥ देवज्ञोग तुम पास ठे, अधिको किशो हो सुख पामवो तत्र के ॥
 ज्ञ० ॥ ८ ॥ तव कहे शालिकुमर इशुं, संयमथी हो लहिये सुखवास के ॥ माथे नाथ न
 संपजे, वली कोइनी हो करवी नही आश के ॥ ज्ञ० ॥ ९ ॥ सुणि ज्ञज्ञ चित्त चिंतवे, वा-
 त जंभी हो कहे कवण प्रकार के ॥ तात परें ए पिण सही, ठंभी जाशे हो ए सवि घरवार
 के ॥ ज्ञ० ॥ १० ॥ कहे सुण पुत्र तूं चित्तथी, व्रत दोहिलां हो मुनिवरनां तंत के ॥ मेण
 दांत लोहमय चणा, चावंतां हो अति तेह दूरंत के ॥ ज्ञ० ॥ ११ ॥ गंगा सनमुख चालवो,
 रत्नाकर हो तरवो निज बांह के ॥ वायथी जरवा कोथला, जिम दुर्जर हो तिम संयम चा
 ह के ॥ ज्ञ० ॥ १२ ॥ पंच महाव्रत पालवां, वली टालवा हो बेतालीश दोष के ॥ पंचाचा-
 रने यत्नथी, निरदोषे हो करवो तस पोष के ॥ ज्ञ० ॥ १३ ॥ क्रोध कषाय न राखवा, नवि
 ज्ञांखवा हो असमंजस बाल के ॥ शत्रु मित्र सम धारवा, वली वारवा हो मद आठ अतो-

व्रता०
११५

ल के ॥ ज० ॥ १४ ॥ सिंहपरे व्रत आदरी, सिंहनी परे हो पाले ते प्रमाण के ॥ संयम लेई
लमग्रमे, तस जीवित हो संयम अप्रमाण के ॥ ज० ॥ १५ ॥ व्रत पालंतां दोहिलां, नवि
सोहिलां हो सुखीयाने नेठ के ॥ नृप उच्चंगे वेसते, तें जाणी हो ते दैवनी वेठ के ॥ ज० ॥
१६ ॥ ते ज्ञानी यौवन वय लगें, श्रावक व्रत हो धरो सुपरें चित्त के ॥ चढते चढते अनुक्रमे,
पहोची जे हो महोले जिम नित्य के ॥ ज० ॥ १७ ॥ मात वचन ते मानीये, माता तीरथ
हो कही शास्त्रमें सार के ॥ सेवा कीजे शुद्ध मने, लहीये सुख हो स्वर्गादि उदार के ॥ ज०
॥ १८ ॥ यतः ॥ नृपाध्याये दशाचार्यो, अचार्याणां शतं पिता ॥ सहस्रंतु पितुर्माता, गौरवे
णा तिरिच्यते ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—दश नृपाध्याये एक आचार्य, सो आचार्ये एक पिता अने
हजार पिताये एक माता; ते कारण माटे माता सर्वथी मोटी ठे ॥ १ ॥ मात वयण सुणी
ने तदा, मौन करिने हो रह्यो शालिकुमार के ॥ ढाल ए चोथा उलहासनी, कही सोलमी
हो जिनविजये विचार के ॥ ज० ॥ १९ ॥

॥ दोहा. ॥ शालिकुमार मन चिंतवे, हठनो काम न हेव ॥ समय ग्रहीने साधीये,
चिंतित निज स्वमेव ॥ १ ॥ इम आलोची चित्तमें, चढ्यो चतुर चोवार ॥ माता मन ह
रखित अइ, तिम बत्रीशे नार ॥ २ ॥ विलसे कांताथी विषय, पिण मनथी वैराग ॥ जिम

पंखी पंजर पड्यो, जोवे वूटण लाग ॥ ३ ॥ चित्तमें चिंतवते शके, नपनी बुद्धि अनूप ॥ प्र
 मदा ठंडु प्रति दिवस, एकेकी धरि चूप ॥ ४ ॥ हलवे हलवे विषय सुख, ठंरुणनी धरूं टेव
 ॥ अनुक्रमे अनुमति लेयने, वरशुं संयम हेव ॥ ५ ॥ जिम जिम परणीती मुदा, तिम ति
 म तजुं निदान ॥ नियति धरी ते दिन शकी, ठंरु धरी सुज्ञान ॥ ६ ॥ प्रथम दिवस मोजि-
 ण तजी, तिणे तव लाध्यो दाव ॥ वांक सकल ते में कियो, ते दाख्यो प्रस्ताव ॥ ७ ॥ दिन
 बीजे बीजी प्रते, ठोरुण कीध प्रपंच ॥ ते पिण विलखित वदनथी, चिंते ए शो संच ॥ ८ ॥
 त्रीजे दिन त्रीजी तिमज, ठंरी तरुणी जाम ॥ तव सघली चित्त चिंतवे, अहो शुं ए करे
 आम ॥ ९ ॥ अनुक्रमथी ए ठंरुशे, अमने सहि जरतार ॥ ज्ञावीथी बल कोयनो, चाले
 नहि लिगार ॥ १० ॥

॥ ढाल १७ मी. ॥ (हरियां मन लाग्यो.—ए देशी.)

एहवे ते धना गृहे, सतीय सुजडा विख्यात रे ॥ स्नेही सुण मोरा ॥ पतिने स्नान
 करावते, चित्त सांजरियो आत रे ॥ स्नेही सुण मोरा ॥ एहवे० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ रुस
 रुसती रूदन करे, नयनथी नीर प्रवाह रे ॥ स्ने० ॥ ठाती मांहे जागीयो, विरह दावानल
 दाह रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ २ ॥ देखी दयिता दूबली, दीन वदन विहाय रे ॥ स्ने० ॥ पूठे धनो

घना०
११६

उ० ४

धण प्रते, कहे चिंतां तुज कांय रे ॥ स्नेही सुण कांता ॥ए० ॥३॥ आठे मांहे अग्रणी, मा
हरा घरनो मंरु रे ॥स्ने०॥ शालिकुमर सरिखो अठे, बांधव रुद्धि प्रचंरु रे ॥ स्ने० ॥ ए०
॥ ४ ॥ तव बोली सा सुंदरी, कंत प्रते करजोरु रे ॥ स्नेही सुण स्वामी ॥ तुम परसादे
माहरे, कदिय न कोय ठे खोरु रे ॥स्ने०॥ए० ॥ ५ ॥ शालिकुमर बांधव अठे, अग्रज अति
हि विख्यात रे ॥ स्ने० ॥ स्नेहप्रकी पासि रहे, देव स्वरूपी तात रे ॥ स्ने० ॥ए०॥ ६ ॥ नृप
मंदिर आख्या पठी, कोई अयो विज्ञान रे ॥ स्ने० ॥ मौनपणे वेसी रहे, जिम योगीसर
ध्यान रे ॥ स्ने० ॥ए०॥ ७ ॥ जोगतणी तृष्णा नही, योग ग्रहण मन टेव रे ॥स्ने०॥ (दिन
दिन एकेकी प्रते, ठंरु ठे सुविवेक रे ॥) जोजन पाणी नावि रुचे, न रुचे नृत्य कृणामेव रे
॥स्ने०॥ए० ॥ ८ ॥ रमणी रुद्धि सवि तजी, विषयादिक सुख जोग रे ॥ स्ने० ॥मासानंतर
तेहवे, लेशे संयम योग रे ॥स्ने०॥ए०॥ ९ ॥ ते दुःख चित्तमें सांजरे, साले साल समान रे
॥ स्ने० ॥ मामीना जाया पखे, पीयरमां शो मान रे ॥स्ने०॥ए०॥ १० ॥ नित नित आज्ञ
पण नवां, नव नवां वख नदार रे ॥ स्ने० ॥ हेज धरी कुण आप्णो, आवे शुज तिथि वार
रे ॥स्ने०॥ए०॥ ११ ॥ कुण कहेशे मुज वहिनमी, सायतमें तो वार रे ॥स्ने०॥ केहने बांध
शुं राखमी, घणि घणि करी मनुहार रे ॥स्ने०॥ए० ॥१२॥ हवे किहांथी अमे देखशुं, शुज

११६

लक्षण ज्ञत्रीज रे ॥ स्ने० ॥ केहने जोजन पिरसीने, लेखवशुं ज्ञावबीज रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥
॥ १३ ॥ स्त्री पीयरने ऊपर, सासरे मुहथ्री थाय रे ॥ स्ने० ॥ बांधव विण पीयर कीशो, जेह
वी विसुकी गाय रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ १४ ॥ ए दुःख मुजने इण जवे, कहो किम विसरे कंत रे
॥ स्ने० ॥ तिण दुःखथ्री मुज नयणथ्री, नीर ऊरे ठे एकांत रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ १५ ॥ तव धनो
कहे गोरनी, बांधव दुःख ते साच रे ॥ स्नेही सुण कांता ॥ पिण कायर शिर सेहरो, तुज
अग्रज सुण वाच रे ॥ स्ने० ॥ १६ ॥ जे त्यागी जगमें थया, ते किम करेय विचार रे ॥
स्ने० ॥ जेह विचार करी रह्या, ते कायर शिरदार रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ १७ ॥ दाऊया ऊपर जे
इवो, खार दिये जिम कोय रे ॥ स्नेही सुण स्वामी ॥ बांधव दुःख नपर तिसो, कंत व-
चन तिम होय रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ १८ ॥ तव कहे प्रीतम सांजलो, मुज बांधवनी वात रे ॥
स्ने० ॥ यौवन वय युवती ज्ञणी, ठंमे ते अखियात रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ १९ ॥ कवनी एकने मू-
कते, करे विमासण वीश रे ॥ कोमिगमे धन परिहरे, मुज बांधव सुजगीश रे ॥ स्ने० ॥
ए० ॥ २० ॥ रत्नजनीत वर मालीयां, जालियां मणिमय जोय रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ अहिनाणे
धनतणो, लेखो किणि विधि होय रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ २१ ॥ रात दिवस नवि जाणतो, रवि
शशि नदय विचार रे ॥ स्ने० ॥ ते दीक्षा व्रत पालवा, राखे मन इक तार रे ॥ स्ने० ॥

ए० ॥ ११ ॥ वय चोश्रीमें वीसम्यां, दंपति जे तनु खीण रे ॥ स्ने० ॥ ते पिण व्रत लेवा न
णी, मन न धरे मति हीण रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ १३ ॥ यतः ॥ अंगं गलितं पलितं मुंरुं, दश नवि
हीनं जातं तुंरुं ॥ वृक्षोयाति गृहित्वा दंरुं, तदपि न मुंचत्याशा पिंरुं ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—अंग ग
ली गयुं, माथुं पलियावालुं थयुं, मुख दांत विनानुं थयुं अने वृक्ष थयो ठतो लाकरो लेइ रु
कमक करीने चाले ठे, तेम ठतां पण आशापिंरुने मूकतो नथी ॥ १ ॥ मुज बांधव अवहेलते,
शुं नावे तम लाज रे ॥ स्ने० ॥ गुण लीजे तेहना सदा, जे करे उत्तम काज रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ १४
॥ कहेवो जगमें सोहलो, पिण करतां जंजाल रे ॥ स्ने० ॥ कायर नरना बोलना, आये आल
पंपाल रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ १५ ॥ यतः ॥ कहेता दीसे कोरु, करता दीसे को नहि ॥ एहज मो
टी खोरु, एक लंपट बीजा लालचो ॥ १ ॥ मुज बांधव सम जगतमें, डुजो कोय न दीठ रे
॥ स्ने० ॥ सुख ठंरी संयम ग्रहे, करी संसार अनीठ रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ १६ ॥ दिन वत्रीशे ठंरु-
शे, बांधव नारी वत्रिश रे ॥ स्ने० ॥ पिण एक वातज माहरी, सांजलो विसवा वीश रे ॥
स्ने० ॥ ए० ॥ १७ ॥ जो वलिया तुमे तेहथी, वचनतणा प्रतिपाल रे ॥ स्ने० ॥ तो आठे अंतेठ
री, ठंरुने समकाल रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ १८ ॥ वचन सुणी वनितातणां, धन्नो समज्यो धीर रे
॥ स्ने० ॥ चोथे उलहासे सत्तरमी, जिन कहे गुण गंजीर रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ १९ ॥

(॥ दोहा. ॥ तव धन्नो कहे धन्य तुं, जलो दियो उपदेश ॥ आठे ठंढी आजधी, लि
 उं संयम सुविशेष ॥ १ ॥ में कीधो ताहरो कह्यो, सुपरे धरी सनेह ॥ तूं जगिनी माहरे म
 ने, अविचल लगपण एह ॥ २ ॥ इम कही ततक्षण ऊठीयो, लेवा संयम जार ॥ जामिनी
 आठे आविने, पालव ग्रहे तिवार ॥ ३ ॥ कहे सुजज्ञ स्वामि मुज, खमज्यो अविनय एह
 ॥ दुःख दाज्याथी वयण जे, कह्युं अघटतुं तेह ॥ ४ ॥ आसंगे अविनय हुवे, धीर न धारे
 चित्त ॥ हांसो करतां तुम तणो, कार्य अयो विपरीत ॥ ५ ॥

॥ ढाल १७ मो. ॥ (देशी हमीरियानी.)

कहे करजोमी कंतने, सतीय सुजज्ञ एम ॥ प्रीतमजी ॥ हांसीथी इठ किम करो,
 राखो पूरण प्रेम ॥ प्री० ॥ कहे० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ मात पिताये मोदथी, सोंप्यां तुमने
 स्वाम ॥ प्री० ॥ तुमे इम ठोमी चालशो, तो अमने कुण ठाम ॥ प्री० ॥ क० ॥ २ ॥ स्त्रीने सु
 ख संसारमें, कंतने कहे सहु कोय ॥ प्री० ॥ सुकुलीणीने कंतथी, अधिको कोय न होय ॥
 प्री० ॥ क० ॥ ३ ॥ आठेने अवहेलते, पामशो शोना केम ॥ प्री० ॥ कां अमने जूनां करो,
 नाथ अईने एम ॥ प्री० ॥ क० ॥ ४ ॥ रुदन करे पालव ग्रही, पय प्रणमे करजोरु ॥ प्री० ॥ तव
 धन्नो धीरज धरी, कहे तुं मुजने ठोरु ॥ सलूणी ॥ धन्नो धण प्रते बूजवे ॥ ५ ॥ ए आंकणी ॥

तुज सरिखी हितवांगिका, अवर न नारी होय ॥ स० ॥ जे तारे जवजल थकी, सबल स-
 खाई सोय ॥ स० ॥ ध० ॥ ६ ॥ में ताहरो वच मानीयो, सुपरे धरी संवेग ॥ स० ॥ हित देखा-
 ज्यो हेजथी, टाळयो मन नदवेग ॥ स० ॥ ध० ॥ ७ ॥ वय वली जाइो वेगथी, बलथी इंडिय
 हीन ॥ स० ॥ व्याधि जरा जव लागइो, तव सवि वाते दीन ॥ स० ॥ ध० ॥ ८ ॥ अश्रिर संसा
 रमां ए सहु, मिलियो ठे संबंध ॥ स० ॥ संध्या राग तणी परे, अश्रिरशुं शो प्रतिबंध ॥ स०
 ध० ॥ ९ ॥ यतः ॥ शिखरिणीवृत्तम् ॥ श्रियो विद्युत्तोल्ला कतिपयदिनं यौवनमिदं, सुखं
 दुःखाक्रांतं वपुरनियतं व्याधिविधुरं ॥ गृहावासःपासः प्रणयतिसुखं स्वैर्यविमुखं, असारः
 संसारः स्तदिहनियतं जागृत जनाः ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—लहमी बीजलीना चमत्कार जेवी चं
 चंद ठे, आ जुवानी केटला दिवस रहेवानी? सुख ठे ते दुःखथी व्यास ठे, निश्चे आ शरीर
 व्याधिग्रस्त ठे, गृहस्थाश्रम पास जेवो ठे, स्त्रीनुं सुख अस्थिर ठे अने आ संसार असार
 ठे! ते कारण माटे हे लोको! निश्चे तमे इहां जागृत थान ॥ १ ॥ धननो पिण मद कार-
 मो, ते तो दीगो परतक ॥ स० ॥ ते इणे जवे माटी वही, जोय विचारी दक ॥ स० ॥
 ध० ॥ १० ॥ नर जव पामी चेतीये, तो सीजे सवि काज ॥ स० ॥ तप संयम संयोगथी,
 लहिये अविचल राज ॥ स० ॥ ध० ॥ ११ ॥ वार अनंती नीपन्यो, ए सगपण संयोग

॥ स० ॥ विषयारस वाहे अके, जोगविया बहु जोग ॥ स० ॥ ध० ॥ ११ ॥ तृपतो जीव अयो
 नही, अविरतिथी कोइ काल ॥ स० ॥ तेहजणी तुं सुंदरी, सुपरे हृदय निहाल ॥ स० ॥
 ध० ॥ १३ ॥ वचन सुणी पियुनां तदा, कहे ते सुजडा जाम ॥ प्री० ॥ तुम साथे माहरे स
 ही, करवो उत्तम काम ॥ प्री० ॥ कहे करजोरी कंतने ॥ १४ ॥ ए आंकणी ॥ पंचनी साखे
 पालव ग्रहो, ते किम मूकयो जाय ॥ प्री० ॥ ते जणी संयम माहरे, लेवो तुमचे सहाय ॥
 प्री० ॥ क० ॥ १५ ॥ तव बोली साते सती, अनोपम करी आलोच ॥ प्री० ॥ सतीय सुजडा
 नी परे, अमचो पिए आलोच ॥ प्री० ॥ क० ॥ १६ ॥ अवर न को आधार ठे, अमचे इणे सं
 सार ॥ प्री० ॥ तुम साथे तेह कारणे, लेइशुं संयम जार ॥ प्री० ॥ क० ॥ १७ ॥ धनो कहे साची
 तुमे, पतिवृता व्रत परिपाल ॥ स० ॥ संगतिथी सरवे अयां, व्रत लेवा नजमाल ॥ स० ॥
 क० ॥ १८ ॥ त्याग कियो तिणे तुरतमें, परिग्रहनो नही पार ॥ स० ॥ चोथे नडहासे अढार
 मी, जिन कहे धन्य परिवार ॥ स० ॥ क० ॥ १९ ॥

॥ दोहा. ॥ अथ ते धनाशाहने, रुद्धितणो परिमाण ॥ हय गय रथ गृह हट्ट तिम,
 पंच पंच शत मान ॥ २॥ पांचशे प्रवहण परगनां, पन्नरशे वर ग्राम ॥ वाणोतर एक सहस
 तिम, गोकुल आव सुकाम ॥ ३ ॥ सप्तचूमि आवास अरु, आवे प्रिया नदार ॥ कोरि एकेकी

तेहने, कंचन कस्यो सुप्रकार ॥३॥ ठप्पन क्रोम निधिमें रहे, ठप्पन क्रोम व्यवसाय ॥ ठप्पन
क्रोम व्याजे वधे, कर्प संख्या इम प्राय ॥४॥ लक्ष्मणे कोठार तिम, धान्यतणा परिपूर्ण ॥
इत्यादिक सवि रुद्धिने, ठंफी धन्ने तूर्ण ॥५॥ सुरमणि आदे अवर पिण, रत्तराशि रमणीक
॥ नवनिधि परिग्रह सकलने, तृणपरे तजे ते ठोक ॥६॥ सपरिवार धनो तदा, संयम लेवा
काज ॥ चिंते जो मुज जाग्यथी, समवसरे जिनराज ॥ ४ ॥

॥ ढाल १ए मी. ॥ (वे वे मुनिवर वहोरण पांगस्था जी.-ए देशी.)

एहवे तिहां पुण्यप्रयोगे आविया जी, जिनपति वीर जिणंद विख्यात रे ॥ समवस
रण देवे सुपरे रच्यो जी, तेजे करी दिव्य साहात रे ॥ एहवे०॥१॥ ए आंकणी ॥ चौत्रीश
अतिशय सुंदर शोभता जी, अष्ट महाप्रातिहार्य उद्दाम रे ॥ सहस जोयणतो इंध्वज
तिहां जो, आगे तिम धर्मचक्र अजिराम रे ॥ ए० ॥ २ ॥ त्रिगणो विराजे मणि कल्याणथी
जी, कोशीशा रत्न विचित्र सुतेज रे ॥ मणिमय सिंहासन शोभे घणुं जी, उत्र त्रय अमर
धरे धरी हेज रे ॥ ए० ॥ ३ ॥ चौवीश चामर वीजे देवता जी, ज्ञामंरुल तरणि सहस
सम नूर रे ॥ वाय्व विराजे चिहुं दिशि वारणे जी, देव विनिर्मित जलथी पूर रे ॥ ए०
॥ ४ ॥ चौविह संघ संग्रहे परिवस्था जी, समवसरणमें श्री जिनराज रे ॥ बेसी सिंहास

ने मेघ तणी परे जी, वरसे वचनामृत ज्वि हित काज रे ॥ ए० ॥ ५ ॥ परषद वारे आवे
 प्रेमशुं जी, वांदिने वेसे विनयश्री ताम रे ॥ सांजले सुपरे शिवसाधन जणी जी, देशना
 अद्भूत गुण अन्निराम रे ॥ ए० ॥ ६ ॥ आरामिके दीधी जाइ वधामणी जी, नृपति श्रेणि
 कने अति उडहास रे ॥ सांजली नृप हर्षित अइ तेहने जी, १कनकरसनादिक दिये सुविला
 स रे ॥ ए० ॥ ७ ॥ धनोशाह सांजली आव्या जन प्रते जी, धणने कहे सीधां वंठित काज रे
 ॥ जेहनी अजिलापा मन हूती घणी जी, ते प्रभु पाउ धर्या जिनराज रे ॥ ए० ॥ ८ ॥
 संयम लेतां विलंब न कीजीए जी, एहवो फिरी मिलवो जोग ते दूर रे ॥ साहिव थापी
 वीर जिणंदने जी, कर्मने हणवा थानु शूर रे ॥ ए० ॥ ९ ॥ कंत वयण सुणी संयम साधवा
 जी, प्रमदा पिण अइ अतिहि उजमाल रे ॥ सातहेत्रे धन सघलो वावरी जी, दान प्रमुख
 पिण अतिहि विशाल रे ॥ ए० ॥ १० ॥ परुघा तिम नुघा शकुत्री हाटशी जी, देई धन लक्ष
 प्रमित तेणिवार रे ॥ तिम वली काश्यपने तेमाविने जी, केशाग्र समरावे स्त्री जरतार रे
 ॥ ए० ॥ ११ ॥ सहस्र पुरुष निर्वाहक शिविका जी, मंरावे तिहां सिंहासन सुप्रमाण रे ॥
 साजन सघला ततक्षण आविया जी, कहे मुख होज्यो तुम कल्याण रे ॥ ए० ॥ १२ ॥ अ

१ सुवर्णनी जीज विगेरे. २ सर्व वस्तुना बेचनार कुत्रिकापणी उक्तानेथी.

जयकुमर पिण आवी इम कहे जी, धन्य धन्य धन्नोशाह सुजाण रे ॥ धन्य धन्य ए परि-
कर रामातणो जी, पतिवृता विरुद ते एह प्रमाण रे ॥ ए० ॥ १३ ॥ ए वय ए धन एहवी
अंगना जी, तजीने जे लेवे संयम जार रे ॥ ते तो न्यायेथी शिवरमणी वरे जी, इम सह
जंपे नरने नार रे ॥ ए० ॥ १४ ॥ वाजां तिहां वाजे विविध प्रकारनां जी, जय जय बोले
चारण जाट रे ॥ दान धराये वरसे तेहने जी, मिलिया तिहां नर नारीना आट रे ॥ ए० ॥
१५ ॥ धन्नोशाह संयम लेवा संचरे जी, प्रमदाथी सोहे जेहवो इंद रे ॥ ढाल नगणीशमी
चोशा नुडहासनी जी, कही इम बुध जित्तविजये अमंद रे ॥ ए० ॥ १६ ॥

॥ दोहा. ॥ वात सुणी धन्नातणी, जे ए लेवे दीख ॥ आवे स्त्री साथे अधिक, सुणी
सुन्नज्ञ शीख ॥ १ ॥ परिग्रह सघलो परिहरी, ठंमी माया मोह ॥ संयम लेवा संचरे, जि
म रण जूमि १जोह ॥ २ ॥ शालिन्नइ चित चिंतवे, जूनु धन्नानी वात ॥ वचन थकी वा-
मी करी, चाडयो करि अखियात ॥ ३ ॥ हुं एकेकी दिनप्रते, ठंमू रमणी जेह ॥ कायर ध-
ने जे कह्यो, तेहमां नही संदेह ॥ ४ ॥ जो ठोरुणानो मन अयो, तो तिहां किशो विलंब ॥
इम चिंती ज्ञज्ञ कने, आवे अति अविंब ॥ ५ ॥ पय प्रणामीने वीनवे, में तुम वयण प्रमा

ण ॥ तो ते हवे तुमे माहरो, वंठित करो सुजाण ॥ ६ ॥ धत्रे पिण धश वयणथी, ठो-
 ड्यो सयल संसार ॥ ते माटे हुं पण हवे, ठंढीश विपय विकार ॥ ७ ॥ माता मोटम मन
 करी, दियो संयम आदेश ॥ वीर समीपे व्रत ग्रही, टालूं सयल क्रिजेश ॥ ८ ॥ ज्ञज्ञ चिं
 ते एदने, क्रिणि विघ राखुं गेह ॥ वहिन वनेवी विहुं मित्यां, सहचारी ससनेह ॥ ९ ॥
 तो पिण वचनं क्ख्या तणी, किम राखीजे हाम ॥ रोईने घर राखीये, कीजे स्वार्थिक का
 म ॥ १० ॥ यतः ॥ अनुपुवृत्तम्. ॥ अपमानं पुरस्कृत्य, मानं कृत्वा च प्रष्ठतः ॥ स्व-
 कार्यं साधयेद्दिमान्, कार्यत्रंशो हि मूर्खता ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—अपमानने आगल करीने
 अने मानने पाठल करीने बुद्धिमान पुरुष पोतानुं कार्य साधे, परंतु कार्यनो नाश करवो,
 ए तो मूर्खपणुं ठे. ॥ १ ॥

॥ ढाल १० मी ॥ (अरणिक सुनिवर चाट्या गौचरी.—ए देशी.)

ज्ञज्ञ वलती रे शालिकुमर ज्ञणी, गद गद स्वरथी वाणी रे ॥ रमती बोले रे पुत्र में
 ताहरी, वात हृदयनी जाणी रे ॥ ज्ञज्ञ ० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ तूं जाणे ठे रे संयम आद-
 रुं, पिण कोइ खबर न राखे रे ॥ माताने आधार ते तुज विना, अवर किशो तूं दाखे रे ॥
 ज्ञ० ॥ १ ॥ बालपणामां रे मनमां जाणती, पुत्र होशे जव मोटो रे ॥ वृक्षपण सुजने

तव पालशे, माहरे कोइ न त्रोटो रे ॥ ज्ञ० ॥ ३ ॥ वत्रीश बहुने रे बालक आवशे, ते आलं
वन आशे रे ॥ दैवे वात न को पूरी करी, शूं जाणे ईम जाशे रे ॥ ज्ञ० ॥ ४ ॥ यतः
॥ आर्यावृत्तम् ॥ अघटितघटितानि घटयति, सुघटितघटितानि जर्जरीकुरुते ॥ विधिरे
वतानि घटयति, यानि पुमान्नैव चिंतयति ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—दैव जे ठे, ते जेस तेम घमेली
चीजोने सारी बनावे ठे अने सारी रीते गठारी मठारेली चीजोने खोखरी करी नांखे ठे!
माटे दैव चीजोने तेबीज वतावे ठे के, जेनो पुरुष पण विचार न करी शके! अर्थात् दैव-
नी अकल शक्ति ठे ॥ १ ॥ माहरो दैवे रे आयु अधिक कख्यो, जे दुःख देखण वेठी रे ॥
नाग कंचुकी परे तुं ठंढे ईहां, तुज विरहानले पेठी रे ॥ ज्ञ० ॥ ५ ॥ कोइ न बालक पाठल
ताहरे, जे आलंवन कीजे रे ॥ पूरवकृत फल सवि आवी मीढ्यां, दोउ ते केहने दीजे रे
॥ ज्ञ० ॥ ६ ॥ नव मसवामा रे नदरे ऊधख्यो, बालपणाथी पोष्यो रे ॥ ते कोइक दिन केरे
कारणे, नवि जाणुं ईम होशो रे ॥ ज्ञ० ॥ ७ ॥ ए वत्रीशे रे सुंदर गोरमी, शे दोपे तुं ठंढे रे ॥
सुकुलीणीने रे खीजववा ज्ञणी, एवमो शो हठ मंढे रे ॥ ज्ञ० ॥ ८ ॥ ए कठोर जंमार धने
जख्या, तेहने कहो शूं कीजे रे ॥ तेह थकी अमे विविधे वीनबुं, पिण तूं तिल नवि ज्ञीजे रे
॥ ज्ञ० ॥ ९ ॥ तुम विरहे एक कृपा ते मुज प्रते, वरस समाशी आशे रे ॥ तो कहे कुमर

मुजने तुज विना, जनम सयल किम जाशे रे ॥ ज० ॥ १० ॥ ताहरे ताते जे दीक्षा ग्रही,
 ते तुजने गृहे श्रापी रे ॥ तुं केहने सोंपी दीक्षा ग्रहे, ते कहे मुज मति आपी रे ॥ ज० ॥
 ११ ॥ माता ठोकी रे संयम आदरो, निज सुख साधन हेते रे ॥ पिण माता तीरश्र मोटो
 कह्यो, जिन शिवमत संकेते रे ॥ ज० ॥ १२ ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम्. ॥ प्रस्तरः प्रतिमां मूढ,
 वृथा धर्मार्थमर्चसि ॥ धर्मेणकार्यं यदिचेत्, त्रीसंध्यं जनन्यो नमः ॥ १३ ॥ ज्ञावार्थः—हे मू-
 र्ख ! तुं धर्मने माटे पापाणनी प्रतिमाने फोगट पूजे ठे ! जो तहारे धर्मवने कार्य होय, ता
 जण संध्याए (सवारे, वपारे अने सांजे) पोतानी माताने नमस्कार कर. ॥ १४ ॥ वाज
 पणो जो रे तुजने सांजरे, ज्ञानश्रकी एणी बेला रे ॥ तो मुजने तूं ठोकरा वारता, न करे
 मुखथी स्हेला रे ॥ ज० ॥ १५ ॥ तुज विरहे घर पिंजर पंखीयां, प्राण प्राहूणा श्राशे रे ॥
 ए धन प्रसुख सत्रे स्वामी विना, राजजुवनमां जाशे रे ॥ ज० ॥ १६ ॥ गोद विठार्ई रे तु-
 जने वीनयुं, जननी मूकी म जायो रे ॥ वीशमी ढाल रे जिन कहे नेहथी, कहो गुं न क
 हे मायो रे ॥ ज० ॥ १७ ॥

॥ दोहा, ॥ शालि कहे रे मातजी, साच कही सत्रि वात ॥ मरण समय आवे
 श्रके, कुण करशे सुखशात ॥ १ ॥ वनमांहे जिम मृगप्रते, लीये सिंह उलाल ॥ तिम जम

आवे जन प्रते, लेइ चाले ततकाल ॥ १ ॥ जरा आवशे वेगथी, तनु उपजशे रोग ॥ पंचेंडि
य वल हारशे, तव नही धर्म संयोग ॥ ३ ॥ यतः ॥ शार्दूलविक्रीतवृत्तम्. ॥ यावत् स्व-
स्थ मिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो, यावच्चेंडिय शक्तिरप्रतिहता यावच्चिरोवायुपः ॥ आत्म
श्रेयसि तावदेवहिजनैः कर्त्तव्यधर्मोद्यमः, संदिप्ते जुवने हि कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः ॥
१ ॥ ज्ञावार्थः—ज्यां सूधी, आ शरीर स्वस्थ अने रोग विनानुं ठे, वृद्धावस्था वेगली ठे, इंडि
योनी शक्ति कायम ठे अने आयुष्य लांबु ठे; त्यांसूधी माणसोए पोताना आत्म कल्याण-
ने अर्थे धर्मोद्यम करवो जोइए; परंतु घर लाग्या पठी कूवो खोदवानो उद्यम करवो, ए
केवो? नकामो ! ॥ १ ॥ ते ज्ञणी अनुमति द्यो हवे, जिम संज्ञालूं आप ॥ वीर वचन दिल
में धरी, अजुवाळूं मा वाप ॥ ४ ॥ एहवे वत्रीशे मिली, कामिनी करे विचार ॥ कंते हठ
मांड्यो अठे, लेवा संयम ज्ञार ॥ ५ ॥ सासूजी सुपरें कह्यो, घरवट वात विचार ॥ पिण नवि
माने वचन तस, आपमती ज्ञरतार ॥ ६ ॥ नीति रीतथी ज्ञांखीयो, स्वामीशूं धरी स्नेह ॥
कंत विना झां कामनां, ए धन ज्ञूपण गेह ॥ ७ ॥

॥ ढाल ११ मी ॥ (जिनजी चंडप्रज्ञू अवधारो के नाथ निहालजो रे लो.—ए देशी.)

साहिवा तव वत्रीशे नार मिली कहे नाहने रे लो, साण अति आकूञ्जथी ताम के पा-

लव साहिने रे लो ॥ सा० किम जावो गो ठोमि के मोहन माहरा रे लो, सा० अमे किम
 गोडुं एम के पालव ताहरो रे लो ॥ माहरा वालमा रे लो ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ सा० तुम
 गुं अमचो नेह के पूरव प्रीतथी रे लो, सा० लाग्यो अविहक नेह के जिम ठोह ज्ञीतथी
 रे लो ॥ सा० धोयो ते न धोवाय के अति घणा नीरथी रे लो, सा० प्रीत बनी एक रंक
 के जिम जल खीरथी रे लो ॥ मा० ॥ २ ॥ सा० गुं अम ठोरण काज के परणी प्रेमथी
 रे लो, सा० के अमे आवी अत्र के अलवे एमथी रे लो ॥ सा० अमचा पिण मावाप के ठे
 घरमां सुखी रे लो, सा० अमने सोंप्यां जेह के गुं करवा दुःखी रे लो ॥ मा० ॥ ३ ॥ सा०
 तुमे अम मस्तक मोरु के अमे तुम वाणही रे लो, (सा० तुम्ची आणा जेह के कदि लो
 पी नही रे लो) सा० सुपरे पालो स्नेह के निरवाही सही रे लो ॥ सा० सापुरिसानी री-
 ति के राखो हेजथी रे लो, सा० अंगीकृत निरधार न मूके खीजथी रे लो ॥ मा० ॥ ४ ॥
 सा० जुनु इश्वर अर्धांग उमादेवी धरी रे लो, सा० कृण एक मात्र विचाल न मूके ते परी
 रे लो ॥ सा० मस्तकमें तिम गंग धरे बहु यत्नथी रे लो, सा० अंगीकुतने काज न मूके प्र-
 यत्नथी रे लो ॥ मा० ॥ ५ ॥ यतः ॥ वसंततिलकावृत्तम् ॥ अद्यापि नोज्जतिहरः कलिका-
 लकूटं, कूर्मोर्विर्जतिधरणिं किल पृष्ठकेन ॥ अंजोनिधिस्सहति दुस्सह वामवाग्निं, अंगीक-

तं सुकृतिनः परिपालयंत ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—शिव हजु सुधी कालकूट ऊरने गोमी देतो न
थी, काचवो (कञ्जपावतारमां) जे ठे, ते पृथ्वीने पोतानी पीठे धरी राखे ठे अने समुद्र
डुस्सद् एवी वरुवानल अग्निने सहन करे ठे ! माटे जला पंरित पुरुषो, अंगीकार करेलाने
त्याग करता नथी. ॥ १ ॥ सा० आश्रित माटे सर्प कंठे चूपण कीयो रे लो, सा० कालकू-
ट विप डुष्ट ग्रही ज्ञक्षण कियो रे लो ॥ सा० लक्ष्मीने जुन कृष्ण उठंगे जालवे रे लो,
सा० मोरलो मधुरे नाद सुसादे आलवे रे लो ॥ मा० ॥ ६ ॥ सा० कहो पियुजी तुमे डुष्ट
अथा गो शा जणी रे लो, सा० अमचा मनमें होंश हती वद्वज घणी रे लो ॥ सा० कोई
क दाखो दोष सुघोष करी मुखे रे लो, सा० के कोइ देइ आधार पठे जाज्यो सुखे रे लो ॥
मा० ॥ ७ ॥ सा० दैवप्रयोगे एम जो मति तुमची फरी रे लो, सा० नवि दीधी वली तेम
ज केहने दीकरी रे लो ॥ सा० पुत्रतणी तो होंश पूरी किहांथी पने रे लो, सा० दैव संग-
अे जोर किसीपरे निवने रे लो ॥ मा० ॥ ८ ॥ सा० ते जणी वाल वे चार हुवे अमचे यदा
रे लो, सा० ते आधार उदार होशे अमने तदा रे लो ॥ सा० पठे सुखे लेजो दीख कहुं तुं
आजथी रे लो, सा० यदवा तदवा बोल न बोलूं लाजथी रे लो ॥ मा० ॥ ९ ॥ सा० वय
अमची लघु देखि दया नथी आवती रे लो, सा० जे जिनधरममें सार कही ठे ते वती रे

लो ॥ सा० वलि तजवो अजिमान सिद्धांते ए वकी रे लो, सा० ते तुमे राख्यो चित्त के
 नृप आद्या प्रकी रे लो ॥ मा० ॥ १० ॥ सा० विनयमल जिनधर्म अमे पियु सांजळ्यो रे
 लो, सा० माताने दिवगीर करंतां ते गळ्यो रे लो ॥ सा० जोवो हृदय विमास ए साची
 वातनी रे लो, सा० रमणिने कुण करे हेत कंता विण इम जनी रे लो ॥ मा० ॥ ११ ॥
 सा० पंचनी साखे हाथ्र ग्रहो ते निरवहो रे लो, सा० जाशुं जाशुं एम के मुखथी शूं कहो
 रे लो ॥ सा० शूं तुम लाग्युं जूत के व्यंतर आश्रम्यो रे लो, सा० के शूं जनीकी सान के
 कथन न को गम्यो रे लो ॥ मा० ॥ १२ ॥ सा० इम वत्रीशे नारि विविध वचने करी रे
 लो, सा० समजावे निज नाह के सुपरे सुंदरी रे लो ॥ सा० नवि जेदाणो नाह के नेह न
 राखीयो रे लो, सा० पाळो पिण तस उत्तर एक न ज्ञांखीयो रे लो ॥ मा० ॥ १३ ॥ सा०
 तव थाकी ते नार गई सासू कने रे लो, सा० पाय नमीने वात कहे सवि शुज मने रे
 लो ॥ सा० नित्य एकेकी त्याग करंतो कामिन रे लो, सा० आज तो सघली तेम तजे कां
 ज्ञामिनी रे लो ॥ मा० ॥ १४ ॥ सा० जे वली कोय उपाय होवे ते दाजवो रे लो, सा० उ
 लले गामे गणेश हवे शो ज्ञाखवो रे लो ॥ सा० ए एकवीशमी ढाल चोथा उल्लासनी रे
 लो, सा० कही जिनविजथे एह के वचन विलासनी रे लो ॥ मा० ॥ १५ ॥

॥ दीदा. ॥ मातये सुत स्नेहश्री, विविध कख्या विलाप ॥ तिम स्त्री पिण सघली
मली, दाख्या कला कलाप ॥ १ ॥ शालिज्ज नवि जेदियो, मन वचश्री महिराण ॥ शील
सन्नाइने शूं करे, मनमथ नृपनां वाण ॥२॥ तव माता कहे ताहरे, शो ठे मन आलोच ॥
शालि कहे संयम ज्ञणी, हुं करुं सयल संकोच ॥ ३ ॥ माता चिंते मुज थकी, अनुमति
किम देवाय ॥ ए पिण घरमां नवि रहे, अही ठहुंइरी न्याय ॥ ४ ॥ एहवे गौज्जइ देव तव,
कहे ज्ञज्ञने आम ॥ अनुमति यो दीक्षा तणी, शालिज्जणी सुखकाम ॥५॥ तव ज्ञज्ञ मन
दृढ करी, कहे वड तुम सुख जेम ॥ तिभ करो अति अखिलंश्री, सदा रहो तुज खेम ॥
६ ॥ ज्ञज्ञ लेई जेटणो, पहोती श्रेणिक पास ॥ करजोनी कोमल स्वरे, एम करे अरदास
॥ ७ ॥ शालिकुमर संयम ग्रहे, ठंणी सयल संसार ॥ ते ज्ञणी ठत्रादिक सपे, आपोजी
इणिवार ॥ ८ ॥ सुणि श्रेणिक विस्मित थयो, कहे ज्ञज्ञने वाण ॥ उठव दीक्षानो अधिक,
अमे करशुं इणे ठाण ॥ ९ ॥ रजोहरण परुघो तिहां, देई लक्ष दीनार ॥ कुतियावणश्री
आणीया, ज्ञज्ञपे तिणिवार ॥ १० ॥

॥ ढाल ११ मी. ॥ (देशी जूवखमानी.)

श्रेणिक सवि परिवारशुं रे, आवे शालि आगार ॥ सनेही साजता ॥ उठुं गे आणंद

शुं रे, वेसारे तेणिवार ॥ सनेही साजना ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ शा माटे संयम ग्रहो रे,
 आ यावन वय मांइ ॥ स० ॥ जोगविये लक्ष्मी जली रे, रहो मुज बांहनी ठांइ ॥ स० ॥ १॥
 शालि कहे तव रायने रे, तुमे कह्यो ते सवि साच ॥ स० ॥ जन्म मरण जयथी सदा रे,
 राखी सको कहे वाच ॥ स० ॥ ३ ॥ श्रेणिक कहे एहथी सवे रे, जय पामे सवि जीव ॥
 स० ॥ अरिहंत विण नवि एहनो रे, जय वारण ते सदैव ॥ स० ॥ ४ ॥ शालि कहे ते जयज
 णी रे, टालवा लिजं चारित्र ॥ स० ॥ तव श्रेणिक शालिज्जने रे, नमण करावे पवित्र ॥
 स० ॥ ५ ॥ पूजा श्री जिनराजनी रे, विरचे सत्तर प्रकार ॥ स० ॥ अष्टायिक उंठव करे रे,
 खरचे दाम अपार ॥ स० ॥ ६ ॥ अनुकंपादिक अतिघणा रे, देवरावे तिणिवार ॥ स० ॥ का
 श्यपने तेने तदा रे, धै तस लक्ष दीनार ॥ स० ॥ ७ ॥ चार अंगूल वरजी सवे रे, समरावे
 शिर केश ॥ स० ॥ तव जज्ञा रोती थकी रे, पालव ग्रहे सुविशेष ॥ स० ॥ ८ ॥ धोई सुवासित
 नोरथी रे, धूपे धूपे तास ॥ स० ॥ तिथि परवे ए देखशुं रे, पुत्रना केश प्रकास ॥ स० ॥ ९ ॥
 रत्नकरंने थापिने रे, राखया यतने तेइ ॥ स० ॥ उंठव दीक्षानो तिहां रे, श्रेणिक करे सस
 नेइ ॥ स० ॥ १० ॥ पुनरपि स्नान कराविने रे, वस्त्राजरण विशेष ॥ स० ॥ पदिरावे प्रेमे करी

रे पुष्पदाम सुविशेष ॥स०॥ ११ ॥ शालिकुमरने सिंहासने रे, शिविकामांही बेसार ॥स०
 वत्रीशे नारी तिहां रे, बेठी करी शिणगार ॥स०॥१२॥ सहस पुरुष वहे शिविकारे, शो
 जित शुचि करि गात्र ॥ स० ॥ आगल ह्य गय रथ जला रे, तिम वली नाचे पात्र ॥स०
 ॥ १३ ॥ वंदीजन जय जय करे रे, बोले विरुद सुचित ॥स०॥ वाजिंत्र वाजे अति घणां रे,
 सोहव गावे गीत ॥ स० ॥१४॥ दान देवे याचक प्रते रे, जे मागे ते तास ॥स० ॥ एहवे गौ
 ज्ञ देवता रे, उठव करे उट्टहास ॥ स० ॥१५॥ राजगृही रलियामणी रे, शिणगारी सवि
 तेह ॥ स० ॥ आकाशे देवडुंडुनी रे, वाजे ध्वनोश्री अठेह ॥ स० ॥१६॥ ठत्र धरे शिर ऊ
 परे रे, मेघामंवर देव ॥ स० ॥ चामर अति सोहामणां रे, वींजे विधित्री देव ॥स०॥ १७ ॥
 श्रेणिक सेचन गज चढी रे, चाले परिकरजुत ॥ स० ॥ अवर दिशे गौज्जजी रे, देव स्व
 रूप प्रयुक्त ॥स० ॥१८॥ मखिमय शिविकामें तिहां रे, पात्रल जडा मात ॥स०॥ भेघतणी
 परे वरसती रे, वसुधकी अधिक विख्यांत ॥ स० ॥ १९ ॥ इत्यादिक आमंवरें रे, चाड्या
 शालिकुमार ॥ स० ॥ धनोशाह पिण रुद्धित्री रे, आवी मिल्या तिणिवार ॥ स० ॥ २० ॥
 दूधमें जिम मिसरी मिल्ये रे, होवे अधिक सतेज ॥ स० ॥ तिम शालिज्जने तिणे समे रे,
 धनाश्री वध्यो हेज ॥ स० ॥२१॥ समवसरण आब्या वही रे, मडोटो करीय मंदाण ॥ स०

धना०
 १२५

॥ उत्रादिक देखी करी रे, ऊतरिया तिणे ठाण ॥ स० ॥ २२ ॥ पंचाङ्गिगम ते साचवी रे,
वंदे सवि नर नार ॥ स० ॥ रोमांचित हरषित तदा रे, धनो शालिकुमार ॥ स० ॥ २३ ॥
वेग प्रचुने वांदिने रे, लेवा संयम जार ॥ स० ॥ ढाल बावीशमी जिन कहे रे, चोशे
बडहासे उदार ॥ स० ॥ २४ ॥

॥ दोहा. ॥ तव श्री वीर जिनेसरू, देशना ये सुप्रकार ॥ श्रेणिक प्रमुख सकल
तिहां, सुणे विनयश्री सार ॥ १ ॥ शालिज्जड धनो तदा, मागे संयम शीख ॥ अहासुहं इम
उच्चरे, वीर वचन रस ईख ॥ २ ॥ कुण ईशाने आविने, ऊतारे आज्ञर्ण ॥ ते सघलां ज्ञज्ञ
प्रहे, उचितपणाश्री तूर्ण ॥ ३ ॥ पंचमुष्टि करे लोच जव, शालिकुमर अइ धीर ॥ सजल
नयनश्री तव कहे, ज्ञज्ञ वयण गंज्नीर ॥ ४ ॥ यतना करजे जात तुं, आलस तजजे दूर ॥
पूर्ण पराक्रमश्री धरे, संयम मार्ग सनूर ॥ ५ ॥ चारित्र चिंतामणितणां, करजे कोरि यत
त्र ॥ फिरि फिरिने नथी पामवो, एह अमुल्य रतन्न ॥ ६ ॥ जो उंड्या उ जोगने, विष स-
म जाणी अत्र ॥ तो रखे लालच राखतो, सुंदर लही अन्यत्र ॥ ७ ॥ तिम धन्नाने पिण
कहे, शीख वचन सुविदास ॥ पुत्री सुजज्ञ प्रमुखने, ज्ञज्ञ ये सावाश ॥ ८ ॥ प्रतिवृता
तुमे पदमिणी, धन धन तुम अवतार ॥ पति संयोग संयम ग्रह्यो, पादजो निरतीचार ॥

ए ॥ वेप धरा विधशुं सवे, आवे वार नैजाक ॥ वांदी कहे दीक्षा दियो, अहो समतारस
नीक ॥ १ ॥ वीर वास ठवीसरे, दीक्षा शिक्षा रूप ॥ आपीने हवे उपदिसे, देशना अतिहे
अनूप ॥ ११ ॥

॥ ढाल १३ मी. ॥ (तुंगीया गिरि शिखर तोहे.—ए देशी.)

वीर मधुरी वाणी जंपे, सुणे परपद बार रे ॥ हृदय विकसित करी निसुणे, धन्न शा-
लि अणगार रे ॥ वीर० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ चारित्र उपर सुणो उपनय, राजगृहिमें रंग
रे ॥ धन्नोसार्थप सुगुण निवसे, ज्ञज्ञ स्त्री तल चंग रे ॥ वी० ॥ २ ॥ पूत्र चार सुरूप रूना,
धनपालने धनदेव रे ॥ धनगोपने वली धनरक्षित, करे तातनी सेव रे ॥ वी० ॥ ३ ॥ परणा
विया ते पुत्रने तव, शेठे घरी मन राग रे ॥ एक दिवसे रात्रि समये, चिंतवे महाजाग रे ॥
वी० ॥ ४ ॥ सकल नगरमें मुजने पूठे, कार्य कामे लोक रे ॥ नातिमें पिण सहु माने, वच
न न करे फोक रे ॥ वी० ॥ ५ ॥ हवे मुजने कालधरमे, अथवा कोइक काज रे ॥ ऊपने
मुज घरतणो सवि, राखशे कुण राज्य रे ॥ वी० ॥ ६ ॥ योग्य जाणी ज्ञार घरनो, सांपवो
निरधार रे ॥ विचाख्या विण ज्ञार सांपे, करी नांखे खवार रे ॥ वी० ॥ ७ ॥ यतः ॥ मालि
नीवृत्तम्. ॥ यदि शुभ्रमशुभ्रं वा कूर्वतां कार्यजातं, परिणतिरवधार्या यत्ततः पंक्तिन ॥ अ-

ति रत्नसकृतानां कर्मणामाविपत्ते, र्जवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥१॥ ज्ञावार्थः—
 काम करनारा माणसने काम करतां, जो कदि सारुं अथवा नरसुं जे थाय, तो तेनी परिण
 ती पंरित पुरुषे यत्नथी अवधारवी जोइए; कारण के उतावलथी करेला कामोनो विपाक,
 ज्यां सूधी ते संवंधी विपत्ति रहे ठे, त्यां सूधी हृदयने वाले ठे अने एक शल्य सरखो साले
 ठे. ॥ १ ॥ प्रजाते सवि सयण पोषी, तेरि बहुअर चार रे ॥ पांच पांच कण शालि केरा,
 दिये करी मनोहार रे ॥ वी० ॥ ७ ॥ मागीए जव अमे तुमथी, देजो ए कण पंच रे ॥ चा
 र बहुने शीख सुपरे, दिये जोई संच रे ॥ वी० ॥ ८ ॥ चारे बहु कण लेइ चाली, पहोती
 निज निज ठाम रे ॥ वनी चिंते एह कणथी, सीऊशे शो काम रे ॥ वी० ॥ १० ॥ माग-
 शे तव अन्य देशुं, नांखी धे इम जाणी रे ॥ बीजीए कण जहू कीधा, स्वसुर हस्त प्रमा-
 ण रे ॥ वी० ॥ ११ ॥ त्रीजी चिंते तातजीए, दीधा कारण कोय रे ॥ यतन करीने गुप्त
 स्थानक, राख्या युगते सोय रे ॥ वी० ॥ १२ ॥ लघु वधु मनमें विमासे, वधारुं एह बीज
 रे ॥ पीयरे जइ शक्यकरने, दीये करी घणी रीऊ रे ॥ वी० ॥ १३ ॥ ए पांचे कण सुपरे
 करीने, वावज्यो शुज ठाम रे ॥ कण हुवे तव सर्व लेई, राखज्यो कोइ धाम रे ॥ वी० ॥

१ खेती करनारने.

१४ ॥ जिम कह्यो तिम तिणे कीधो, बीजनी अइ वृद्धि रे ॥ वली बीजे वरस आवे, खेत्र
 खेनी समृद्धि रे ॥ वी० ॥ १५ ॥ बीज सघळो तिहां वाय्यो, अइ बहुली शालि रे ॥ वरस
 पांचलगें एम करतां, कण अया असराळ रे ॥ वी० ॥ १६ ॥ जरी कोठा करी मुडा, लघु व
 धु मन रंग रे ॥ पांच वरपे फिरी तेज्यो, कुटुंब सवि उठरंग रे ॥ वी० ॥ १७ ॥ वनी बहु
 बोलावी वेगे, मागे कण ते पंच रे ॥ तव तुरतमें आणी दीधा, करी नहीं खलखंच रे ॥ वी०
 ॥ १८ ॥ सुसरो कहे ए कण न माहरा, करो सपथ सुसंग रे ॥ तव कहे में नांखि दीधा,
 एह अवर अन्नंग रे ॥ वी० ॥ १९ ॥ वयण निसुणी स्वसुर कोप्यो, कहे राखी रीश रे ॥
 गाण लींपणतणो कारज, करे तुं निश दीश रे ॥ वी० ॥ २० ॥ उज्जिता तस नाम देई, रा-
 खी गृहने द्वार रे ॥ हवे बीजी वधु बोलावी, मागे कण तिणिवार रे ॥ वी० ॥ २१ ॥ ते क
 हे में जक कीधा, सुणी कोप प्रकास रे ॥ जहिका तस नाम थापी, करी रांधण तास रे
 ॥ वी० ॥ २२ ॥ बीजी प्रते तेनी तिवारे, आवी प्रणामे पाय रे ॥ तेह कण यतने करीने,
 दीए अति उज्जाह रे ॥ वी० ॥ २३ ॥ स्वसुर पूछे कह्यो बहुजी, कण अवर के तेह रे ॥ ताम
 कहे वधु तेह निश्रय, इहां नही संदेह रे ॥ वी० ॥ २४ ॥ रहिका तस नाम थापी, सों-
 प्या सयल जंकार रे ॥ लघु बहुषें लान्थी तव, मागे कण सुप्रकार रे ॥ वी० ॥ २५ ॥ ह-

सी कहे तव तेह वाला, शकट द्यो दश वीश रे ॥ जिम तुमारा कण ग्रहीने, लावीए सुज
 गीश रे ॥ वी० ॥ २६ ॥ सुणी ससरो चित्त हरखयो, देखो बुद्धि विलास रे ॥ रोहिणाचल
 परें रूनी, नाम रोहिणी खास रे ॥ वी० ॥ २७ ॥ घर जार सधलो दियो तेहने, योग्य जा
 णी ताम रे ॥ पंचमें पिण वधी शोजा, अयो इच्छित काम रे ॥ वी० ॥ २८ ॥ इम जेह दी
 हा लेइ उजित, करे ते मति मूढ रे ॥ हीलणा इह लोक पावे, नरके जावे गूढ रे ॥ वी०
 ॥ २९ ॥ लेइ संयम नदरवृत्ते, व्रततणो करे जह रे ॥ जहिकापरे पेट जरतां, कह्यो नही
 ते दह रे ॥ वी० ॥ ३० ॥ व्रत धरीने जंग न करे, पाले निरतिचार रे ॥ रहिका परे मान
 पामे, परजवे शिव सार रे ॥ वी० ॥ ३१ ॥ रोहिणी परे जे वधारे, व्रततणा गुण रंग रे ॥
 उपदेशथी पिण वूजवे वली, तरे तेह सुचंग रे ॥ वी० ॥ ३२ ॥ शेठ जिनवर शिष्य ते वधु,
 पंच कण व्रत पंच रे ॥ ते वधारे तेह पामे, विपुल शिव सुख संच रे ॥ वी० ॥ ३३ ॥ ते
 जणी व्रत लेइ पालो, रोहिणी सम धीर रे ॥ एह उपनय कह्यो तुमने, इम कहे श्री वीर
 रे ॥ वी० ॥ ३४ ॥ सुणी परषद सवे हरखी, शालि धनो तेम रे ॥ त्रेवीरामी ढाल जिन
 कहे ए, चोथे उढहासे एम रे ॥ वी० ॥ ३५ ॥

॥ दोहा ॥ जडा कहे करजोमिने, सुणो एक अरदास ॥ ए सुत थापणनी परे,

सोंपुं वुं तुम पास ॥ १ ॥ दुःख दीगो नथी सुपनमें, सुखोपवित ठे एह ॥ तप जप करतो
 एहने, जालवज्यो धरि नेह ॥ २ ॥ तुमने ए बालकतणी, घणी जलामण आज ॥ शी दी-
 जे सुपरें करी, देतां लागे लाज ॥ ३ ॥ पुत्र जमाई पुत्रिका, अति वद्वज्ज जग मांइ ॥ ते
 त्रिएये तुमने अमे, वहोराव्या सोच्चाइ ॥ ४ ॥ इम कही वांदी वीरने, पुत्रादिकने तेम ॥ वां
 दी बहु तेनी घरे, जज्ञा आवी एम ॥ ५ ॥ सुत विरहे जूरे घणुं, तिम पति विरहे नारि ॥
 वीर धीर पण तिहां थकी, करे अन्यत्र विहार ॥ ६ ॥ शालिज्जइ धन्नो हवे, जणे ते अंग इ
 ग्यार ॥ तप इस्तप करे तिम वली, चारित्र निरतीचार ॥ ७ ॥ वारे वरषे विचरतां, तारण
 जवजल तीर ॥ राजगृहीमें रंगशुं, समवसस्था श्री वीर ॥ ८ ॥ शालिज्जइ धन्नातणी, आ-
 व्यानी सुणी वात ॥ देवे लाख वधामणी, ताम ते जज्ञा मात ॥ ९ ॥

॥ ढाल १४ मी. ॥ (मुखने मरकले.-ए देशी.)

तव जज्ञा जणे जावे जी, मुखथी इम जांखे ॥ बहु सघलीने समजावे जी, सुपरें
 करी दाखे ॥ फल्यां जाग्य अनूप तुमारां जी, सु० ॥ आव्या पुत्र जमाई अमारा जी ॥
 सु० ॥ १ ॥ वली आव्यां सुजज्ञा वाईजी, सु० ॥ एहनी पूरण पुण्य कमाई जी ॥ सु० ॥
 आज आंगणे अमीरस वूव्या जी, सु० ॥ इष्टदेव आवीने तूव्या जी ॥ सु० ॥ २ ॥ जेहनी

जोतां घणी वाट जी, मु० ॥ अहू निशि करता ऊचाट जी ॥ सु० ॥ तेह आव्या पुण्य पसा
ये जी, मु० ॥ नाम लेतां आणंद प्राये जी ॥ सु० ॥ ३ ॥ वंदन सामग्री कीजे जी, मु० ॥ धनके
रो लाहो लीजे जी ॥ सु० ॥ तुमे सोल सजो शिणगार जी, मु० ॥ पहिरो वली वेश सफार
जी ॥ सु० ॥ ४ ॥ घणे दिवसे नूषण काढो जी, मु० ॥ आज हृदय अयो मुज ताढो जी ॥
मु० ॥ सामग्री वंदणकेरी जी, मु० ॥ करे सुतने स्नेहे जलेरी जी ॥ सु० ॥ ५ ॥ एटले धन्नो
शालि सुसाध जी, मु० ॥ वंदे वीरने निरबाध जी ॥ सु० ॥ मागे शीख गौचरीने काज जी,
मु० ॥ मासखमणनो पारणो आज जी ॥ सु० ॥ ६ ॥ कहे वीर सुणो वढ वात जी, मु० ॥
मात हाथे आहार सुख्यात जी ॥ सु० ॥ सुणि शालि मुनीश्वर हरखी जी, मु० ॥ धन्ना
साथे इरजा निरखी जी ॥ सु० ॥ ७ ॥ तेह गौचरिये तिहां जावे जी, मु० ॥ निज माताने घ
रे आवे जी ॥ सु० ॥ स्त्री बेठी तनु शिणगारे जी, मु० ॥ पिण पति नवि नुलख्यो त्यारे जी
॥ सु० ॥ ८ ॥ आदर तव किणही न दीधो जी, मु० ॥ वलि आहार न मिढ्यो तिहां सीधो जी
॥ सु० ॥ ९ ॥ धन्नो शालि नइ विचारे जी, मु० ॥ वीर वचन हृदय संजारे जी ॥ सु० ॥ १० ॥ तव ति
हांथी पाठा वलिया जी, मु० ॥ पिण किणही तेह न कलिया जी ॥ सु० ॥ मारगमें मिला
महियारी जी, मु० ॥ विनयानत अइ सुपियारी जी ॥ सु० ॥ १० ॥ देखि शालिने उद्धसित

धना०
१२ए

प्राये जी, सु० ॥ तस हृदयमें हरख न माये जी ॥ सु० ॥ विकसीत वदने इम बोले जी,
 सु० ॥ बोहरो देहीं एम अतोले जी ॥ सु० ॥ ११ ॥ वे साधुना परघा पूर्या जी, सु० ॥ न
 वि राख्या कांइ अधूरा जी ॥ सु० ॥ बहोरीने स्थानक आवे जी, सु० ॥ वीर वांदी अधिके
 ज्ञावे जी ॥ सु० ॥ १२ ॥ तिहां गमनागमन आलोवे जी, सु० ॥ करजोमी वीरने पूठे जी
 ॥ सु० ॥ तुमे मात कही हती स्वामी जी, सु० ॥ दधि दाता ए अन्य पामी जी ॥ सु० ॥
 १३ ॥ तव वीर कहे तुम माता जी, सु० ॥ पूरव जवनी सुविख्याता जी ॥ सु० ॥ सवि पू
 रव जव परकाशो जी, सु० ॥ शालि मुनिवरे जेह अन्याशो जी ॥ सु० ॥ १४ ॥ सुणि शा
 लि तइति विचारे जी, सु० ॥ निज पूरव जव चित्त धारे जी ॥ सु० ॥ जुठ पूरव जवे हुं
 गोवाल जी, सु० ॥ इले जवे न गण्यो जूपाल जी ॥ सु० ॥ १५ ॥ वख खंन न मिलतो सा
 जो जी, सु० ॥ (गत जवे) मुज अन्न न मिलतो ताजो जी ॥ सु० ॥ आ जव रत्नकंबल लो
 धां जी, सु० ॥ स्त्रीये पग लूही नांखी दीधां जी ॥ सु० ॥ १६ ॥ पायसान्न ते डुल्लहो पायो
 जी, सु० ॥ पूरव जवे परिश्रमे आयो जी ॥ सु० ॥ इह जवे दिव्य जोजन कीधां जी, सु०
 मनवंगित दिन सवि सीधां जी ॥ सु० ॥ १७ ॥ गत जवे एक कवरी न पाई जी, सु० ॥ इ
 ह जवे वलि लक्ष्मी आई जी ॥ सु० ॥ एक साधुना दान प्रजावे जी, सु० ॥ ए पाक्यो सुख व

मदावे जी ॥सु०॥१७॥ धन धन जिनधर्म आधार जी, मु०॥ जेहथी सुख लहीए सार जी॥
सु० ॥ चोवीशमी चोथे नुटहासे जी, मु० ॥ ढाल सुंदर जिन इम ज्ञासे जी ॥सु०॥१८॥

॥ दोहा. ॥ वीर नमिने विनयथी, ते बिहुं मुनि शिर ताज ॥ मासखमणनो पार-
णो, करे तनु १जाठक काज ॥ १ ॥ शालिज्जड धनो मिली, करे वैराग्य विचार ॥ काया ब
ल काचां थयां, करिये अणसण सार ॥ २ ॥ ज्ञाहुं देता जे ज्ञणी, तेह तो काज न थाय ॥
ते माटे वोशिरावीए, साधीये शिवसुख थाय ॥ ३ ॥ प्रत्यूषे श्री वीरने, प्रणमी मागे शीख
॥ अणसण तुम आणा थकी, आदरिये जिम ईष ॥ ४ ॥ वीर कहे जिम सुख होवे, तिम
आराधो हेव ॥ विलंब न करवो एहमें, हे श्मुरप्रिय स्वयमेव ॥ ५ ॥

॥ ढाल १५ मी. ॥ (निंदा न कीजे कोइनी पारकी रे.—ए देशी.)

आज्ञा लही श्री वीर जिणंदनी रे, हरख्या मनमें साधुजी ताम रे ॥ त्रिण्य प्रद-
क्षिणा देयने रे, वांदे विधिथी जिन अन्निराम रे ॥ आज्ञा ० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ पुनरपि
पंच महाव्रत ऊचरे रे, आलोइ सयल अतिचार रे ॥ गौतमादिक अणगारने रे, विधिगुं
खमावे वारंवार रे ॥ आ० ॥ २ ॥ चंदनवाला प्रमुख महासती रे, तेहगुं पिण खामे टाली

१ ज्ञाहुं. अर्थात् शरीरने ज्ञाहुं आपना माटे आहार करे.

२ देवानुभिय.

घना
१३०

शल्य रे ॥ गौतमस्वामाने साधे लेयने रे, चढ्या वैजारे अइ निर्मल्य रे ॥ आ० ॥ ३ ॥ शा
म शिलाने पन्डिहेही तिहा रे, कीधा संशारा अणसण काज रे ॥ चार आहारने पचख्या
प्रमशुंरं, चारे शरणां करे रुपिराज रे ॥ आ० ॥ ४ ॥ लाख चोराशी जीवायोनिने रे, खमेने
खमावे शुभ्र जाव रे ॥ शत्रु मित्र सवे सरिखा गणे रे, त्रिकरण राखीने इक जाव रे ॥
आ० ॥ ५ ॥ पादोपगमन अणसण आदस्यो रे, जावज्जीवलगे करि जोर रे ॥ काया वोशरावी
काच। जाणिने रे, इंडिने वश कीधां देखी चोर रे ॥ आ० ॥ ६ ॥ मदने मदिरा सम जाणी वो
दिया रे, राग छेपने राख्या ते करी दर रे ॥ जयनो जय टादीने निर्जय थया रे, खेले ते
समता गंगने पूर रे ॥ आ० ॥ ७ ॥ सुमति गुपतिने चित्तमांहे धरी रे, जावे जावे जावना
वार रे ॥ आत्म स्वरूप प्रते अवगाहता रे, मन धरे ध्यान तिहां अविकार रे ॥ आ० ॥ ८ ॥
एहवे ज्ञाये सामग्री सजी रे, बहु वत्रीशेने लेई साध रे ॥ श्रेणिक नृपने साधे तेनीया रे,
जेटवा जावे श्री जगनाथ रे ॥ आ० ॥ ९ ॥ वाजिंत्र वाजे विविध प्रकारनां रे, गाजते धन
सम अंवर नाद रे ॥ अधिक उहवथी आवी वांदवा रे, मनमांही धरती अति आल्हाद रे ॥
आ० ॥ १० ॥ आवीने वांदे जिनवर वीरने रे, विधिशुं चित्तथी धरिय उदहास रे ॥ साधु
सर्वेने निरखे खांतिशुं रे, शालिजइ तिहां नवि देखे पास रे ॥ आ० ॥ ११ ॥ धन मुनिवरने

नु ४

१३०

पिण दीठा नही रे, नपन्यो मनमें जज्ञाने विश्लेष रे ॥ शुं किहां ध्यानादिकने लेयने रे, बे-
 गा हुशे ते शुज स्थल देख रे ॥ आ० ॥ ११ ॥ पूठे करजोनी जिनपति वीरने रे, शालिज्ज
 घन्नो ठे किण ठाम रे ॥ वीरं वृत्तांत सवि विवरी कस्यो रे, जिहां लगे पढोत्या अणसण
 काम रे ॥ आ० ॥ १३ ॥ ततक्षण ज्ञज्ञ सुणि विलखी अई रे, रुदन करे तिहां असरात्त रे ॥
 दुःखथी दाऊी धरणीए पनी रे, तिम वली तिहां बत्रीशे बाल रे ॥ आ० ॥ १४ ॥ दवमां-
 ही दाऊयां पंख फरफरे रे, तिम तरफमे विरहे नार रे ॥ चौथे उट्हासे ढाल पचवीशमी
 रे, कहे जिन स्नेह बंधन ते असार रे ॥ आ० ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ ज्ञज्ञ बहुअर तेमिने, चाली चतुरां वेग ॥ रुदन करंती रानमें, पुत्र वि-
 रह नछेग ॥ १ ॥ पगमें खूचे कांकरा, कांटा ठेस अपार ॥ कष्ट घणो खमती अकी, पढो-
 ती ते वैज्जार ॥ २ ॥ गिरि उपर चढी लरुथनी, देखी पोढ्या दोय ॥ धलक देइ धरणी ढ-
 ली, मूर्गीगत अइ सोय ॥ ३ ॥ पवने पामी चेतना, देखे पुत्रनुं रूप ॥ मांस रुधिर शोषीत
 पणे, अति कश्य अस्थि सरूप ॥ ४ ॥ हाहाकार करे तिहां, पुत्र विरहथी तेह ॥ आ शो
 कष्ट तें आदस्यो, अहो पुत्र गुणगेह ॥ ५ ॥

॥ ढाल १६ मी. ॥ (घर आवो रे मन मोहन घोटा.-ए देशी.)

जीव जीवन तुं वल्लभ वेटा, तुं आधार अतीव वेटा ॥ तुं कुलमंरुण माहरे वेटा,
 तुं हितकरण सदैव वेटा ॥ हसि बोलोने मन मोहन वेटा ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ तुं मुज
 आपद वारक वेटा, गारक चित्त सु गाम वेण ॥ तुज सम अवर न माहरे वे०, आशानो वि
 सराम वे० ॥ ह० ॥ २ ॥ तुं कुल अंवर दिनमणी वे०, तुं सुकुलीन सुजात वेण ॥ तुं कोम
 लचित्त कारक वे०, सुण सुण मातनी वात वे० ॥ ह० ॥ ३ ॥ हुं मनमांही जाणती वे०,
 मलशे वार वे चार वे० ॥ होंश घरी पन्डिताज्ञशुं वेण, करशुं सफल अवतार वे० ॥ ह० ॥
 ४ ॥ तुं तो आंगणे आवीयो वे०, करवा मातनी सार वेण ॥ पिण में तुजने न जाणीयो वे०
 हुं जूली तिणिवार वे० ॥ ह० ॥ ५ ॥ ए दुःख मुजने घणो अयो वे०, दाऊया ऊपर लूण
 वे० ॥ तुं इणि रीते इहां रह्यो वे०, ते दुःख टालशे कूण वेण ॥ ह० ॥ ६ ॥ ते तपकरी काया दही
 वे०, फिरी गयो तुज आकार वे० ॥ आंगणे आव्यो न नलख्यो वेण, नवि पन्डिताच्यो ल-
 गार वे० ॥ ह० ॥ ७ ॥ हुं पुण्यहीन अच्युगणी वे०, मुजने पत्तो धिक्कार वेण ॥ कळपद्रुम परे
 आंगणे वे०, आव्यो न जाण्यो तिचार वेण ॥ ह० ॥ ८ ॥ धन धन ते तुज मावनी वे०, महि
 यारी गुणगेह वे० ॥ पुत्र जवांतरे नलख्यो वे०, साचो तेह सनेह वे० ॥ ह० ॥ ९ ॥ पूर्वे पिण
 पायसान्नी वे०, संतोष्यो हतो संत वेण ॥ आ जवे पिण तुम वांछित वे०, हित घरी दधि

दियो तंत वे० ॥ ह० ॥ १० ॥ जो हुं जाणुं तेहने वे०, तो थापूं घरमांहि वे० ॥ बहिन करी
ने लेखवुं वे०, सेवुं तस उछांहि वे० ॥ ह० ॥ ११ ॥ तुज विरहानल दाहणी वे०, दुःखणी तुं
इण काल वे० ॥ वचनामृत जलणी करी वे०, ठारो करिय संजाल वे० ॥ ह० ॥ १२ ॥ एकण
वार बोलाविने वे०, पूरो अम मन कोरु वे० ॥ गोद विठाइने वीनवुं वे०, पाय नमुं करजोरु
वे० ॥ ह० ॥ १३ ॥ प्राण हुशे हवे प्राहुणा वे०, तुं अणबोले इणिवार वे० ॥ वचन बे चार जे
बोलशो वे०, ते अम आशे आधार वे० ॥ ह० ॥ १४ ॥ इणिपरे विविध विलापणी वे०, रुदन
कस्यो असराल वे० ॥ चोपे उल्हासे उवीशमी वे०, कही जिनविजये ढाल वे० ॥ ह० ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ इणिपरे ज्ञाये घणा, कस्या विशेष विलाप ॥ निरखी निरखी शालि
ने, अति पामे संताप ॥ १ ॥ तेह काया तेह चातुरी, ते तनु तेज सुवास ॥ तपणी दाऊच्या
देखिने, ज्ञा अइ उदास ॥ २ ॥ ज्ञा विलविलते अके, तव बत्रीशे नारि ॥ प्रीतमने देखी
करी, करे विलाप अपार ॥ ३ ॥ शिर कूटे कर मुष्टिणी, हृदय पठाने हेव ॥ हाहारव मु
खणी कहे, ए शुं कीधुं देव ॥ ४ ॥

॥ ढाल १७ मी. ॥ (चांदलियोने ऊग्यो रे हरिणी आथमी रे.—ए देशी.)
नाहलिया निहेजा रे केम बोलो नही रे, अमणी तुमे इणिवार ॥ बार वरसणी आ

ज तुमे मिल्या रे, किम न करो पियु सार ॥ ना० ॥ १ ॥ ए आंकसी ॥ अमे तो निगुणी तुं
 सुण कंतजी रे, तुमे गो सुगुण निधान ॥ अमे तो तुमचो पालव जे ग्रह्यो रे, तेहनो न
 राख्यो रे मान ॥ ना० ॥ २ ॥ तुमे अम मस्तक मुगट शिरोमणी रे, अमे तुम चरणनी खे
 ह ॥ तुमे तो मेघ सघन ऋतुना सही रे, अमे तो पश्चिम निशि त्रेह ॥ ना० ॥ ३ ॥ तुमे तो
 मानसरोवर हंस गो रे, अमे तो मंरुक तुल्य ॥ तुमे तो वैदूर्य चिंतामणी सारिखा रे, अमे
 तुं कवनीने मूढ्य ॥ ना० ॥ ४ ॥ तुमे गज सरिखा गुणथी गाजता रे, स्वानोपम अमे ए
 ह ॥ सिंह परे डर्वर तुमे साहिवा रे, अमे शृगाल सरेह ॥ ना० ॥ ५ ॥ ते ज्ञणी अमने म-
 हेर करी हवे रे, निरखी नयण निहाल ॥ अमे दुःखीयांने देखी दया करो रे, जीवदया प्र-
 तिपाल ॥ ना० ॥ ६ ॥ अमे जूल्यां ते वेला अति घणुं रे, नवि जाण्या तुम कंत ॥ तेह गु-
 नह अम पड्यो ठे प्रीतया रे, खमज्यो तुमे मतिमंत ॥ ना० ॥ ७ ॥ माताजीने अमने अव
 गुणी रे, नवि वोलो इणि वार ॥ ते विरहानल दाऊचा ऊर रे, कंतजी कां दीयो खार ॥
 ना० ॥ ८ ॥ हवे अमनें तुम दरिशाण दोहिलो रे, देखवो आजप्री कंत ॥ ठेहलो मेलो कर-
 वा आवियां रे, अवधारो गुणवंत ॥ ना० ॥ ९ ॥ पद्मिनाच्यानी होंश हती घणी रे, करवा
 हाथ पवीत्र ॥ ते तो अमची पूरी नवि पनी रे, ए ए कर्म विचीत्र ॥ ना० ॥ १० ॥ लागे

अमने वीसरशे नही रे, जीवतां लगे जोर ॥ अंगण आव्या पिण नवि नलख्या रे, ते अम
 कर्म कठोर ॥ ना० ॥ ११ ॥ तुमे तो बालपणाशी प्रीतनी रे, पाली पूरण प्रेम ॥ वचन वि
 रोध न कीधो कोयशी रे, सहुगूं चिंतव्यो खेम ॥ ना० ॥ १२ ॥ हवे इण वेला बोलावो सु-
 खे रे, एटले लाख पसाय ॥ अमचो जीवित सफल हुवे सहो रे, कहु तुं गोद बिठाय ॥ ना०
 ॥ १३ ॥ इण वेलाये अणबोड्या रहो रे, ते अम जीवित शल्य ॥ अंत समय अवगुणवो जे
 करे रे, ते तो मरणने तुल्य ॥ ना० ॥ १४ ॥ कर दोय जोनी खोला पाथरे रे, कामिनी तेह
 वत्रीश ॥ पिण नवि जेदे साधु शिरोमणी रे, शालिज्ज मुनि सुजगीश ॥ ना० ॥ १५ ॥
 नयन उघानी पिण जोई नही रे, माता जामिनी कोय ॥ चोथे उड्हासे ढाल सत्तावीश-
 मी रे, जिन कहे धन धन सोय ॥ ना० ॥ १६ ॥

॥ दोहा. ॥ एहवे अजयकुमार तिम, श्री श्रेणिक नूपाल ॥ रुदन करंतां देखिने, स
 मजावे तिण ताल ॥ १ ॥ शो दुःख करवो एहनो, एणे अजुवाड्यो वंश ॥ जिनशासन शो
 ज्ञावियो, ए उत्तम अवतंस ॥ २ ॥ धन धन ताहरी कूखने, प्रसव्यो पुत्र रतन्न ॥ जोगी
 योगी जागतो, सकल कला संपन्न ॥ ३ ॥ वीरतणी तूं ज्ञारजा, वीर प्रसव साक्षात ॥ धी
 रज धर चित्तमें चतुर, तूं अइ जगत विख्यात ॥ ४ ॥ पुत्र जमाई विहुं जणे, साख्यां आत-

म-काज ॥ तेहजणी दुःख ठेरि ये, धरी आनंद समाज ॥ ५ ॥ तव जज्ञ धना प्रते, वांटे
विविध प्रकार ॥ धन धन तुम अवतारने, इम-कहे वारंवार ॥ ६ ॥ रमती परमती रोवती,
पाठी वली प्रवीण ॥ बहु बत्रीशे लेयने, आवी दुःखजरी दीन ॥ ७ ॥ वीर पासि व्रत आद
ख्यां, श्रावकनां सुविवेक ॥ वधु सहित पाले विधे, आतमश्री अतिरेक ॥ ८ ॥ पोखे पात्र प्र
सन्न मन, सेवे श्री जिनधर्म ॥ तप जप शक्ति सम करे, आराधे शिवधर्म ॥ ९ ॥ अंते अ-
णसण आदरी, पहोती ते सुरलोग ॥ महाविदेहे सीजशे, पामी केवल योग ॥ १० ॥

॥ ढाल १८ मी. ॥ (वर्तमान शासननो स्वामी.-ए देशी.)

हवे ते धनो धर्म धुरंधर, शालिज्ज मुनिराया जी ॥ करी संलेपण काया गाली, ध-
र्मध्यान मन ध्याया जी ॥ हवेण ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ एक मासनो अणसण पाली, दोष
सवे परजाली जी ॥ ॥ व्रत पचखाण सुपरे संजाली, उत्तम सदगति जाली जी ॥ ह० ॥ २
॥ काम क्रोध मद मत्तर ठंड्यो, सयणशुं स्नेह न मंड्यो जी ॥ मन मंत्रीने पकनी दंड्यो,
श्री जिनविजय न खंड्यो जी ॥ ह० ॥ ३ ॥ पुन्योदय अधिके करी पहोत्या, सर्वारथसिद्ध
विमाने जी ॥ शालिज्ज धनो दोइ मुनिवर, देव थया शुज्ज धाने जी ॥ ह० ॥ ४ ॥ तेत्री-
श सागर आयु अनोपम, जोगवशे जली रीते जी ॥ अन्योन्ये अहमिंइपणे ते, रहे ठे पूरण

प्रीते जी ॥ ह० ॥ ५ ॥ तिहांश्री चवी नरञ्जव ते लहेशे, क्षेत्र विदेह मजार जी ॥ इन्धकु
 ले धनवंत अईने, जोगवशे सुख सार जी ॥ ह० ॥ ६ ॥ गुरु देशन सुणी संयम लेई, पाल-
 शे निरतीचार जी ॥ अंते केवलज्ञान लहीने, पहोचशे मुगति मजार जी ॥ ह० ॥ ७ ॥ स
 तीय सुज्जडादिक आठे जे, चारित्र सु मने पाली जी ॥ अणसण करि सुरलोके पहोत्यां,
 निज आतम अजुआली जी ॥ ह० ॥ ८ ॥ एकावतारी ते सुविचारी, लही मानव अवतार
 जी ॥ संयम संगे निर्मल रंगे, लहेशे शिव श्रीकार जी ॥ ह० ॥ ९ ॥ देखो दानतणां फल
 प्राणी, धन्नाशाहे पाम्या जी ॥ संपद लह्यो सवि ठामे ठामे, कीधां सघलां कामो जी ॥
 ह० ॥ १० ॥ श्वांधवमें अधिको श्बुद्धिमें अधिको, श्यापारे बहु दाम जी ॥ धकलाकुशल
 अति पशूरपणो तिम, दपरदेशे धन धाम जी ॥ ह० ॥ ११ ॥ उनृप पुत्री परणयो निज नय
 श्री, एवूण्यो अवला हास्ये जी ॥ ए आठे अचरिज धन्नाने, कवियण सयल प्रकासे जी ॥
 ह० ॥ १२ ॥ यदुक्तं चरित्रेः ॥ वंशस्थवृत्तम् ॥ सोद्गातृमग्रं विविधाश्च बुद्ध्यः, ऋथेमृदादेर-
 पि हेमसिद्ध्यः ॥ कला सुकौशल्यमतीव शूरता, श्रियोविदेशेपि सुखैकसंगता ॥ १ ॥ अ-
 पि प्रियानर्मगिरावृताव्रति, वणिगजनत्वेपि नृपत्वसंपदः ॥ इमानि धन्ये नितरामनुत्तरा, न्य
 ष्ठावपिस्यष्टतराणिविष्टपे ॥ २ ॥ ज्ञावार्थः—१ सर्वोत्तम बांधवोनुं हित चिंतवन, २ विविध

धना०
१३४

प्रकारनी बुद्धियो, ३ माटी खरिदवामां पण (तेजमतूरी नीकलवाथ्री) सुवर्णसिद्धियो, ४ कलान्ने विपे कुशलपणुं, ५ घणुंज शूरातन, ६ परदेशने विपे पण सुखे सुखे लक्ष्मीयो मे लवी, ७ स्त्रीनी मश्करी रूप वाणीथ्री व्रत लेवां अने ८ वणिक जन ठतां पण, राजानी दो लत; ए आठे हम्मेशां धन्न कुमरने विपे सर्वोत्तम हतां ॥ १ ॥ २ ॥ १देवजोग नरजवे जोग विया, ३कनक निर्माट्य ते कीधो जी ॥ ३राजा श्रेणिकने किरियाणो, लेवा आदेश दीधो जी ॥ ६० ॥ १३ ॥ ४राजमान अपमान ते जाणयो, ए आश्चर्य अतोले जी ॥ चारे अन्नूत शालिकुमरने, सहु को पंमित बोलेजी ॥ ६० ॥ १४ ॥ यडुक्तं चरित्रेः ॥ स्वर्गोपजोगीनृप- तिक्रयाणकं, सुवर्णनिर्माल्यमन्नूतस्रगादिवत् ॥ नरेंद्रमानेप्यपमानचिंतनं, शालेर्महाश्चर्य- मिदंचतुष्टयं ॥ ३ ॥ ज्ञावार्थः—१ स्वर्गनो उपजोग करवो, २ राजाने करियाणुं गणवुं ३ फू- लनी मालादिकनी पेठे सुवणने निर्माल्य गणवुं अने ४ राजाना मानने अपमान गणवुं; ए चार वानां शालिज्जने विपे महोटां आश्चर्यकारक हतां ॥ ३ ॥ अनुत्तरं दानमनुत्तरं तपो, ह्यनुत्तरं मानमनुत्तरो यशः ॥ धन्यस्यशालेश्वगुणाअनुतराः, अनुत्तरंधैर्यमनुत्तरंपदं ॥ ४ ॥ ज्ञावार्थः—सर्वोत्कृष्ट दान, सर्वोत्कृष्ट तप, सर्वोत्कृष्ट मान, सर्वोत्कृष्ट यश, सर्वोत्कृष्ट धैर्य अने सर्वोत्कृष्ट पद एटले सर्वार्थसिद्ध विमानः ए सर्वे धन्नकुमरना अने शालिज्जकुमरना

सर्वोत्कृष्ट गुणो हता. ॥ ४ ॥ एह धन्ना शालिन्नस्तणा गुण, स्वल्प बुद्धिरी गाया जी ॥
 रसना पावन निर्मल गुणधी, लाज अनंता पाया जी ॥ ह० ॥ १५ ॥ श्री जिनकीर्तिसूरी-
 श्वर विरचित, संस्कृत चरित्र निहाली जी ॥ ए अधिकार रच्यो में सुंदर, निज गुरु वयण
 संजाली जी ॥ ह० ॥ १६ ॥ अधिको उंगे रत्नस पणाधी, कुटिलबुद्धि संकेते जी ॥ ते
 मुज मिन्हाडुक्कम होज्यो, कहुं निज आतम हेते जी ॥ ह० ॥ १७ ॥ श्री तपगण्डपति तेज
 दिवाकर, श्री विजयकृमासूरि राया जी ॥ तस पट्टांबर दिनमणि सांप्रति, श्री विजयदया
 सूरि पाया जी ॥ ह० ॥ १८ ॥ तेह तणो आदेश लहीने, रास रच्यो ए रूमो जी ॥ चोरा-
 शी ढाले संपूरण, चार उडहासशुं जोड्यो जी ॥ ह० ॥ १९ ॥ संवत सत्तरशे नवाणुं, वरषे
 श्रावण मासे जी ॥ शित दशमी गुरुवार अनोपम, सिद्धियोग सुबिलासे जी ॥ ह० ॥ २०
 ॥ दानतणां फल उत्तम जाणी, देजो दान विलासे जो ॥ ढाल अठावीशमी जिनविजये,
 कही चोथे उडहासे जी ॥ ह० ॥ २१ ॥

॥ दोहा. ॥ दान पंच जिन दाखियां, अजय सुपात्र उत्तंग ॥ अनुकंपा उचितादि
 तिम, कीर्तिदान मन रंग ॥ १ ॥ अजय सुपात्रे मोक्षफल, शेष त्रिणय सुख जोग ॥ लहिये
 दानतणे गुणे, इप्सित सयल संयोग ॥ २ ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम्. ॥-अजय सुपत्तंदाणं,

अणुकंपा उचिय किञ्चिदाणाइं ॥ दुन्निवि मोस्को जणिउ, तिन्निवि सुस्काइयं दिंति ॥ १ ॥
 ज्ञावार्थः—अन्नयदान, सुपात्रदानं, अनुकंपादान, उचितदान अने कीर्त्तिदान; ए पांच प्रकार
 ना दानमां प्रथमनां वे दान पण मोक्षने आपे ठे अने वाकीनां त्रण दान पण सुख जोगा-
 दिकने आपे ठे ॥ १ ॥ अन्नयदानश्री सयल सुख, पाम्या शांतिजिणंद ॥ पात्रदानश्री परम
 पद, श्री श्रेयांस कुमरेइ ॥ ३ ॥ अनुकंपाश्री पिण अधिक, जश पाम्या जगमांइ ॥ मुंज
 जोज विक्रम करण, प्रमुख नृपति सोह्वाइ ॥ ४ ॥ ते माटे जवि जन तुमे, देज्यो दान सु-
 पात्र ॥ नरजवनो ए लाज ठे, शुचि करण निज गात्र ॥ ५ ॥

॥ ढाल एण मी. ॥ (दीगो-दीगो रे वामाको नंदन दीगो.—ए देशी.)

श्री गुरु देव प्रसादे पूरण, वंठित इच्छित पाया ॥ दान कल्पद्रुम रास रचंते, आणंद
 अधिक उपाया रे ॥ में दानतणा गुण गाया ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ जिम कल्पद्रुम वंठित पू-
 रे, तिम ए शुजफल दाता ॥ दानादिक अधिकार अनोपम, वायाश्री सुखशाता रे ॥ में ॥
 २ ॥ मंगलाचरण ते मूल मनोहर, सुनय ते पीठ प्रकास ॥ वचन युक्ति ते स्कंध विराजे,
 चार शाखा उल्हास रे ॥ में ॥ ३ ॥ नव नव रूपे ढालनी रचना, प्रतिशाखा प्रतिज्ञासे
 ॥ दोकध पत्र सदा नवपल्लव, सूक्त पुष्प सुवासे रे ॥ में ॥ ४ ॥ शुज फल ते तस अर्थ

नो कहेवो, रीऊववो ते स्वाद ॥ श्रोता पंखी विविध जातिना, स्वाद ग्रहे अन्न मादरे ॥
 में० ॥ ५ ॥ रक्तक ते गुरु वक्ता समजुं, कल्पद्रुमनो स्वामी ॥ ते पासेथी फल मागीजे,
 आतमने हित कामी रे ॥ में० ॥ ६ ॥ ए फल स्वादनथी दुःख जावे, लहिये मंगल मावो ॥
 देशी विविध प्रकारे विधिंशुं, स्व स्वरथी करी गावो रे ॥ में० ॥ ७ ॥ श्री तपगुह सूरेश अ-
 नोपम, श्री विजयदेवसूरिंदा ॥ गौतम जंबू वयर समोवरु, गुणथी तेह मुणिंदा रे ॥ में०
 ॥ ८ ॥ तस पट्टे श्री विजयसिंह गुरु, मुनिजन कैरव चंदा ॥ गुणमणी रोहण नूधर ऊपम,
 संघ सकल सुखकंदा रे ॥ में० ॥ ९ ॥ मेदपाट पति राणा जगतसिंह, प्रतिबोधी जश ली
 धो ॥ पल आखेटक नियम करावो, श्रावक सम ते कीधो रे ॥ में० ॥ १० ॥ तास शिष्य
 सुविहित मुनि पुंगव, बुध गजविजय सवाया ॥ शांति सुधारस परम महोदधि, उत्तम
 सुयस उपाया रे ॥ में० ॥ ११ ॥ तस सेवक कोविद शिर शेखर, हितविजय गुरु राया ॥ षट
 दर्शन आगम जलनिधिमें, बुद्धि जिहाज तराया रे ॥ में० ॥ १२ ॥ तास शिष्य पंक्ति जि-
 त सिंधूर, ज्ञानविजय मन ज्ञाया ॥ तास सतीर्थ विबुध जिनविजये, गिरुआना गुण
 गाया रे ॥ में० ॥ १३ ॥ श्री महावीरने वारे मनोहर, पंच पुरुष सु कहाया ॥ लब्धिपात्र श्री
 गौतम गणधर, बुद्धे अन्नय सुहाया रे ॥ में० ॥ १४ ॥ माने दशरणाज्ज महाबलि, कयवन्नो

सौजाग्ये ॥ रुद्धि वृद्धि श्री शालिज्ज इतिम, नाम लीय जय जागे रे ॥ में ॥ १५ ॥ शालिज्ज
 इ धनो रुपिराया, जेदना सुजश गवाया ॥ नाम लियंतां पातिक नासे, निर्मल श्राये काया
 रे ॥ में० ॥ १६ ॥ तपगहमे पंफित वैरागी, दीपविजय बुद्ध राया ॥ तेहना शिष्य संवेगी
 सुंदर, कवि दयाविजय सवाया रे ॥ में० ॥ १७ ॥ तस पद सेवक कृष्णविजय वर, धर्मश्र-
 की धरे माया ॥ तस आग्रहश्री रासनी रचना, कीधी गुरु सुपसाया रे ॥ में० ॥ १८ ॥ उ
 त्तम एह चरित्रज जाणी, ज्ञाव अनोपम लाया ॥ सुविहितना गुण ज्ञणते सुणते, श्रोता
 अति सुख पाया रे ॥ में० ॥ १९ ॥ वृहोपरि ए ढाल पताका, रूप कही मनरंगे ॥ सूरतिमं
 रुण पास पसाये, सूरतमें सुख संगे रे ॥ में० ॥ २० ॥ चार उल्हासे अधिक विलासे, दान
 कल्पद्रुम गायो ॥ बुध जिनविजय कहे विस्तरज्यो, शत शाखाये सुढायो रे ॥ में० ॥ २१ ॥

इति श्री धनशालिचरित्रे प्राकृतप्रबंधे दानकल्पद्रुमाख्ये चतुर्थशाखारूपधनशालिसंयम
 ग्रहणवर्णनानिघोचतुर्थोल्हासः समाप्तम् ॥ अस्मिन्नोल्हासे ढाल ॥ २९ ॥

प्रथमोल्हासे ढाल १७, द्वितीयोल्हासे ढाल १७, तृतीयोल्हासे ढाल २२, चतुर्थोल्हासे
 ढाल २९ ॥ सर्व ढालो ८९ ॥

॥ अथ पंक्ति श्री जिनविजयसहाराज विरचित ॥

॥ श्री धन्नाशालिभद्रनो रास ॥

॥ समाप्त ॥



2

1

